Vol.24, Issue 8 | Annual Subscription ₹ 480

जून 2025

@NewsRotary /RotaryNewsIndia

रोटरी समाचार

भारत

www.rotarynewsonline.org



Rotary

WE INVITE YOU
RJ GARBAGE BANK
WITH
ROTARY CLUBS OF INDIA
PLOG WITH ROTARIANS
Plogging: Jogging+Picking up litter
Come! Get fitter and help clean up your city at the same time.
• Bags, Gloves, Tabard, Picker shall be provided by RJ Garbage bank.
• Plogging E-certificate for all participants
• Book your Sunday Morning if a minimum of 30 and a maximum of 50 of your club members are ready to volunteer.
• Let's take this chance to keep our nation clean by setting up a Green point and ensure all our collected recyclables are transferred to respective recycling units.
RJ GARBAGE BANK
குப்பை வங்கி
Meri LiFE
एक कदम स्वच्छता की ओर
KNOW MORE ABOUT PLOGGING
rj_garbagebank
www.ilovewaste.in
rjgarbagebank@gmail.com
87542 04222
LEKHA ads/June 25/ Rotary/FIW

ADVT.

विषयसूची

30
विशेष बच्चों के लिए एक मैराथन

14
आगरा में बच्चों के लिए मनोरंजक कार्यक्रम



38
झारखंड में नेत्र देखभाल

20
पुणे के केबिन स्कूल

42
जम्मू में एक रोटरी चिकित्सा मिशन

56
सफाई कर्मचारियों के लिए खेल दिवस

24
एक जादुई परियोजना की अद्भुत तैयारी

ई-संस्करण अपनाएं। पर्यावरण बचाएं।

ई-संस्करण दर हुई कम

1 जुलाई 2024 से हमारी ई-संस्करण सदस्यता ₹420 से संशोधित कर **₹324** कर दी गई हैं।

Rotary

A publication of Rotary Global Media Network

एक रोटेरियन की शांति की अपील

मैंने लेख पढ़ा जिसमें बताया गया था कि *करतारपुर साहिब भारत-पाक रोटेरियन को मिलने और एक-दूसरे से जुड़ने का अवसर देता है* – अहमदाबाद और पाकिस्तान के रोटेरियन की एक उल्लेखनीय पहल। लेकिन पहलगाम में पर्यटकों के अमानवीय नरसंहार के बाद, दोनों पक्षों की ओर से सैन्य कार्रवाई हुई। मैं युद्ध में विश्वास नहीं रखता, और युद्ध विराम की घोषणा का स्वागत करता हूँ।

लेकिन युद्ध विराम संघर्ष का अंत नहीं है – यह पुनर्निर्माण की शुरुआत है। इस महत्वपूर्ण चरण में, रोटरी जैसे सेवा संगठनों को नारों के साथ नहीं, बल्कि निरंतर सेवा और एकजुटता के साथ उठ खड़ा होना चाहिए। हमारे सैनिकों ने हमारी सीमाओं की रक्षा की है। अब एकता, करुणा और लचीलेपन की भावना की रक्षा करने की बारी हमारी है। आइए हम अपने रक्षा कर्मियों के परिवारों का सम र्थन करें और प्रभावित समुदायों तक पहुँचें। आइए हम अपने समाज को चिंता और अशांति के दिनों से मिले, दृश्यमान और अदृश्य – दोनों प्रकार के घावों को भरने में मदद करें। भय को भाईचारे से बदलना होगा, और क्रोध को सहानुभूति से।

सरकार रोटरी को एक भरोसेमंद, गैर-राजनीतिक ताकत के रूप में देखती है जो युवाओं की भागीदारी, स्वास्थ्य पहल, सामुदायिक आउटरीच और मनोबल निर्माण के माध्यम से राष्ट्रीय उपचार में योगदान देने के लिए तैयार है। शांति में देशभक्ति के लिए युद्ध की तरह ही ताकत की आवश्यकता होती है। रोटरी को सद्भाव की ओर इस शांत, दृढ़ मार्च का नेतृत्व करने दें। हर रोटरी क्लब को शांति और उद्देश्य का एक प्रकाश स्तंभ बनने दें, और हर रोटेरियन को आशा का मूक निर्माता बनने दें – हमेशा राष्ट्र की सेवा करते हुए, और इसकी सीमाओं से परे भी कार्य करें।

अशोक महाजन
पूर्व रो ई निदेशक

मुझे रशीदा भगत द्वारा लिखा गया सौर ऊर्जा से जीवन में रोशनी आने पर लेख बहुत पसंद आया।

खास तौर पर, क्योंकि हमारी 25 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी गांवों और दूरदराज के इलाकों में रहती है, जहाँ ग्रिड के माध्यम से बिजली पहुँचाना असंभव है। रोटरी क्लब मुंबई की सामुदायिक सेवाओं की निदेशक, लता देसाई ने छात्रों को कौशल प्रदान करने और उनकी पढ़ाई में मदद करने के लिए सौर लैंप प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है। ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में, जहाँ बिजली आपूर्ति अनियमित है या बिल्कुल नहीं है, वहाँ अधिक से अधिक छात्रों और स्कूलों को इस



प्रकार की लाइटें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र से सहयोग लिया जाना चाहिए।

टी डी भाटिया
आरसी दिल्ली मयूर विहार
मंडल 3012

सतारा बांध पर एक प्रभावशाली कहानी

मुझे अभी-अभी मई अंक का ई-संस्करण प्राप्त हुआ है, और हमारे क्लब द्वारा क्रियान्वित सतारा जल बांध परियोजना की व्यापक और प्रभावशाली कवरेज देखकर मुझे बहुत खुशी हुई।

यह आलेख न केवल समुदाय के परिवर्तन की ओर ध्यान आकर्षित करेगा, बल्कि रोटरी की सेवा की शक्ति को भी सुदृढ़ करेगा।

इस प्रयास को इतने सार्थक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे क्लब अध्यक्ष और सदस्यों की ओर से, मैं आपको, जयश्री और रोटरी न्यूज़ की पूरी टीम को हमारे काम को प्रदर्शित करने के लिए अपना आभार प्रकट करता हूँ।

उदय धर्माधिकारी
रोटरी क्लब पुणे सेंट्रल
मंडल 3131

संपादक का नोट जिसका शीर्षक है ङ्गआपके शब्द/व्यवहार आपको परिभाषित करते हैंङ्क, नियोक्ता-कर्मचारी संबंध की एक घटना का हवाला देते हुए कार्यस्थल पर उचित मान्यता और प्रशंसा देकर संगठन में लोगों को सशक्त बनाने के सिद्धांत को दर्शाता है। संपादकीय में व्यक्त किए गए विचार रोटेरियन के लिए प्रासंगिक हैं, क्योंकि हम सभी अपने

पेशे में अग्रणी हैं। सम्मान वह नींव है जिस पर किसी भी संगठन में लोगों का विश्वास और वफादारी बनी होती है।

मैं मुत्तुकुमारन और संपादकीय टीम को लक्ष्मी स्कूल, मदुरै के इंटरेक्ट क्लब द्वारा समुदाय की सेवा में कार्यान्वित किए गए अभिनव धन उगाहने वाले प्रोजेक्ट पर अच्छी कवरेज *(मदुरै इंटरेक्ट ने ₹6 लाख जुटाए)* के लिए धन्यवाद देता हूं। इस लेख के माध्यम से आपने इंट्रक्टर्स को प्रेरित किया है और उन्हें हर साल और अधिक प्रोजेक्ट करने के लिए प्रेरित किया है।

आर श्रीनिवासन
रोटरी क्लब बैंगलोर जे पी नगर
मंडल 3191

मई अंक का संपादकीय अनूठा और विचारोत्तेजक था। हम सभी मनुष्य हैं, चाहे बड़े हों या छोटे, नियोक्ता हों या कर्मचारी, प्रबंधक हों या अधीनस्थ आदि, और प्राथमिक शिष्टाचार सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य बने रहना।

किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन उसके शारीरिक स्वास्थ्य या धन से नहीं, बल्कि उसके बोलने के तरीके और उसकी भाषा से किया जा सकता है, जैसा कि संपादक ने ठीक ही कहा है, "आपके शब्द/व्यवहार ही आपको परिभाषित करते हैं।" बोलने से पहले सोचने से सद्भावना अर्जित की जा सकती है।

दूसरों का भला करें; गरीबों, जरूरतमंदों और बीमारों की मदद करें क्योंकि रोटरी का आदर्श वाक्य है, *स्वयं से ऊपर सेवा।* नम्रता और निस्वार्थता का जीवन हमें हर व्यक्ति में दिव्यता देखने और दूसरों के साथ सद्भाव से रहने में सक्षम बनाएगा।

संक्षेप में, सच्ची खुशी का अर्थ है, स्वयं और दूसरों के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना।

राज कुमार कपूर
रोटरी क्लब रूप नगर
मंडल 3080

डीईआई का महत्व

डीईआई वास्तव में महत्वपूर्ण है। स्वामित्व की कमी, अपर्याप्त टीम वर्क, क्लब की बैठकों में कम उपस्थिति, आपसी सम्मान की कमी आदि जैसी कई बुराइयों को डीईआई का अभ्यास करके संबोधित किया जा सकता है।

प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार जैसे नियमित लाभों के अलावा, डीईआई परिवर्तनकारी नेतृत्व, शिकायतों में कमी, सूक्ष्म आक्रामकता में कमी, आपसी विश्वास और सहयोग में सुधार, बेहतर प्रतिधारण, रोटरी में युवा रक्त को आकर्षित करने तथा सेवा के लिए बेहतर मानसिकता आदि में भी योगदान दे सकता है।

संयोगवश, मैं एक रॉकेट वैज्ञानिक हूं, जिसने वीएसएससी/इसरो में महाप्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के लिए काम किया था।

एन आर यू के कार्था
रोटरी क्लब त्रिवेंद्रम उपनगरीय
मंडल 3211

रोटरी न्यूज़ नये सदस्यों को आकर्षित कर सकता है

जब मेरे दो दोस्त मेरे घर आए, उस समय मैं घर पर नहीं था। उन्होंने *रोटरी न्यूज़* का अप्रैल अंक देखा। जब मैं वापस आया, तो उन्होंने रोटरी के बारे में पूछा। चूँकि वे तिरुपत्तूर से थे, इसलिए उन्हें जावधु हिल्स के आदिवासियों पर आधारित कवर स्टोरी में खास दिलचस्पी थी।

इसके अलावा, उन्होंने मुझसे रोटेरियन बनने की प्रक्रिया, क्लब फीस और अन्य संबंधित बातों के बारे में भी पूछा। तभी मुझे लगा कि रोटरी क्लब में सदस्यता बढ़ाने के लिए जो प्रयास हम कर रहे हैं, उसे *रोटरी न्यूज़* पहले से ही प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ा रहा है। यह वास्तव में नए सदस्यों को आकर्षित करने का एक प्रभावी माध्यम है। यदि आप गैर-रोटेरियन पाठकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए कविताओं या लघु कथाओं के लिए एक-दो पृष्ठ आरक्षित कर सकें, तो मेरा मानना है कि इससे हम और अधिक सदस्यों को आकर्षित कर सकते हैं।

एस मोहनकुमार
रोटरी क्लब पल्लीकोंडा
मंडल 3231

रो ई द्वारा ङ्करोटरी इंडियाफ़ शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि रोटरी में वरिष्ठ सदस्य चालाकी और बेईमानी का सहारा लेते हैं। रो ई को उन्हें निष्कासित कर देना चाहिए, वे रोटरी पर काले धब्बे हैं। कोई भी व्यक्ति संगठन से ऊपर नहीं है।

नाथमल नेवतिया
रोटरी क्लब कलकत्ता मेफेयर
मंडल 3291

कवर पर: एक लड़का अपनी माँ के साथ 'स्पीड वॉक' प्रतियोगिता में भाग लेते हुए, जो रोटरी क्लब आगरा, रो ई मंडल 3110 द्वारा आयोजित एक विशेष अंतर-विद्यालयी खेल प्रतियोगिता का हिस्सा था।

हम आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते है। अपनी प्रतिक्रियाएं ***rotarynews@rosaonline.org*** या ***rushbhagat@gmail.com*** पर संपादक को मेल कीजिए। ***rotarynewsmagazine@gmail.com*** पर उच्च रेसोल्यूशन वाली तस्वीरें अपनी परियोजना के विवरण के साथ मेल कीजिए।

आपके क्लब/मंडल परियोजनाओं के संदेश, Zoom मीटिंग/वेबिनार पर जानकारी और उसके लिंक केवल संपादक को ई-मेल द्वारा ***rushbhagat@gmail.com*** या ***rotarynewsmagazine@gmail.com*** पर भेजे जाने चाहिए।

WhatsApp पर भेजे संदेशों पर विचार नहीं किया जाएगा।

चित्र: टॉम गम्प

1. फ्लोरिडा में रो ई अध्यक्ष स्टेफनिक अर्चिक। 2. कैलिफोर्निया के पासाडेना में 2025 रोज़ परेड में। 3. अर्चिक लंदन में राष्ट्रमंडल दिवस पर राजा चार्ल्स तृतीय का अभिवादन करते हुए। 4. अमेरिकी अंतरिक्ष एवं रॉकेट केंद्र, अलबामा में। 5. अफ्रीका के युगांडा में रोटरी युवा नेतृत्व पुरस्कार समारोह में प्रतिभागियों के साथ जश्न मनाते हुए।

6. इस्तांबुल में 2025 रोटरी अध्यक्ष शांति सम्मेलन के दौरान एक शांति स्तंभ समर्पित करते हुए। 7. पिट्सबर्ग में एक खेल के दौरान। 8. माचू पिचू, पेरू में। 9. बोस्निया और हर्जेगोविना के राष्ट्रपति पद के क्रोएशियाई सदस्य ज़ेड्ज्को कोम्सिक के साथ अर्चिक। 10. गीज़ा, मिस्र में।

अभी तो शुरुआत है

पिछले वर्ष हमें अनेक अद्भुत अनुभव प्राप्त हुए, लेकिन अतीत पर विचार करना भले ही सुखद हो, लेकिन हमें भविष्य की ओर भी देखना चाहिए।

हम पोलियो को खत्म करने के पहले से कहीं ज़्यादा करीब हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आराम कर सकते हैं। हमें अभी भी दुनिया भर के बच्चों और उनके परिवारों से एक वादा निभाना है, और हम उस वादे को केवल धन संग्रह, वकालत और हमारी सामूहिक कार्रवाई की शक्ति के माध्यम से पूरा कर सकते हैं।

इस वर्ष की शुरुआत में आयोजित राष्ट्रपति शांति सम्मेलन में, मैं शांति निर्माताओं की क्षमता और उनकी प्रतिबद्धता से चकित हुआ। हमारा शांति फेलोशिप कार्यक्रम और हमारी कई अन्य शांति पहल एक विभाजित दुनिया में सुधार लाती हैं, लेकिन उन्हें प्रभावी और प्रासंगिक बने रहने के लिए हमारे समर्थन की आवश्यकता है।

दुनिया भर में फैली अकेलेपन की महामारी के बीच, रोटरी मित्रता, उद्देश्य और अपनेपन की भावना प्रदान करता है। अगर हम अपने आदर्शों - फोर-वे टेस्ट और समावेशिता की भावना के प्रति सच्चे रहें - तो हम सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश की किरण बने रहेंगे।

यह कार्य योजना हमारे क्लबों और मांडलो को अप्रतिरोध्य बनाने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकती है, लेकिन यह हम पर निर्भर है कि हम उस सलाह को लें और उसका उपयोग करें।

रोटरी परिवार, जब हम सभी एकजुट होकर एक साझा लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते।

आप *रोटरी का जादू* हैं, और मैं दुनिया में आपके द्वारा लाए गए स्थायी परिवर्तन को देखने के लिए उत्सुक हूं।

स्टेफ़नी ए अर्चिक

अध्यक्ष, रोटरी इंटरनेशनल

Rotary
District 3212

THE MAGIC
OF ROTARY

Rotary club of Virudhunagar

VIGNANA RATHAM

Empowering Students Towards Great Citizens For Future

The idea of Vignana Ratham is to kindle student's interest towards science. It is to aid students in understanding the magic of science through creative and fun-filled experiments. RID 3212 wondered how good it would be to take the best brains to institutions in all corners of Tamil Nadu. As a result, a tie-up was made with Parikshan Trust of an Indian Scientist, Dr. Pasupathy. Mr.Arivarasan, Mr. Naveen Kumar and Mr. Satheesh were assigned to travel in Vignana Ratham and meet students of various schools every day. Numerous students benefit out of this programme and we believe that we have seeded the fervor required to bring out a Scientist from every institution we visited.

CROSSING OVER
770
PROGRAMS
ALL OVER TAMILNADU

SUCCESSFUL JOURNEY OF SCIENCE ON WHEELS

As on 28.03.2025

Total No. of Schools Visited **735**

Total No.of Colleges Visited **25**

Total No.of Students Explored **2,11,143**

Total No.of Days Travelled **513**

Total No.of Teachers Participated **9,428**

Total No.of Kilometres Travelled **42,056**

LEKHA ads/June 25/ Rotary/NTEN

GET IN TOUCH WITH US
94422 48586

PARIKSHAN
CHARITABLE TRUST
Empowering society through Science...

Project Chairman
Rtn. R.Vadivel

Project Concept
Dr. Pasupathy

Do you want
to have **Vignana Ratham** travelling
to a school in your Town / City / District?
We would love to partner with you in this mission.

IDHAYAM
PROMISE OF HEALTH AND HAPPINESS

ADVT.

युद्ध उन्माद

सबसे पहले, उस व्यक्ति को पूरे अंक मिलने चाहिए जिसने पाकिस्तान पर भारत द्वारा किए गए सैन्य हमले को *ऑपरेशन सिंदूर* नाम देने का विचार किया जिसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में स्थित आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना था। यह कश्मीर के पहलगाम में शर्मनाक तरीके से धर्म पूछकर की गई निर्दोष पर्यटकों की क्रूर हत्या के प्रति हमारी सरकार और सशस्त्र बलों की प्रतिक्रिया थी। *सिंदूर* उन महिलाओं की पीड़ा और क्रोध को दर्शाता है, जिनके पति उनकी आंखों के सामने बेरहमी से मार डाले गए और वे बस असहाय देखती रह गईं। उस भयावह आतंकी घटना की हर याद हर भारतीय की रूह को कंपा देती है।

जैसे ही पाकिस्तान ने भारत की सैन्य कार्रवाई का जवाब दिया और मिसाइलें हमारी सीमावर्ती क्षेत्रों पर गिरीं कई भारतीय हवाई अड्डों को बंद करना पड़ा और वहां भय और अफरा-तफरी फैल गई। हालांकि जल्द ही कुछ शांति लौटी, और हमें सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिका की मध्यस्थता और रात भर चली बातचीत के चलते युद्धविराम पर सहमति बन गई है। पर्दे के पीछे वास्तव में क्या हुआ, यह कोई नहीं जानता। अफवाहों का बाजार गर्म रहा - किसी ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, तो किसी ने दावा किया कि व्यापार संबंधों के वादे और मोटे आईएमएफ ऋण की मंजूरी ने पाकिस्तान को युद्धविराम के लिए मजबूर कर दिया। युद्ध के समय सरकारें सब कुछ नहीं बतातीं; यही इसकी प्रकृति होती है।

सीमा के दोनों ओर समझदार लोगों ने युद्धविराम का स्वागत किया, जबकि कट्टरपंथी और युद्धोन्मादी लोग सोशल मीडिया पर भारत सरकार को कोसते रहे कि उसने ''पाकिस्तान को टुकड़ों में तोड़ने से पहले'' ही युद्धविराम स्वीकार क्यों किया। वे चिल्लाए, ''इंदिरा गांधी ने तो ऐसा कर दिखाया था।'' ऐसा बोलने वाले अंधराष्ट्रवादी आज की सच्चाई और परमाणु युग में युद्ध की भयानक कीमत को नहीं समझते। चाहे सैन्य उपकरण कितने भी उन्नत या महंगे क्यों न हों, उन्हें बदला जा सकता है, लेकिन क्या हम युद्ध में शहीद हुए किसी एक भी सैनिक को वापस ला सकते हैं? जिनकी जान खतरे में नहीं है, उनके लिए टीवी चैनलों या सोशल मीडिया से युद्ध का शोर मचाना आसान होता है।

इससे भी अधिक भयानक और शर्मनाक था दोनों देशों के अधिकांश टीवी चैनलों पर दिखाया गया युद्धोन्माद और उन्मादी चीख-पुकार। चूंकि मैंने सिर्फ हमारे कुछ चैनल देखे, मैं उनकी मूर्खता, चिल्ल-पों, पागलपन और छाती पीटने की हरकतों से हैरान रह गई। यह उस पत्रकारिता की गुणवत्ता और प्रकार पर एक और शोकगीत था जिसे हम कभी जानते थे। *द इकोनॉमिस्ट* ने कहा कि ''भारतीय टीवी चैनलों द्वारा लड़ाई के बारे में अपमानजनक कवरेज ने सोशल मीडिया को समझदार दिखाने का आश्चर्यजनक कारनामा कर दिखाया।'' डर के मारे कि कहीं ये लोग स्टूडियो में ही खून न बहा दें, मैंने जल्दी से एक ओटीटी प्लेटफॉर्म चालू कर लिया। जो कोई भी संयम बरतने की बात करता या शांति की अपील करता, उसे वहां मौजूद उन्मादी एंकर चिल्ला-चिल्लाकर चुप करा देता, जैसे वह स्टेरॉइड पर हो। मनोरंजन के लिए कुछ मजेदार ट्वीट्स और क्लिप्स भी वायरल हुए। एक में कहा गया: ''यह कॉमेडी शो नहीं है, यह हमारा एक प्रीमियर न्यूज़ चैनल है!'' एक स्टैंडअप कॉमेडियन ने कहा: ''मैंने xxx चैनल म्यूट पर देखा और मुझे लगा कि अभी भी बहुत शोर हो रहा है! फिर मैंने रिमोट पर वह बटन ढूंढना शुरू कर दिया जिससे उस पागल इंसान की एनर्जी कम की जा सके!''

जब यह युद्धोन्माद शांत होगा, तब शायद हमारे टीवी चैनल अपने कुछ सबसे विस्फोटक, मानसिक रूप से अस्थिर एंकरों को फिर से पत्रकारिता विद्यालय भेजने पर विचार करेंगे।

यहीं राष्ट्र की सच्ची सेवा होगी।

रशीदा भगत

निदेशक का संदेश

एक शानदार और हर्षित यात्रा

प्रिय रोटेरियनों,

जैसे ही मैं लिखने बैठता हूं, जिसे प्रकाशक गंभीर रूप से ''अंतिम शब्द'' कहते हैं, मैं उदासी से नहीं, बल्कि कृतज्ञता, गर्व और राहत की एक अनूठी भावना महसूस करता हूं - यह कुछ ऐसा जैसे आपने ड्रेस वाले जूते पहनकर मैराथन पूरी कर ली हो: एक ओर इस बात की खुशी कि आपने यह कर दिखाया, और दूसरी ओर इस बात की हैरानी कि आप सच में बच भी गए!

पिछले 24 महीनों में रोटरी अंतर्राष्ट्रीय के निदेशक के रूप में सेवा करना मेरे लिए एक अत्यंत गौरवपूर्ण अवसर रहा - यह समय खोज, आनंद और ढेर सारी डेडलाइनों से भरा हुआ था। इस दौरान मैंने चार विश्वसनीय साथियों के साथ नेतृत्व करने की पूरी कोशिश की: ईमानदारी, पारदर्शिता, निष्ठा और विनम्रता। मानता हूँ, ये शायद आपके साथ लंच पर नहीं जा सकते हों, लेकिन सेवा और नेतृत्व की यात्रा में ये सबसे अच्छे साथी हैं।

और ये यात्रा वाकई अद्भुत रही! व्यस्त महानगरों से लेकर ग्रामीण कक्षाओं की शांति तक, मैंने रोटरी के असली नायकों से मुलाकात की - सिर्फ वे नहीं जो ब्लेज़र और बैज पहनते हैं (हालाँकि उन्हें भी सलाम), बल्कि उन क्लब अध्यक्षों, मंडल अधिकारियों और कभी न थकने वाले स्वयंसेवक से भी जिन्होंने काम को कला का रूप दे दिया है। जो हर काम को शांतिपूर्वक, कुशलता, और करुणा के साथ करते है।

इन गुमनाम नायकों को मैं दिल से सलाम करता हूँ। आपने शिविर आयोजित किए, कक्षाएँ बनाईं, समुदायों को सशक्त किया और चुनौतियों का सामना सद्भाव, टीमवर्क और कभी-कभी अत्यधिक व्हाट्सएप का उपयोग करके किया। आपका कार्य ही रोटरी की आत्मा है - महान, आवश्यक लेकिन जिसकी अक्सर अनदेखी की जाती है।

जैसे ही हम *रोटरी के जादू* से आगे बढ़ते हुए *अच्छाई के लिए एकजुट* की ओर अग्रसर होते हैं, आइए याद रखें: रोटरी कभी भी एकल प्रयासों के बारे में नहीं रही। यह एक-दूसरे को, सभी कमियों समेत, खोजने तथा साथ मिलकर कुछ सार्थक करने के बारे में है, कभी-कभी खुद के विरोध के बावजूद भी। आगामी वर्ष एकता की पुकार कर रहा है - एक दूसरे को गले लगाने वाली, एक दूसरे को खुश करने वाली नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली। आइए हम अपनी बाँहें चढ़ाएं (शाब्दिक और प्रतीकात्मक रूप से) और मिलकर काम करने को सच में कारगर बनाएं।

मुझे अपार आत्मविश्वास है कि मैं यह जिम्मेदारी हमारे आगामी रो ई निदेशकों के पी नागेश और मुरुगानंदम को सौंप रहा हूँ - जो समझदार, व्यवहारिक और मज़बूत इरादों वाले व्यक्ति हैं। मैं उन्हें शानदार अनुभव, विवेकपूर्ण मार्गदर्शन और अच्छा वाई-फाई मिलने की शुभकामनाएँ देता हूँ। मेरे सह-निदेशक अनिरुद्ध रॉयचौधरी को विशेष धन्यवाद। उन सभी का आभार और धन्यवाद जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरा उत्साह बढ़ाया या मेरी वर्तनी को विनम्रता से सुधारा। और जो साथ नहीं थे, मैंने उनसे भी कुछ न कुछ सीख ही लिया।

अपनी पत्नी विद्या की मैं विशेष तौर पर सराहना करता हूँ, जो रोटरी में अक्सर मुझसे ज़्यादा प्रशंसित रहीं और इस तथ्य को मैंने जल्दी और लगभग गरिमापूर्वक स्वीकार कर लिया था। इस पूरी यात्रा में वह एक मज़बूत स्तंभ के रूप में मेरे साथ रही हैं। तो हाँ, यह अध्याय का अंतिम पृष्ठ ज़रूर है, लेकिन पुस्तक का नहीं। रोटरी, आखिरकार, कोई पद नहीं है बल्कि एक आजीवन चलने वाली मानसिक अवस्था है। अब मैं एक आम रोटेरियन की तरह अज्ञातवास का आनंद लूँगा, दूर से हौसला बढ़ाऊँगा और अपनी ही शैली में सेवा करता रहूंगा।

जब तक हम फिर से नहीं मिलते, सेवा करते रहो, मुस्कुराते रहो और सबसे बढ़कर, अपने अंदर हास्य की भावना बनाए रखो। यह भावना आगे बढ़ने में मदद करेगी। आइए हम सब *भलाई के लिए एकजुट* हो।

राजु सुब्रमण्यन
रो ई निदेशक, 2023-25

मंडल टीआरएफ योगदान

स्रोत: रो ई दक्षिण एशिया कार्यालय

वार्षिक कोष (AF) में SHARE, फोकस के क्षेत्र और विश्व कोष शामिल हैं।
पोलियोप्लस में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन शामिल नहीं है।

अप्रैल 2025 तक

(अमेरिकी डॉलर में)

मंडल संख्या		एनुअल फण्ड	पोलियो प्लस फंड	एंडोमेंट फण्ड	अन्य निधि	कुल योगदान
2981		67,932	15,983	10,104	38	94,056
2982		47,911	13,988	10,421	110,254	182,573
3000		52,467	24,038	1,000	342,578	420,084
3011		105,432	6,497	70,480	1,603,982	1,786,390
3012		18,368	151	1,500	1,128,996	1,149,014
3020		113,352	56,014	105,906	151,382	426,654
3030		59,609	5,203	23,935	272,022	360,768
3040		8,296	270	3,000	89,183	100,748
3053		60,185	700	0	83,524	144,409
3055		53,853	4,417	2,071	68,208	128,549
3056		28,648	2,056	60	$133	30,897
3060		200,484	6,449	38,970	722,382	968,284
3070		30,826	1,713	0	0	32,539
3080		41,124	9,765	17,384	79,456	147,729
3090		18,103	109	22,064	$0	40,276
3100		32,014	5,561	0	55,133	92,708
3110		18,429	1,593	4,164	432,566	456,751
3120		67,061	1,211	14,746	65,312	148,330
3131		586,626	21,318	142,420	1,434,397	2,184,761
3132		71,163	2,589	23,339	84,868	181,959
3141		509,581	40,749	269,941	3,198,801	4,019,072
3142		492,529	58,892	50,060	626,541	1,228,022
3150		184,862	31,909	145,498	970,221	1,332,490
3160		25,579	3,443	1,000	5,787	35,809
3170		54,773	23,006	120,174	370,703	568,655
3181		157,281	17,261	77	0	174,619
3182		114,456	4,104	12	29,270	147,842
3191		72,022	8,340	158	284,506	365,025
3192		153,434	9,942	23,500	342,788	529,665
3201		130,143	40,551	32,982	821,565	1,025,241
3203		52,406	14,164	16,034	143,539	226,143
3204		50,054	16,275	53,047	17,080	136,456
3211		32,412	4,373	$0	47,055	83,839
3212		303,186	40,183	103,500	178,954	625,823
3231		17,215	8,289	93,192	46,768	165,464
3233		72,818	20,899	5,199	464,421	563,338
3234		128,497	30,657	100,746	1,031,174	1,291,075
3240		200,470	31,436	50,000	204,780	486,685
3250		149,330	6,161	22,248	182,539	360,277
3261		10,538	644	8,335	10,878	30,395
3262		81,664	2,515	2,313	22,505	108,996
3291		157,074	14,206	198,335	279,515	649,130
3220	Sri Lanka	61,709	4,828	30,052	24,730	121,319
3271	Pakistan	9,953	50,036	0	10,500	70,489
63	(former 3272)*	8,637	2,683	0	0	11,321
64	(former 3281)*	7,799	3,060	1,000	1,050	12,908
65	(former 3282)*	1,096	1,351	0	$0	2,447
3292		104,722	27,729	90,026	152,634	375,111

* Undistricted

2025
कन्वेंशन

कैलगरी की एक झलक

अंतिम क्षण में साहस दिखाने वालों के लिए ध्यान दें: आप में से कई के पास रोटरी इंटरनेशनल कन्वेंशन के लिए कैलगरी में हज़ारों सदस्यों के साथ जुड़ने के लिए अभी भी बहुत समय है, खासकर हमारे दोस्तों के लिए जो थोड़ी ही दूर अमेरिका और कनाडा में हैं! बहुत से सदस्य बड़े आयोजन से पहले इन अंतिम हफ़्तों में पंजीकरण कराते हैं – या फिर आयोजन स्थल पर ही भुगतान कर देते हैं।

21 से 25 जून तक कैलगरी में होने वाले इस कार्यक्रम में, आपके क्लब के प्रभाव और सदस्यता को बढ़ाने में मदद करने के लिए बोल्ड आवाज़ें और बड़े विचारों की भरमार होगी। हम यह अक्सर सुनते हैं: हर किसी को कम से कम एक बार सम्मेलन में भाग लेना चाहिए। ''सम्मेलन वह जगह है जहाँ रोटरी जीवंत हो जाती है,'' रो ई अध्यक्ष स्टेफ़नी अर्चिक कहती हैं।

हमेशा की तरह, इस कार्यक्रम में भी विश्व-स्तरीय वक्ता भाग लेंगे, जिनमें महिला अधिकारों की पैरोकार और नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अरब महिला तवाक्कोल करमान, तथा जलवायु वैज्ञानिक कैथरीन हेहो शामिल हैं, जिन्हें *टाइम* पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है।

ब्रेकआउट सत्र, रोटरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से लेकर युवा नेताओं और विविध सदस्यों की भर्ती तक के विषयों पर अपने खुद के सीखने का अनुभव है। हाउस ऑफ फ्रेंडशिप शहर के चौराहे की तरह है जहाँ रोटरी का वैश्विक समुदाय दोस्तों के साथ मिलता है और प्रोजेक्ट विचारों पर चर्चा करता है।

और आपकी मंज़िल तक की यात्रा वाकई में मज़ेदार होगी, क्षितिज पर कनाडा के रॉकी पर्वतों के दृश्य और पश्चिमी विरासत के साथ, जिसे आप इस आधुनिक शहर में आसानी से देख पाएंगे। उर्चिक कहते हैं, ''कैलगरी गर्मजोशी से भरे आतिथ्य और प्राकृतिक सुंदरता का एक शानदार मिश्रण है।'' टेक्सास में कैरोलटन-फार्मर्स शाखा के रोटरी क्लब की एलिज़ाबेथ विलफ़्रैंका कहती हैं कि सम्मेलन में शामिल हर व्यक्ति एक परिवार का हिस्सा बन जाता है। ''यह एक ऐसा अनुभव है, जिसने मेरे जीवन और मेरे दृष्टिकोण को बदल दिया है, और मुझे हमारी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम करना जारी रखने के लिए पर्याप्त ऊर्जा दी है।''

अधिक जानकारी प्राप्त करें और
convention.rotary.org
पर पंजीकरण कराएं।

रोटरी संख्या

रोटरी क्लब	:	36,632	रोटरी सदस्य	:	1,171,195
रोटरेक्ट क्लब	:	9,454	रोटरेक्ट सदस्य	:	135,426
इंटरेक्ट क्लब	:	16,784	इंटरेक्ट सदस्य	:	386,170
आरसीसी	:	13,984			

मई 19, 2025 तक

गवर्नर्स काउंसिल

RID 2981 बस्करन एस
RID 2982 शिवकुमार वी
RID 3000 राजा गोविंदसामी आर
RID 3011 महेश पी त्रिखा
RID 3012 प्रशांत राज शर्मा
RID 3020 डॉ एम वेंकटेश्वर राव
RID 3030 राजिंदर सिंह खुराना
RID 3040 अनीश मलिक
RID 3053 राहुल श्रीवास्तव
RID 3055 मोहन पाराशर
RID 3056 डॉ राखी गुप्ता
RID 3060 तुषार शाह
RID 3070 डॉ परमिंदर सिंह ग्रोवर
RID 3080 राजपाल सिंह
RID 3090 डॉ संदीप चौहान
RID 3100 दीपा खन्ना
RID 3110 नीरव निमेश अग्रवाल
RID 3120 परितोष बजाज
RID 3131 शीतल शरद शाह
RID 3132 डॉ सुरेश हीरालाल साबू
RID 3141 चेतन देसाई
RID 3142 दिनेश मेहता
RID 3150 शरथ चौधरी कटरागड्डा
RID 3160 डॉ साधु गोपाल कृष्ण
RID 3170 शरद पाई
RID 3181 विक्रमदत्त
RID 3182 देव आनंद
RID 3191 सतीश माधवन कननोर
RID 3192 एन एस महादेव प्रसाद
RID 3201 सुंदरवदिवेलु एन
RID 3203 डॉ एस सुरेश बाबू
RID 3204 डॉ संतोष श्रीधर
RID 3211 सुधी जब्बार
RID 3212 मीरनखान सलीम
RID 3231 राजनबाबू एम
RID 3233 महावीर चंद बोथरा
RID 3234 एन एस सरवनन
RID 3240 सुखमिंदर सिंह
RID 3250 बिपिन चाचान
RID 3261 अखिल मिश्रा
RID 3262 यज्ञनिस महापात्रा
RID 3291 डॉ कृष्णेंदु गुप्ता

प्रकाशक एवं मुद्रक **पी टी प्रभाकर**, 15 शिवास्वामी स्ट्रीट, मायलापोर, चेन्नई - 600004, रोटरी न्यूज़ ट्रस्ट के लिए रासी ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड, 40, पीटर्स रोड, रोयापेट्टा, चेन्नई - 600014 से मुद्रित एवं रोटरी न्यूज़ ट्रस्ट, दुगड़ टावरस, 3rd फ्लोर, 34 मार्शलस रोड, एगमोर, चेन्नई - 600008 से प्रकाशित। संपादक: **रशीदा भगत**

योगदान का स्वागत है लेकिन संपादित किया जाएगा। प्रकाशित सामग्री का आरएनटी की अनुमति सहित, यथोचित श्रेय देते हुए प्रयोग किया जा सकता है।

Website

न्यासी मंडल

राजु सुब्रमण्यन RID 3141
रो ई निदेशक और अध्यक्ष, रोटरी न्यूज़ ट्रस्ट

अनिरुधा रॉयचौधरी RID 3291
रो ई निदेशक

डॉ भरत पांड्या RID 3141
टीआरएफ ट्रस्टी

राजेंद्र के साबू RID 3080
कल्याण बेनर्जी RID 3060
शेखर मेहता RID 3291
अशोक महाजन RID 3141
पी टी प्रभाकर RID 3234
डॉ मनोज डी देसाई RID 3060
सी भास्कर RID 3000
कमल संघवी RID 3250
डॉ महेश कोटबागी RID 3131
ए एस वेंकटेश RID 3234
गुलाम ए वाहनवती RID 3141

निर्वाचित रो ई निदेशक

एम मुरुगानंदम RID 3000
के पी नागेश RID 3191

कार्यकारी समिति के सदस्य (2024-25)

एन एस महादेव प्रसाद RID 3192
अध्यक्ष, गवर्नर्स काउंसिल

अखिल मिश्रा RID 3261
सचिव, गवर्नर्स काउंसिल

आर राजा गोविंदसामी RID 3000
कोषाध्यक्ष, गवर्नर्स काउंसिल

राखी गुप्ता RID 3056
सलाहकार, गवर्नर्स काउंसिल

संपादक
रशीदा भगत

उप संपादक
जयश्री पद्मनाभन

प्रशासन और विज्ञापन प्रबंधक
विश्वनाथन के

रोटरी न्यूज़ ट्रस्ट
3rd फ्लोर, दुगर टावर्स, 34 मार्शल रोड, एग्मोर
चेन्नई 600 008, भारत
फोन: 044 42145666
rotarynews@rosaonline.org
www.rotarynewsonline.org

Magazine

फाउंडेशन ट्रस्टी अध्यक्ष का संदेश

जीवन में परिवर्तन लाना

पिछले साल, मेरी पत्नी गे और मुझे रोटरी फाउंडेशन के प्रभाव को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भारत में डायलिसिस केंद्रों से लेकर ताइवान में पर्यावरण परियोजनाओं और दुनिया भर में शैक्षिक पहलों तक, हमें आपकी उदारता के जीवन-परिवर्तनकारी परिणामों के बारे में जानने का मौका मिला है। हमारे फाउंडेशन के कार्य को नजदीक से देखने से हमें यह गहराई से समझ में आया कि रोटरी शांति, आशा और स्वास्थ्य फैलाकर किस प्रकार जीवन को बदलने की शक्ति रखती है।

बैंकॉक में, हमने एक सार्वजनिक अस्पताल में फेफड़े और हृदय की समस्याओं से पीड़ित गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए एक विशेष जीवन रक्षक मशीन देखी - यह अपनी तरह की दूसरी मशीन है जो निजी देखभाल के बाहर शहर के 11 मिलियन निवासियों के लिए उपलब्ध है। वैश्विक अनुदान के माध्यम से वित्तपोषित, यह तकनीक जीवन बचा रही है, क्योंकि रोटरी सदस्यों ने इसकी आवश्यकता देखी और प्रतिक्रिया दी।

रोटरी फाउंडेशन के माध्यम से जो कुछ भी हासिल किया जाता है - चाहे वह रोटरी शांति केंद्र हों, बड़े पैमाने के कार्यक्रम, या वैश्विक और मंडल अनुदान - वह एक मजबूत और बढ़ते बंदोबस्ती पर निर्भर करता है। यही है *रोटरी का जादू*, जिसे आप अपनी उदारता के माध्यम से संभव बनाते हैं।

यही कारण है कि मैं रोटरी फाउंडेशन एंडोमेंट की शुद्ध संपत्ति और प्रतिबद्धताओं को 30 जून 2025 तक 2.025 बिलियन डॉलर तक पहुँचाने के हमारे लक्ष्य के प्रति इतना समर्पित हूँ। ट्रस्टियों ने पिछले लक्ष्यों को पार करने और एंडोवमेंट देने में बढ़ती रुचि को पहचानने के बाद 2016 में यह लक्ष्य निर्धारित किया। सदस्यों की संपत्ति से उपहारों सहित आपके असाधारण समर्थन के लिए धन्यवाद, एंडोमेंट की शुद्ध संपत्ति और प्रतिबद्धताएँ काफी बढ़ गई हैं और अब हमारा लक्ष्य हमारी पहुँच के भीतर है।

एंडोमेंट में योगदान देने के लिए, अपने एंडोमेंट/प्रमुख उपहार सलाहकार या अपने प्रमुख उपहार अधिकारी से संपर्क करें, या फिर *rotary.org/donate* पर जाएँ। आपकी उदारता हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचने में सहायता कर सकती है, जिसका जश्न हम इस महीने कैलगरी में रोटरी इंटरनेशनल कन्वेंशन के दौरान मनाएँगे।

हम पेड़ लगा रहे हैं - ऐसे पेड़ जो रोटरी शांति फेलोशिप और छात्रवृत्तियों को वित्तपोषित करने, पोलियो को समाप्त करने, उच्च प्रभाव वाले कार्यक्रमों और वैश्विक अनुदानों का समर्थन करने तथा हमारे वार्षिक कोष को और अधिक आशा फैलाने में सहायक होंगे।

रोटरी में मेरे 40 वर्षों के नेतृत्व यात्रा के दौरान, रोटरी फ़ाउंडेशन हमेशा मेरे केंद्र में रहा है। 1986 में ग्रुप स्टडी एक्सचेंज टीम का नेतृत्व करने से लेकर डिस्ट्रिक्ट फ़ाउंडेशन चेयर, ट्रस्टी, रो ई अध्यक्ष और अब ट्रस्टी चेयर के रूप में सेवा करने तक, यह मेरे लिए जीवन भर का सम्मान रहा है।

मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने आपके समर्पण, सेवा और कार्य के माध्यम से जो जादू पैदा किया है, उसका अनुभव किया है और उससे प्रेरित हुआ हूँ। आइए हम सब मिलकर ऐसे पेड़ लगाते रहें जो आने वाली पीढ़ियों तक फल देते रहें।

मार्क डेनियल मेलोनी
ट्रस्टी अध्यक्ष, द रोटरी फौउंडेशन

Rotary PEOPLE OF ACTION

आगरा में मनोरंजक कार्यक्रमों से बच्चों का उत्साह बढ़ा

जयश्री

बच्चों के चेहरों पर खुशी के भाव देखना और *नागिन डांस* से लेकर माइकल जैक्सन के मूनवॉक तक कठपुतलियों को परफॉर्म करते हुए देखकर उनकी खुशी भरी चीखें सुनना, यह सब दिल को छू लेने वाला था। उनके चेहरों पर खुशी और जिस तरह से उन्होंने प्रतिक्रिया दी - यह कुछ ऐसा है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, रोटरी क्लब आगरा, रो ई मंडल 3110 की अध्यक्ष नम्रता पनिकर मुस्कुराते हुए कहती हैं।

वह क्लब द्वारा शहर के आशा स्कूल और सेंट अल्फांसो इंस्टीट्यूट में मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए सोच-समझकर तैयार किए गए कठपुतली शो का जिक्र कर रही थीं। क्लब जिसे वह 'फील गुड ईयर' कहता है की ''इस पहल का उद्देश्य भी यही था, वहाँ खुशियाँ फैलाना जहाँ उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।''

सेंट अल्फांसो में बच्चों ने प्रार्थना नृत्य और एक गीत प्रस्तुत किया, जिसकी सरलता और सच्चाई ने पूरे कमरे को शांत कर दिया। इसके बाद जो हुआ, वह कोई साधारण शो नहीं था; कठपुतलियों ने *लकड़ी की काठी* और शाहरुख खान के लोकप्रिय गानों पर नृत्य किया, जिससे बच्चों और वयस्कों दोनों की ओर से ज़ोरदार तालियाँ की गूंज उठी। बच्चे अपनी सीटों पर झूमते रहे, तालियाँ बजाते रहे और हँसते रहे।

आशा स्कूल के बच्चों ने क्लब के सदस्यों को हाथ से पेंट की गई कलाकृतियाँ भेंट कीं। नम्रता कहती हैं, ''हम उनकी दुनिया में स्वागत किए जाने के लिए बहुत आभारी हैं,'' उन्होंने दोनों स्कूल के प्रमुखों और उनकी टीमों को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। सेंट अल्फांसो के प्रिंसिपल, सिस्टर अल्फो मैथ्यू ने कहा, ''सिर्फ़ बच्चे ही नहीं, बल्कि उनके माता-पिता भी इस कार्यक्रम के बारे में सुनकर रोमांचित थे।''

कुछ समय बाद, क्लब ने मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए विशेष रूप से 'ब्रेव हार्ट्स इंटर-स्कूल स्पोर्ट्स मीट' का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आगरा के सात संस्थानों के 135 छात्र एकत्रित हुए, जिन्होंने रिले रेस, बैलेंसिंग गेम्स और दिल को छू लेने वाले अभिभावक-बच्चे 'स्पीड वॉक' जैसे 27 खेल आयोजनों में भाग लिया, जिसने पूरे मैदान को उत्साह के उत्सव में बदल दिया। क्लब के अध्यक्ष कहते हैं, ''यह सिर्फ़ जीतने के बारे में नहीं था। यह भाग लेने, कोशिश करने, जयकार करने और देखे जाने के अनुभव के बारे में था। उन्हें इसका हर पल पसंद आया।''

कठपुतली शो का आनंद लेते बच्चे।

कार्यक्रम का उद्घाटन अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संजीव त्यागी ने किया। उन्होंने कहा, ''मैं पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हुआ हूँ, और यहाँ की भावना ने मुझे वास्तव में प्रभावित किया है।'' सेंट अल्फांसो इंस्टीट्यूट ने 74 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि प्रयास फाउंडेशन के पुष्कल ने चार व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते।

क्लब के सदस्य मनोज आर कुमार कहते हैं, ''यह विशेष खेल प्रतियोगिता इस बात की एक झलक थी कि जब हम सीमाओं से परे देखते हैं और बच्चों को स्वयं के रूप में स्वीकार करते हैं, तो क्या-क्या संभव हो सकता है।'' दोनों आयोजनों की सफलता से उत्साहित, क्लब के सामुदायिक सेवा निदेशक उमेश गुप्ता कहते हैं, ''समावेश एक

ऊपरः क्लब की अध्यक्ष नम्रता पनिकर क्लब की सदस्य गुंजन सिंह ओर एक विशेष बच्चा।

नीचेः स्पीड वॉक इवेंट में भाग लेती एक बच्ची अपने माता-पिता के साथ।

विशेष खेल प्रतियोगिता इस बात की झलक थी कि जब हम सीमाओं से परे देखते हैं और बच्चों को उनकी तरह रहने देते हैं तो क्या संभव है।

अवधारणा नहीं है, यह एक क्रियात्मक पहल है। और आज, हमने एक कदम बढ़ाया है। हमें खुशी है कि हम हर बच्चे को गर्व, ध्यान और खुशी का अनुभव देने के लिए एक मंच दे पाए।''

नम्रता जो इस तरह के और भी मंचों का आयोजन करने की इच्छुक हैं, कहती हैं, ''मुख्यधारा के छात्रों और यहाँ तक कि शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए खेल आयोजन आम बात है, लेकिन मानसिक रूप से विकलांग बच्चे अक्सर ऐसे अवसरों से वंचित रह जाते हैं। आज, हमने शुद्ध आनंद देखा क्योंकि उन्होंने बेजोड़ उत्साह के साथ भाग लिया, और उनके माता-पिता

ने भी उनकी खुशी में हिस्सा लिया। आगामी अध्यक्ष दीनदयाल अग्रवाल, इन आयोजनों को अगले वर्ष भी जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं,'' वह आगे कहती हैं।

खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन क्लब की सदस्य शालिनी अग्रवाल और तूलिका बंसल ने किया। सभी प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

1939 में स्थापित इस 87 वर्षीय क्लब का ध्यान शिक्षा पर है और इस वर्ष क्लब ने शहर भर के कई स्कूलों का जीर्णोद्धार किया है, तथा वंचित परिवारों के बच्चों वाले स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित किए हैं। वह कहती हैं, ''हम छात्राओं को अवांछित प्रगति से खुद को बचाने के लिए सशक्त बनाने के लिए विभिन्न स्कूलों में 'सुरक्षित स्पर्श' और आत्मरक्षा कार्यशालाएँ आयोजित कर रहे हैं। यह हमारा प्रमुख प्रोजेक्ट है और हम आने वाले वर्षों में अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचना जारी रखेंगे।'' इस वर्ष क्लब ने दो इंटरेक्ट क्लबों को चार्टर किया और रोटेरियन की एन्स के साथ रोटरी क्लब आगरा रॉयल्स को अपने चार्टर सदस्यों के रूप में प्रायोजित किया। ■

Rotary PEOPLE OF ACTION

बॉश की मदद से बंगाल में ग्रामीण युवाओं का सशक्तिकरण

रशीदा भगत

युवाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और निम्न मध्यम वर्गों के लोगों के लिए, रोजगार के अवसरों में सुधार के अपने प्रयास के दौरान, रोटरी क्लब कलकत्ता, रो ई मंडल 3291, ने बॉश ब्रिज प्रोग्राम की पहचान की, जो भारत में रोटरी के साथ साझेदारी में चलाई जा रही बॉश इंडिया की एक सीएसआर पहल है।

''यह कार्यक्रम भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन का हिस्सा है, जिसे बेरोजगार युवाओं को कुशल बनाने और उन्हें कार्यस्थल के लिए तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब हमें पीडीजी जीतेंद्र अनेजा की मदद से इस अनूठी पहल के बारे में पता चला, तो हमने इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण प्रभाव को समझा - 15,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित करना और बॉश के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्लेसमेंट सुविधा प्रदान करना,'' क्लब की पूर्व अध्यक्ष और इस परियोजना के पीछे की प्रेरक शक्ति डॉक्टर रीना मलपानी कहती है।

पेशे से एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, उन्होंने समाज सेवा के प्रति अपनी लगन अपने दिवंगत पिता से विरासत में पाई है, जो स्वयं भी एक रोटेरियन थे और जिन्होंने रोटरी में अपने 30 वर्षों के कार्यकाल के दौरान समाज सेवा की थी। वे अपनी पारिवारिक ट्रस्ट - ताराचंद्र और शांति माहेश्वरी ट्रस्ट - की प्रबंधक न्यासी हैं, जो निम्न सामाजिक वर्ग की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक परियोजना संचालित करता है और किसी विलक्षण योग्य छात्र की शिक्षा का प्रायोजन भी करता है।

उन्हें उम्मीद थी कि अगर उनका क्लब बॉश ब्रिज कार्यक्रम के तहत बेरोजगार युवाओं को कुशल बनाने के लिए एक परियोजना शुरू करेगा, तो प्रशिक्षित युवाओं को उन 3,000 कंपनियों के माध्यम से रोजगार का अवसर मिलेगा जिनके साथ बॉश ने ऐसी

प्रशिक्षित प्रतिभा को अवशोषित करने के लिए करार किया है।

लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि पूर्वी भारत में कोई बॉश ब्रिज सेंटर था ही नहीं। इस समस्या को एक अवसर में बदलते हुए, उनके क्लब के रोटेरियनों ने कोलकाता या उसके आसपास एक ऐसा केंद्र स्थापित करने के तरीकों की तलाश शुरू की। नवंबर 2024 में बॉश कार्यशाला में भाग लेने के बाद, उन्होंने ऐसा केंद्र स्थापित करने के लिए कोलकाता से 45 मिनट की दूरी पर स्थित बरुईपुर जिले के मलिकपुर की पहचान की।

''केंद्र की स्थापना के लिए, हमने अवेयरनेस फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट

बाएं से: क्लब अध्यक्ष आभा, मंडल व्यावसायिक कौशल अध्यक्ष पार्थो प्रतिम चक्रबोर्ती और परियोजना अध्यक्ष रीना।

कौशल केंद्र में रो ई निदेशक अनिरुद्धा रॉयचौधरी के साथ पीडीजी रजनी मुखर्जी, परियोजना अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष डॉ रीना मालपानी और क्लब अध्यक्ष आभा लूनिया।

के साथ साझेदारी की, जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने वाला एक एनजीओ है,'' वह आगे कहती है। रोटेरियन बताते हैं कि इस एनजीओ का मलिकपुर में लगभग 3-4 एकड़ के क्षेत्र में फैला एक विशाल फार्महाउस है, जो इस प्रशिक्षण के लाभार्थी ग्रामीण युवाओं की पहचान करने के लिए एक सही स्थान था। बॉश एक बैच में अधिकतम 25 युवाओं को दाखिल करता है, जहां आठ सप्ताह की थ्योरी और चार सप्ताह की व्यावहारिक कक्षाएं होती है, जिसमें इंटर्नशिप, और नौकरी के आवेदन के लिए सीवी लिखना शामिल होता है, और मॉक इंटरव्यू आयोजित किए जाते हैं।

पी पी मित्रा, जो भारत सरकार की स्किल इंडिया पहल का हिस्सा हैं, और जो फार्महाउस के मालिक हैं, ने बॉश कोर्स के लिए तीन कक्षाएं आवंटित कीं, प्रशिक्षण के लिए आवश्यक कंप्यूटर प्रदान किए और डॉ रीना की ट्रस्ट ने प्रशिक्षकों के वेतन - लगभग ₹16,000 - का भुगतान करने की सहमति दी। उनके क्लब के सदस्यों ने पाठ्यक्रम के लिए 23 युवाओं की पहचान करने में मदद की।

यह पूछे जाने पर कि प्रशिक्षुओं की पहचान कैसे की गई, रीना मुस्कुराते हुए कहती हैं, ''अक्सर, ऐसी परियोजनाओं के लिए, योग्य लाभार्थियों की तुलना में पैसे ढूंढना आसान होता है। लेकिन हमारे क्लब के सदस्यों ने मदद की और हम इन युवाओं को खोज सके।'' वे उन लोगों की तलाश कर रहे थे जिन्होंने अपनी कक्षा 12 पास कर ली थी, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि एक स्नातक ने भी बॉश पाठ्यक्रम का विकल्प चुना है। इसका मुख्य कारण उपयुक्त नौकरियाँ खोजने में भारी कठिनाई है, और 60-70 प्रतिशत भर्ती दर तथा लगभग ₹15,000 की प्रारंभिक वेतन राशि इससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक बार लिया जाने वाला शुल्क केवल ₹1,000 है; जबकि कई कॉलेज यह ब्रिज कोर्स ₹15,000 में कराते हैं, रीना कहती हैं।

मलिकपुर में प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन रो ई निदेशक अनिरुद्ध रॉयचौधरी ने किया, जिन्हें बॉश के साथ रोटरी की साझेदारी

स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। तीन महीने के इस कार्यक्रम में छात्रों को कंप्यूटर की मूल बातें, अंग्रेज़ी बोलना और सॉफ्ट स्किल्स की शिक्षा दी जाती है, जो आज के नौकरी बाजार के लिए आवश्यक हैं। ''उन्हें शिष्टाचार, बोलने का तरीका, व्यवहार करने का ढंग सिखाया जाता है और बॉश यह सुनिश्चित करता है कि कोर्स पूरा करने के बाद 60-70 प्रतिशत प्लेसमेंट के अवसर मिलें, क्योंकि उनकी लगभग 3,000 कंपनियों के साथ साझेदारी है जो ऐसे कुशल श्रमिकों की तलाश में हैं।''

प्रशिक्षकों के लिए भी मानक निर्धारित किए गए हैं; उन्हें बॉश द्वारा संचालित एक गहन 4-दिवसीय कार्यक्रम के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है और योग्यता प्राप्त करने के लिए एक परीक्षा पास करनी होती है। बॉश बिना किसी लागत के प्रशिक्षण किट और मानकीकृत पाठ्यक्रम प्रदान करता है, क्योंकि यह

अवेयरनेस फाउंडेशन, जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करता है, की डिजाइन और टेलरिंग कोर्स के लिए सिंगर के साथ साझेदारी है। वे आभूषण डिजाइन और सौंदर्य देखभाल में बुनियादी पाठ्यक्रम भी प्रदान करते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि रीना के एनजीओ ने कोलकाता से लगभग 50 किलोमीटर दूर तियाली में सिंगर के सहयोग से महिलाओं के लिए एक कौशल केंद्र भी स्थापित किया है। ''मैंने इसे तब शुरू किया जब मैं 2023 में अपने क्लब की अध्यक्ष थी। यह छह महीने का सिलाई पाठ्यक्रम प्रदान करता है, और सफल लोगों को प्रमाण पत्र के साथ-साथ सिलाई मशीन दोनों दिए जाते हैं। हम उन्हें नौकरी दिलाने में भी मदद करते हैं। मैं अपनी छोटी सी भूमिका में मदद करती हूँ, क्योंकि मेरी दो-तीन ऐसी कंपनियों से जान-पहचान है जिन्हें हमेशा ऐसे कुशल कामगारों की ज़रूरत रहती है। मैं एक ऐसी कंपनी के मालिक के साथ गोल्फ खेलती हूँ जो औद्योगिक उपयोग के लिए परिधान बनाती है, और मैंने उनसे इन महिलाओं को नौकरी देने की संभावना पर बात की। जिन्हें नौकरी मिल जाती है, वे ₹15,000-20,000 के प्रारंभिक वेतन से शुरूआत करती हैं, जो उनके लिए एक अच्छा अवसर है।''

रीना कोलकाता के एक बुटीक गीता सर्किल के मालिक शैलेंद्र गुप्ता को भी जानती हैं; ''वह भी एक रोटेरियन है (रोटरी क्लब कलकत्ता से) और वह हमें अपने बुटीक से बेकार कपड़े देते है जिसका उपयोग हम अपनी महिलाओं को प्रशिक्षित करते समय करते हैं। हमने उनके लिए एक छोटा फैशन शो भी आयोजित किया था, जिसमें हमारी दो महिलाएं रैंप पर उतरी थीं।''

रोटरी बॉश कौशल केंद्र में छात्र।

अपने भीतर मौजूद समाज सेवा की भावना को लेकर रीना हँसते हुए कहती हैं, ''शायद मुझे यह अपने पिता से मिली है; वे बहुत सक्रिय रोटेरियन थे और भले ही उन्होंने बहुत बड़ी धनराशि दान न की हो, लेकिन वे बेहद सक्रिय थे और मुझे याद है कि वे हर रविवार पूरी लगन से बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के लिए निकल पड़ते थे।''

वह रॉयचौधरी की प्रशंसा करते हुए कहती है, ''रोटरी-बॉश सहयोग बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इस प्रयास के पीछे एक मार्गदर्शक शक्ति रहे है'' और साथ ही क्लब अध्यक्ष आभा लुनिया की भी प्रशंसा करती है जिन्होंने विपणन और महत्वपूर्ण परियोजना विवरणों को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इस क्लब के अगले एजेंडा में इस क्षेत्र में एक और बॉश ब्रिज कोर्स केंद्र शुरू करना शामिल है। रीना कहती है, ''पीडीजी अनेजा ने हमें इस पर विचार करने को कहा है और अगले वर्ष, जब मैं असिस्टेंट गवर्नर बनूँगी, तब मैं इस कौशल परियोजना का विस्तार देने के लिए पूरी मेहनत करूँगी, क्योंकि आज के समय में युवाओं को नौकरी के लिए पर्याप्त रूप से कुशल बनाना बहुत ज़रूरी है।''

उन्हें इस बात की खुशी है कि मलिकपुर स्थित इस बॉश केंद्र में 23 युवाओं में से अधिकांश महिलाएँ हैं। इनमें से सभी नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित नहीं हो पातीं, क्योंकि उनमें से कई आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम भी करना पड़ता है। ''यही उनके जीवन की सच्चाई है और हमें इसी के अनुसार काम करना होगा। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि सामूहिक प्रयास और दूरदृष्टि के साथ यह पहल सच में ज़िंदगियाँ बदल सकती है, समुदायों को सशक्त बना सकती है और एक स्थायी प्रभाव छोड़ सकती है,'' वह कहती है।■

Your Pathway to Medicine Starts at
Xavier University School of Medicine
& KLE Belgaum
6 Years
Pre-Med to Doctor of Medicine /
Doctor of Veterinary Medicine Programme
Empathy in Action:
Your Medical Journey at
XUSOM
Healing Together:
The Future of Animal Care at
XUSOVM
Register for our Webinar
Admission open for September 2025
Xavier Students are eligible for H1/J1 Visa Programme
To Apply Visit:
application.xusom.com
admissions@xusom.com
WhatsApp
+1 516-927-0418

ADVT.

पुणे के केबिन स्कूल

जयश्री

पुणे के सांगवी की झुग्गियों में रहने वाले कई बच्चों के लिए कक्षा में बैठकर वर्णमाला सीखना कभी न आने वाले सपने जैसा था। लेकिन आज वह सपना एक वास्तविकता में बदलने जा रहा है और इसका श्रेय जाता है रोटरी क्लब पिंपरी, रो ई मंडल 3131 द्वारा स्थापित किए गए मकेबिन स्कूलफ को।

यहाँ कोई निश्चित पाठ्यक्रम या ग्रेड नहीं है। 'स्कूल छोड़ने वाले, बच्चे, यहाँ तक कि वयस्क भी यहाँ आराम से आकर पढ़ना और लिखना सीख सकते हैं,' क्लब अध्यक्ष संतोष गिरंजे कहते हैं। इस स्कूल को पोर्टा केबिन स्कूल कहा जाता है और इसे 2024 में स्थापित किया गया था क्योंकि तब क्लब ने पहली बार यह देखा था कि कैसे इन झुग्गियों के बच्चे स्कूल न जाकर अपना जीवन ख़राब कर रहे है। ''यह उस कहावत जैसा था कि खाली दिमाग शैतान का घर। जब बच्चों के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता है तो वे आसानी से बुरी आदतों की ओर आकर्षित हो जाते हैं या आसान पैसे हासिल करने के लिए भीख मांगने लगते हैं। इस विचार ने हमें वास्तव में कई रातों तक सोने नहीं दिया। तभी हमने विचार-मंथन करके इस प्रारंभिक स्कूल की योजना बनाई जिससे बच्चों में सीखने की रुचि जगेगी,'' वह समझाते हैं।

एक पुनर्निर्मित शिपिंग कंटेनर के अंदर स्थापित यह स्कूल पिंपरी-चिंचवाड़ के न्यू सांगवी क्षेत्र के एक खुले मैदान में स्थति है। जन सेवा फाउंडेशन के शिक्षक, जिनके साथ क्लब कई वर्षों से जुड़ा हुआ है, मजेदार तरीके से कक्षाएं आयोजित करते हैं ताकि वे सभी हर दिन वापस आने के लिए तत्पर रहें। यहाँ मराठी, हिंदी और गणित की कक्षाएं ली जाती है जिनमें

सफेद बोर्ड और रंग-बिरंगे चार्ट का उपयोग किया जाता है जिन पर वर्णमाला, संख्याएं और विज्ञान के बुनियादी सिद्धांत दर्शाए गए होते है।

वर्तमान में इस क्षेत्र के लगभग 50 बच्चे इन कक्षाओं में पढ़ते हैं। ''उनके माता-पिता इस बात से राहत महसूस करते है कि अब उनके बच्चे सड़कों पर यूँही समय बिताने के बजाय कुछ सीखने में लगे हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चे कभी किसी औपचारिक स्कूल में नहीं गए। यहाँ वे बुनियादी चीजों से शुरूआत करते हैं - अंग्रेजी और मराठी की वर्णमाला और सरल अंकगणित,'' गिरंजे कहते हैं। बच्चों को किताबें, यूनिफ़ॉर्म और स्टेशनरी प्रदान की जाती है और कर्मचारी उनके लिए ऐसे खेलों का आयोजन करते है जो उनके लिए सेहतमंद हो और जिनसे उनमें मेलजोल और टीम भावना का विकास हो। ''वे ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ गरीबी, अशिक्षा और तनाव व्याप्त है। ऐसी स्थितियों में उनके लिए शांत रहना महत्वपूर्ण है; ताकि उनका अनुशासन और शिष्टता उनके आसपास के वयस्कों को प्रेरित करें,'' वह कहते हैं।

जब बच्चों के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, तो वे आसानी से आदत बनाने वाली बुराइयों की ओर आकर्षित हो जाते हैं या आसानी से पैसे कमाने के लिए भीख मांगने लगते हैं। इस विचार ने हमारी रातों की नींद हराम कर दी।

यह स्कूल लगभग 20 किशोरों के लिए ब्रिज कक्षाएं चलाता है जिन्होंने बीच में ही औपचारिक शिक्षा छोड़ दी थी। जन सेवा के कर्मचारी उन्हें प्रवेश परीक्षाओं की तयारी करवाते हैं और फिर से स्कूलों में दाखिला दिलवाने में उनकी मदद करते हैं। ''पिछले साल हमारी एक छात्रा ने उच्च माध्यमिक परीक्षा पास की और हमने उसे कॉलेज के लिए छात्रवृत्ति दिलाने में मदद की। एक अन्य लड़का जो इस स्कूल का पूर्व छात्र है, ने अपना डिप्लोमा पूरा किया और वर्तमान में कार्यरत है। उसकी मां जो घरेलू कार्य करती है, बहुत खुश हैं कि अब उसके बेटे का भविष्य सुरक्षित है,'' क्लब अध्यक्ष गर्व से कहते हैं।

6-16 वर्ष की आयु के बच्चों को केबिन स्कूल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ उन्हें शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ आत्मरक्षा, मासिक धर्म स्वच्छता, सुरक्षित स्पर्श और सामाजिक व्यवहार जैसे विषयों पर आयोजित कार्यशालाओं में भाग लेने का अवसर मिलता है। पुराने छात्र भी नए लोगों को पढ़ाने के लिए आगे आते हैं। क्लब की *नन्हे कदम* पहल के अंतर्गत दूर-दराज के स्थानों से स्कूल आने वाले बच्चों को मरम्मत की गई साइकिलें उपहार में दी जाती हैं। बच्चों में एनीमिया, नेत्र विकार और दंत स्वच्छता की जांच करने के लिए नियमित रूप से चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाते हैं। क्लब नियमित रूप से छात्रों को पोषक आहार वितरित करता है।

इस स्कूल की सफलता से प्रेरित होकर क्लब ने पुणे की तीन अन्य झुग्गी बस्तियों में भी पोर्टा केबिन स्कूल स्थापित किए हैं। नवी मुंबई में स्थित कृषि मशीनरी निर्माण कंपनी बॉन्डियोली एंड पावेज़ी इंडिया इस परियोजना

रोटरी क्लब पिंपरी द्वारा समर्थित आदिवासी गांवों में से एक गाँव में किसान खेती करते हुए।

ग्रामीण अपनी उपज के साथ।

हैप्पी विलेज प्रोजेक्ट हमारा गौरव है, और आने वाला हर अध्यक्ष इसे बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

के कॉर्पोरेट भागीदार है। क्लब के सदस्य डीजीएन नितिन धमाले इस परियोजना के सक्रिय समर्थक हैं।

शिक्षा के अलावा जन सेवा की टीम स्थानीय निवासियों - जिनमें से कई निरक्षर हैं - की बैंक खाते खुलवाने और आधार कार्ड, राशन कार्ड या गैस कनेक्शन जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन करने में भी मदद करती हैं। ''हमारा अगला लक्ष्य युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू करना है। सिलाई, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पाठ्यक्रमों में कक्षाओं की योजना बनाई जा रही है। हम उनके भविष्य को दोबारा से लिखने के लिए प्रतिबद्ध हैं,'' वह कहते है।

इस क्लब का प्रभाव केवल झुग्गी बस्तियों तक ही सीमित नहीं है। अपनी प्रमुख *हैप्पी विलेजेस* परियोजना के अंतर्गत क्लब ने भीमाशंकर के पास सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित दो दूरस्थ आदिवासी गांवों - खरपुर और खोपेवाड़ी - को गोद लिया है। करीब एक दशक पहले इस गांव के सरपंच ने हमसे पानी उपलब्ध कराने के लिए सहायता मांगी थी। हालांकि इस क्षेत्र में अच्छी वर्षा होती है मगर उपयुक्त भंडारण सुविधाएं न होने के कारण इन गांवों में केवल चार महीने तक ही भरपूर पानी उपलब्ध रहता है। इसके बाद भूजल स्तर घटने लगता है, परियोजना निदेशक, धनंजय भिंगे याद करते हैं।

वैश्विक अनुदान समर्थन से क्लब ने खेत तालाबों और चेक बांधों का निर्माण करवाया है। ग्रामीणों को बीज, मवेशी और फलों के पौधे वितरित किए गए। क्लब ने आधुनिक कृषि तकनीकों में प्रशिक्षण देने के लिए बीएआईएफ डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन के साथ साझेदारी की। टाटा मोटर्स ने सामूहिक कुओं के लिए ₹15 लाख की धनराशि देकर क्लब के प्रयासों का समर्थन किया। इसकी प्रगति को देखकर हमें बहुत संतुष्टि मिली, गिरंजे मुस्कराते हुए कहते है। हमारे सदस्य हर महीने गांवों का दौरा करते हैं ताकि उनकी बदलती जरूरतों का आंकलन किया जा सकें। *हैप्पी विलेजेस* परियोजना हमारा गौरव है और प्रत्येक नवनिर्वाचित अध्यक्ष इसे जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में हमने चेक

न्यू संघवी, पुणे में पोर्टा केबिन स्कूल में चल रही एक ध्यान कक्षा।

क्लब के अध्यक्ष संतोष गिरंजे (दाएं से पांचवें) केबिन स्कूल के एक पूर्व छात्र को बधाई देते हैं, जिसे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश मिला है।

डैम से सीधे घरों में पानी पहुँचाने के लिए एक सोलर पंप भी स्थापित किया है।

क्लब ने इन गांवों के लिए स्थापित दो स्कूलों का नवीनीकरण किया है और हर वर्ष विद्यार्थियों को शैक्षिक किटें, यूनिफ़ॉर्म और जूते प्रदान किए जाते है। हम मेधावी छात्रों की उच्च शिक्षा का समर्थन करते हैं और उन्हें शहर के कॉलेजों में डिप्लोमा या स्नातक पाठ्यक्रम करने में मदद करते हैं, भिंगे कहते है। इनमें से कुछ छात्रों ने टाटा मोटर्स में प्रशिक्षुता भी प्राप्त की है जिससे उन्हें लगभग ₹3 लाख का वार्षिक वेतन प्राप्त हो रहा है।

इन गांवों में चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। क्लब ने अप्रैल में ऐसे 25 ग्रामीणों की पहचान की जिन्हें मोतियाबिंद के ऑपरेशन की आवश्यकता थी और एच वी देसाई नेत्र अस्पताल में उनके इलाज की व्यवस्था करवाई गई।

पिछले छह वर्षों से इस परियोजना की देखरेख कर रहे भिंगे अब इन दोनों गांवों में एक जाना-पहचाना नाम बन चुके हैं। ''इस परियोजना में उनकी निरंतरता ने बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। उन्हें इन गांवों और यहाँ की ज़रूरतों की गहरी जानकारी है,'' गिरंजे कहते हैं।

इनमें से ज़्यादातर बच्चे कभी किसी औपचारिक स्कूल में नहीं गए। यहाँ वे बुनियादी बातों से शुरू करते हैं – अंग्रेजी और मराठी में वर्णमाला, और सरल अंकगणित।

आठ साल पहले क्लब ने जन सेवा फाउंडेशन और सेलो को एक सीएसआर साझेदार के रूप में साथ लेकर वेल्हे और भोर तालुकों के दो गांवों का कलात्मक रूप से कायाकल्प किया था। इन गांवों में लगभग 300 शौचालयों का निर्माण किया गया और ''हमने स्कूलों को स्मार्ट क्लास, कक्षा फर्नीचर और स्वच्छता सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया।'' चेक डैम का निर्माण किया गया जिससे अब ग्रामीणों को अधिक फसलों की खेती करने में मदद मिल रही है। क्लब आज भी इन गांवों के साथ यहाँ के ग्रामीणों और पशुओं दोनों के लिए चिकित्सा शिविर आयोजित कर रहा है, वह कहते हैं। ■

Rotary PEOPLE OF ACTION

एक जादुई परियोजना की अद्भुत तैयारी

रशीदा भगत

यह मेरे जीवन का पहला मौका था जब मैंने बिना *आधार कार्ड,* PAN कार्ड या किसी सुरक्षा जांच के तिरुपति दर्शन किए और यह अनुभव जादुई था,'' उत्साहित महावीर बोथरा, रो ई मंडल 3233, के डीजी कहते हैं। वह 1,650 विशेष बच्चों और उनके सहायकों के लिए आयोजित विशेष दर्शन की बात कर रहे थे, जिसे उन्होंने नवनिर्मित मंडल का गवर्नर बनने के तुरंत बाद आयोजित किया।

''मैं हमेशा से विशेष बच्चों के साथ कुछ कार्य करने को लेकर जुनूनी रहा हूँ जो कठिनाइयाँ वे प्रतिदिन झेलते हैं, उसकी तुलना में तो हम स्वर्ग में जीते हैं। उनमें से कई सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते या देख नहीं सकते। जब मैं 2014-15 में अपने क्लब (रोटरी क्लब टी नगर) का अध्यक्ष था, तब मैंने करीब 1,500 विशेष बच्चों के लिए एक दिवसीय शिविर आयोजित किया था, और उस कार्यक्रम में सभी बच्चों को पुरस्कार दिए गए थे,'' वह बताते हैं।

उनकी तिरुपति परियोजना, जिसमें रोटरी लोगो वाली चमकीली पीली टी-शर्ट पहने मुस्कराते बच्चों की तस्वीरें थीं, ने तमिलनाडु की स्थानीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, और कई प्रकाशनों एवं चैनलों ने इस कहानी को प्रमुखता से दिखाया कि कैसे रोटरी ने चेन्नई के 1,000 से अधिक विशेष बच्चों के लिए तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम में विशेष दर्शन का आयोजन किया, जिन्हें एक विशेष ट्रेन से तिरुपति ले जाया गया था।

जब बोथरा हाल ही में रोटरी न्यूज़ ट्रस्ट के कार्यालय आए, तो मैंने सहजता से उनसे पूछा कि यह विचार उन्हें कैसे आया और 1,000 बच्चों के लिए ऐसा कार्यक्रम आयोजित करना कितना आसान या कठिन था। जो बातें उन्होंने बताई... आयोजन के नियोजन में ध्यान दी गई बारीकियों को सुनकर मैं चकित रह गई! हम अक्सर यह नहीं समझ पाते कि रोटरी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में कितनी मेहनत और योजना लगती है।

''ओह, यह बिल्कुल भी आसान नहीं था, यह रोमांचक जरूर था, लेकिन मैं डरा हुआ था कि इतने बच्चों को संभालते हुए कुछ भी गलत हो सकता है। कोई बच्चा गिर सकता है, ट्रेन से कूद सकता है या किसी दुर्घटना का शिकार हो सकता है, और मैं जेल जा सकता हूँ। मैं चार रातों तक सो नहीं पाया।''

इस विचार की उत्पत्ति पर, बोथरा ने बताया कि जब उन्होंने उनके कार्यकाल के पहले पीईटीएस सेमिनार मलेशिया में आयोजित

तिरुपति जाते समय ट्रेन की यात्रा का आनंद लेते बच्चे।

किया था, ''तब मेरे मन में कोई विशेष परियोजना नहीं थी, लेकिन पीईटीएस के अंतिम दिन अचानक मैंने घोषणा कर दी कि हम 1,000 से अधिक विशेष बच्चों के लिए तिरुपति दर्शन का विशेष कार्यक्रम करेंगे। मैंने घोषणा तो कर दी, लेकिन न तो देवस्थानम में मेरी कोई पहचान थी, और न ही इस परियोजना के लिए कोई ठोस योजना थी।''

मलेशिया से लौटने के बाद यह विचार उनके मन में गूंजता रहा और उन्होंने अपने (आईसीआईसीआई) बैंक मैनेजर से पूछा कि क्या वह तिरुमाला देवस्थानम के किसी अधिकारी को जानते हैं, और उन्होंने बताया कि उनके एक खाता धारक वहाँ के न्यासी हैं। उन्होंने बोथरा की योजना का विवरण मांगा। ''मैंने एक पत्र भेजा जिसमें रोटरी, हमारे मंडल और इस विशेष बच्चों के दर्शन के आयोजन की योजना का उल्लेख किया और एक विशेष समय मांगा, यह वादा करते हुए कि हम सभी व्यवस्थाएं स्वयं देखेंगे।''

एक महीने तक, कोई उत्तर नहीं मिला, और जैसे ही वह ट्रस्टी से मिलने की योजना बना रहे थे, उन्हें एक उत्तर मिला जिसमें एक विशेष दिन और समय पर दर्शन की अनुमति दी गई थी। बोथरा को लगा कि पूरा खर्च करीब ₹10 लाख

डीजी महावीर बोथरा

डीजी बोथरा और पीडीजी राजा सेनिवासन।

आएगा; वापसी टिकट ₹500 के आसपास होगा और बच्चों के खाने का प्रबंध प्रायोजकों से हो जाएगा। वे ₹15 लाख तक खर्च करने को तैयार थे।

उन्होंने तुरंत एक 5-सदस्यीय समिति बनाई, जिसमें प्रत्येक ने ₹1.5 लाख का योगदान दिया; इस तरह अनुमानित अधिकतम बजट का आधा हिस्से की व्यवस्था हो गई, और यात्रा की बारीकियों पर काम शुरू हो गया। रोटेरियनों ने दक्षिण रेलवे के जीएम को पत्र लिखकर बच्चों को रेनिगुंटा स्टेशन ले जाने के लिए ट्रेन मांगी। लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि सप्तगिरी एक्सप्रेस यात्रियों के लिए आरक्षित है। लेकिन वे एक विशेष ट्रेन ले सकते थे।

जब रोटेरियनों ने सहमति दी, तो उन्हें बताया गया कि हर कोच का खर्च ₹1 लाख

होगा, और उन्हें 1,600 यात्रियों के लिए 16 कोच और एक पैंट्री कार की आवश्यकता होगी। इसकी लागत ही ₹15 लाख के पूरे बजट को पार कर गई।

रेलवे नियमों के अनुसार ₹10.5 लाख की जमा राशि भी जमा करनी थी, जो इस आयोजन के 6 महीने बाद लौटाई जाती। अतिरिक्त पानी, नाश्ता, सफाई आदि का खर्च अलग से था।

मुस्कराते हुए बोथरा कहते हैं, ''यह एक मैरिज हॉल की तरह काम करता है; ट्रेन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक किराये पर मिलती है; अगर आप 10:05 पर लौटाते हैं, तो ₹1 लाख अतिरिक्त देना होता है।''

वह अभी हँस पा रहे है, लेकिन तब वह बेहद चिंतित थे; ''हम सोच रहे थे कि पैसा कहाँ से आएगा क्योंकि केवल ट्रेन और जमा राशि की लागत ही ₹27 लाख थी। तिरुमाला डिपो से मुफ्त बसें मांगी गईं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी बसें केवल तिरुपति से तिरुमाला जाती हैं। उन्होंने आईटीसीटीसी से संपर्क करने के लिए कहा, हमनें किया और हमें बताया गया कि हर बस ₹40,000 की पड़ेगी। हमें 38 बसें चाहिए थीं जिसकी लागत ₹12 लाख थी और ₹4 लाख अतिरिक्त जमा राशि चाहिए थी।''

यह रोमांचक तो था लेकिन आसान नहीं था! मुझे डर था कि 1,000 बच्चों को संभालने के कारण कुछ भी हो सकता है। उनमें से कोई गिर सकता है या ट्रेन से कूद सकता है, या दुर्घटना का शिकार हो सकता है, और मैं जेल में जा सकता हूँ।

डीजी बोथरा बच्चों को दोपहर का भोजन परोसते हुए।

अब तक, चेन्नई रेलवे स्टेशन से तिरुमाला तक बुनियादी परिवहन - ट्रेन और बस - के लिए लागत ₹50 लाख या आधा करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी। बोथरा ने समिति को बढ़ाकर 15 सदस्यीय कर दिया और प्रत्येक से ₹1.5 लाख मांगे। इस प्रकार उन्हें ट्रेन की लागत और उसकी जमा राशि के लिए ₹25 लाख मिल गए।

इस बीच उनकी टीम ने 70 विशेष स्कूलों की पहचान की, जिनमें सभी धर्मों - हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, इत्यादि - के बच्चे थे। ''मैंने स्कूलों से कहा कि यदि आप इच्छुक हैं, तो बच्चों को भेजिए। कोई मजबूरी नहीं है, और हम सभी धर्मों के बच्चों को ले जाने के लिए तैयार है। स्कूलों ने कहा कि बच्चे बाहर जाने को लेकर उत्सुक हैं।''

फिर अलग-अलग समितियों का गठन करके विस्तृत योजना बनाना शुरू हुआ; ''हमने भोजन, नियोजन, बच्चों की सुरक्षा, प्रायोजन आदि के लिए 16 समितियों का गठन किया। ट्रेन में सुबह के नाश्ते और हाई टी, तिरुमाला में लंच, वापसी के दौरान फिर रेनीगुंटा में हाई टी और फिर डिनर के लिए प्रायोजन का पैसा जुटाया गया। कैटरिंग अरसुवई श्रीधर ने की थी, जिन्होंने मुकेश अंबानी, रजनीकांत आदि के लिए केटरिंग का काम किया था,'' मुसकुराते हुए बोथरा कहते है।

खाने से ज्यादा खर्च उसकी पैकिंग पर हुआ, क्योंकि चलती ट्रेन में बच्चों को खाना इस तरह देना था कि वह फैले नहीं।

उस सुबह, चेन्नई का सेंट्रा स्टेशन उत्सवस्थल जैसा लग रहा था जहां 1,000 से अधिक विशेष बच्चे, 400 सहायक, और 200 से अधिक रोटेरियन व रोटरेक्टर रोटरी के लोगो वाली पीली टी-शर्ट में विशेष ट्रेन की ओर बढ़ रहे थे।

योजना इतनी बारीकी से बनाई गई थी कि बच्चों को लेने और छोड़ने का भी प्रबंध किया गया था; ''हमनें स्कूलों से कहा कि वे अपने वाहन इस्तेमाल करें, पर खर्च हम देंगे। किसी ने डीजल

का पैसा मांगा, तो किसी ने भत्ता मांगा। जिसने जो मांगा, हमने दिया।''

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, देवस्थानम समिति, विजलन्स विभाग, चेन्नई के पुलिस आयुक्त आदि को अनुमति के लिए पत्र भेजने पड़े... कुल 18 पत्र भेजे गए और धीरे-धीरे सभी अनुमतियाँ मिल गईं। इसके बाद तिरुमला में एक नियोजित बैठक भोज या *अन्नदानम* का आयोजन करना था।

चार महीने की गहन योजना के बाद, वह दिन आया, लेकिन भारी बारिश के साथ। ''हम डरे हुए थे कि बच्चे स्टेशन समय पर पहुँचेंगे या नहीं, पर भगवान की कृपा से सब समय पर आए। हर बच्चे को एक बैग दिया गया जिसमें पानी और स्नैक्स थे, और उन्होंने वास्तव में यात्रा के दौरान दावत की। सफर के दौरान बच्चों की शौचालय जाने में मदद के लिए लिए हर कोच में 2 हाउसकीपिंग सहायक थे। प्रत्येक डिब्बे में अपने सुरक्षाकर्मी भी थे और डिब्बों को बंद कर दिया गया था ताकि कोई भी बच्चा दरवाजा खोलने का प्रयास न करे। प्रत्येक डिब्बे में दो रोटेरियन और दो रोटरेक्टर भी थे।''

रोटेरियनों को किसी भी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी को भी ध्यान में रखना था। ''मैंने अपोलो अस्पताल को लिखा कि यात्रा के दौरान कोई मेडिकल इमरजेंसी होने पर हमें

रोटरी और उसके नेटवर्क के लिए धन्यवाद, हम कुछ विशेष बच्चों को यह अद्भुत अनुभव देने में सक्षम हुए, और हमें स्वयं भी तिरुमाला में अद्भुत दर्शन प्राप्त हुए।

रोटेरियन मंदिर में शारीरिक रूप से विकलांग महिलाओं की सहायता करते हुए।

एंबुलेंस और कुछ डॉक्टरों की जरूरत है। एक घंटे के भीतर मुझे स्वीकृति मिल गई, वो भी किसी 'सिफारिश' का उपयोग किए बिना।'' उन्होंने बच्चों के लिए टोपी हेतु ₹1.5 लाख भी दिए, और कहा कि अस्पताल 20 डॉक्टरों के साथ दो एम्बुलेंस तैनात करेगा, एक चेन्नई में और दूसरी रेनीगुंटा में, वो भी बिना किसी शुल्क के।

तिरुमला में प्रवेश करने के बाद दोपहर 12:30 बजे यह पता चलने पर हलचल मच गई कि दो बच्चे लापता हैं, लेकिन उन्हें जल्दी ही खोज लिया गया।

समूह के साथ ''वीवीआईपी बर्ताव किया गया; हमें सुरक्षा के साथ सीधे प्रवेश मिला, हमारे साथ वहाँ लगभग 100 पुलिस/सुरक्षाकर्मी रहे होंगे। और *अन्नदानम* के लिए, हमने देवस्थानम को ₹1.51 लाख का दान दिया,'' गवर्नर कहते हैं।

पूरी यात्रा की कुल लागत **₹75 लाख** रही, लेकिन पैसे से कहीं अधिक चिंता इस बात की थी कि कहीं किसी एक भी बच्चे के साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। ''मेरे मन में लगातार यह सवाल चल रहे थे कि अगर यात्रा के दौरान किसी की मृत्यु हो गई या कोई दुर्घटना हो गई तो मैं क्या करूँगा? अंतिम पाँच दिनों में मैं इतना चिंतित हो गया कि मैंने सभी यात्रियों के लिए बीमा कवर लेने का निर्णय लिया; उन्होंने ₹5 लाख का कवर देने की पेशकश की, लेकिन मैंने उसे बढ़ाकर ₹25 लाख करवा लिया और ₹1.63 लाख का प्रीमियम चुकाया।''

बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और उनके हाथों में कीमती *तिरुपति का लड्डू* ही उनका सबसे बड़ा पुरस्कार था। ''रोटरी और इसके नेटवर्क की बदौलत, हम कुछ विशेष बच्चों को यह अद्भुत अनुभव दे सके। और मैं अपने मंडल के सभी क्लबों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस अत्यंत संतोषजनक परियोजना की योजना बनाने और इसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में मदद की,'' बोथरा ने कहा।■

Rotary PEOPLE OF ACTION

विशेष बच्चों के लिए
एक मनोरंजक मैराथन

किरण ज़ेहरा

बडी मैराथन में अपने साथियों के साथ एक प्रतिभागी।

जैसे ही 350 से अधिक विशेष रूप से सक्षम बच्चों ने अपने जूते बाँधे और अपने साथियों का हाथ थामकर दौड़ की शुरुआत की, चारों ओर से तालियों और खुशियों की गूंज सुनाई दी। यह 3 किलोमीटर की एक ऐसी दौड़ थी जो मैराथन का अर्थ ही बदल देगी, रोटरी क्लब कोलकाता महानगर (रो ई मंडल 3291) की अध्यक्ष प्रमिला दुगड़ कहती है जिनके क्लब ने हाल ही में *बडी मैराथन* का आयोजन यूनमिश लर्निंग सेंटर और कोलकाता पुलिस के साथ मिलकर किया। इस आयोजन में 1,200 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिनमें 400 विशेष बच्चों के साथ-साथ समान संख्या में स्वयंसेवक भी शामिल थे जिन्होंने उनके साथ दौड़ पूरी की।

इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले पीआरआईपी शेखर मेहता ने इसे क्लब की सबसे सार्थक परियोजनाओं में से एक बताया। उन्होंने कहा, ''हम अक्सर सफलता को अंकों और पदकों में मापते हैं। लेकिन आज सफलता हंसी, साझी उपलब्धियों और समावेशन में झलक रही थी।'' कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा द्वारा झंडी दिखाकर रवाना की गई यह मैराथन पुलिस एथलेटिक क्लब से शुरू होकर विजय द्वार तक गई और फिर वापस लौटी।

प्रमिला के अनुसार, ''इस पहल का उद्देश्य सबसे तेज़ दौड़ने वाले को विजेता घोषित करना नहीं, बल्कि साथी भावना और समावेशिता का उत्सव मनाना था। यह केवल दौड़ने की बात नहीं है, बल्कि किसी के लिए उपस्थित रहने की बात है। यह सभी बच्चों को यह याद दिलाने की कोशिश है कि वे समाज में, ट्रैक पर और हर मानवीय क्षमताओं के उत्सव में बराबरी से शामिल हैं।'' प्रतिभागियों को 1.5 किमी या 3 किमी की दूरी चुनने का विकल्प दिया गया, जिससे यह कार्यक्रम विभिन्न क्षमताओं और ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए भी सुलभ बना।

बाएं से: मैराथन के उद्घाटन के अवसर पर राशि मेहता, क्लब अध्यक्ष प्रमिला दुगर और पीआरआईपी शेखर मेहता।

मैराथन में एक विशेष बच्चा।

नीले (प्रतिभागी) और पीले (स्वयंसेवक) रंग की टी-शर्ट की भीड़ में एमएचएसआई नामक एक स्थानीय स्कूल के छात्र भी शामिल थे, जिन्होंने बडी बनने के लिए दर्जनों स्वयंसेवक भेजे। 12 वर्षीय छात्रा अनन्या, जो एक बोलने में अक्षम बालक आरव के साथ मैराथन में थी, ने कहा, ''मैं यहाँ मदद करने आई थी, लेकिन असल में मेरे बडी ने मुझे हर छोटे क़दम की खुशी मनाना सिखाया। उसने ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन जब हम फिनिश लाइन के पास पहुँचे, उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उस पल ने सब कुछ कह दिया,'' वह मुस्कुराते हुए बताती है।

''इनमें से कई बच्चों के लिए यह उनकी पहली मैराथन थी और उन्होंने पूरे उत्साह और हँसी-खुशी के साथ भाग लिया,'' प्रमिला बताती हैं। हर बच्चे को एक ऐसे बडी के साथ जोड़ा गया था जिसे विशेष बच्चों के साथ संवाद, सहानुभूति और सुरक्षा को लेकर प्रशिक्षित किया गया था। ''ये साथी केवल नैतिक सहारा नहीं थे, बल्कि उन्होंने जलपान सुनिश्चित किया, शारीरिक बाधाओं से निपटने में उनकी मदद की और लगातार उत्साहवर्धन करते रहे।''

''आज जब प्रतियोगिताएँ अक्सर गति और व्यक्तिगत उपलब्धियों पर केंद्रित होती हैं, *बडी मैराथन* एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है - एक ऐसा दृष्टिकोण जहाँ सफलता पूरी तरह मानवीय है। हम केवल मैराथनों के स्वरूप को नहीं बदल रहे हैं, बल्कि यह भी बदल रहे हैं कि वे लोगों को कैसा महसूस कराते हैं,'' प्रमिला कहती हैं। ■

व्हीलचेयर पर बैठे प्रतिभागी और दौड़ में उनके साथी।

Rotary PEOPLE OF ACTION

इथियोपियाई बच्चों को रोटरी की बदौलत मिला नया जीवन

रशीदा भगत

पीडीजी राजेंद्र राय (बाएं से तीसरे) और रोटरी क्लब बैंगलोर मिडटाउन के पूर्व अध्यक्ष अतुल कौशल (दाएं से दूसरे) इथियोपियाई बच्चों और उनके देखभाल करने वालों के साथ बेंगलुरु हवाई अड्डे पर।

बेंगलुरु में नन्हें दिलों के इलाज के लिए आयोजित एक विशाल रोटरी परियोजना के नवीनतम लाभार्थी इथियोपिया के कुछ बच्चे हैं। इन बच्चों की मदद बेंगलुरु स्थित रोटरी नीडी हार्ट फाउंडेशन (आरएनएचएफ) ने की है, जो कि नीडी हार्ट फाउंडेशन (एनएचएफ) की ही एक शाखा है और इसकी स्थापना 2021 में रोटरी क्लब बैंगलोर इंदिरानगर के पूर्व अध्यक्ष ओ पी खन्ना द्वारा की गई थी, जिनका सपना था कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों एवं वयस्कों को जीवन का एक नया अवसर दिया जाए। आरएनएचएफ और एनएचएफ ने मिलकर 2001 से अब तक 12,000 से अधिक बच्चों एवं वयस्कों के दिलों का उपचार किया है।

खन्ना ने 2001 में नीडी हार्ट फाउंडेशन (एनएचएफ) की शुरुआत की थी, और उस समय यह कोई रोटरी परियोजना नहीं थी। गैर-रोटेरियन और मणिपाल अस्पताल के कुछ डॉक्टर ऑपरेशन में मदद के लिए धन दे रहे थे। 2007-08 में, जब राजेंद्र राय अविभाजित रो ई मंडल 3190 के मंडल गवर्नर थे, तब उनके नेतृत्व में पहली बार मंडल ने हृदय सर्जरी के लिए मिलान अनुदान के लिए आवेदन किया। उन पैसों की मदद से दिल की बीमारी से पीड़ित 48 बच्चों की सर्जरी रोटरी के माध्यम से की गई। पाकिस्तान के ''पूर्व न्यासी अज़ीज़ मेमन मेरे बैचमेट थे, और उन्होंने पाकिस्तान से 12 ज़रूरतमंद बच्चों को हृदय सर्जरी के लिए भेजा था। 2021 में हम में से कुछ ने महसूस किया कि हमें एक अलग फाउंडेशन शुरू करना चाहिए, जो रोटरी के माध्यम से वंचितों के लिए दिल की सर्जरी का ध्यान रख सके, और इसी वजह से आरएनएचएफ की स्थापना की गई,'' आरएनएचएफ के प्रबंधक न्यासी राय कहते हैं।

जब शेखर मेहता 2021-22 में रो ई अध्यक्ष थे, तब ''उन्होंने हमसे आरएनएचएफ में अनुरोध किया कि हम इथियोपिया के कुछ बच्चों की निशुल्क हार्ट सर्जरी आयोजित करें, क्योंकि इस अफ्रीकी देश में हर साल 400 से अधिक बच्चे अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं और उनके अस्पतालों में ओपन हार्ट सर्जरी की सीमित क्षमता के कारण समय से पहले मृत्यु का शिकार हो जाते हैं,'' वह कहते हैं।

संस्थान से जुड़े रोटेरियनों ने इसे एक चुनौतीपूर्ण कार्य पाया, क्योंकि भारतीय अस्पतालों में विदेशी बच्चों की हार्ट सर्जरी के लिए कोई सरकारी सहायता उपलब्ध नहीं है। वह मुस्कराते हुए कहते हैं, ''यह एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि इसके लिए जो धनराशि चाहिए थी, वह स्थानीय बच्चों की तुलना में कहीं अधिक थी, क्योंकि गरीब भारतीयों के इलाज के लिए सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं। लेकिन जैसा कि रोटरी द्वारा वर्षों से किए गए सभी मानवीय कार्यों में होता आया है, अगर इरादे नेक हों, तो रोटरी का जादू संसाधन जुटाने के लिए अपना काम करता है।''

इस विशाल परियोजना का सारांश देते हुए वह बताते हैं कि अविभाजित रो ई मंडल 3190 में, 2001 से अब तक एनएचएफ और 2021 में स्थापित आरएनएचएफ ने कई रोटरी क्लबों के साथ मिलकर **12,000** से अधिक वंचित बच्चों एवं वयस्कों की नि:शुल्क हार्ट सर्जरी में सहायता की है। ये वयस्क अपने परिवारों की आजीविका कमाने वाले थे और विभिन्न प्रकार की हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित थे। बच्चों को मुख्यतः जन्मजात हृदय विकृतियाँ थीं, जिन्हें केवल ओपन हार्ट सर्जरी द्वारा ही ठीक किया जा सकता था।

ये सर्जरियाँ मुख्य रूप से बेंगलुरु के तीन नामित अस्पतालों में की गई थी - जयदेव अस्पताल, जो एक सरकारी अस्पताल है, मणिपाल अस्पताल और नारायण हृदयालय हैं। उन्होंने कहा कि रोटरी वर्ष 2023-24 में, आरएनएचएफ ने वंचित परिवारों के लगभग 1,044 बच्चों एवं वयस्कों को मुफ्त हृदय सर्जरी प्राप्त करने में मदद की है।

इस संख्या के अतिरिक्त, एनएचएफ और आरएनएचएफ ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इथियोपिया, नेपाल, आदि देशों के जन्मजात हृदय रोगों से पीड़ित लगभग 300 प्रवासी बच्चों की भी सहायता की है।

इथियोपिया से आए हालिया समूह के बच्चों की बात पर लौटते हुए, जिनके बीमार दिलों की

सर्जरी बेंगलुरु के रोटेरियनों ने करवाई, उन्होंने कहा कि रोटेरियनों के लिए गर्व का क्षण था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाल के *मन की बात* कार्यक्रम में इस बात का उल्लेख किया कि कैसे भारतीय डॉक्टर और अस्पताल जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित इथियोपियाई बच्चों की ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ''इथियोपिया में बसे भारतीय एनआरआई ऐसे बच्चों का भारतीय अस्पतालों में इलाज कराने में मदद कर रहे हैं ताकि वे आगे का जीवन सुखपूर्वक बिता सकें। और यदि परिवार के पास भारत आने के संसाधन नहीं हैं, तो उसकी भी उनके लिए नि:शुल्क व्यवस्था की जा रही है।''

दुर्भाग्यवश, प्रधानमंत्री ने रोटरी का नाम नहीं लिया, लेकिन जब वह बोल रहे थे, तब लाइव टेलीकास्ट के दौरान दिखाए गए दृश्यात्मक कंटेंट में बेंगलुरु के रोटेरियनों की तस्वीरें दिखाई गईं, जिनमें पीडीजी राय भी शामिल थे, जो इथियोपियाई बच्चों और उनके माता-पिता को एयरपोर्ट पर रिसीव करके उन्हें अस्पताल ले जा रहे थे। राय कहते हैं कि रोटरी इस महत्वपूर्ण जनसंपर्क अवसर से संभवतः इसलिए चूक गया क्योंकि इथियोपिया में भारतीय दूतावास, जिसने प्रधानमंत्री कार्यालय को इस हृदय सर्जरी परियोजना के बारे में जानकारी दी थी, ने शायद एनआरआई राजीव शर्मा पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, जो इथियोपिया में हमारे दूतावास के साथ समन्वय कर बच्चों की पहचान, डॉक्टरों और अस्पतालों से संपर्क करके मेडिकल रिकॉर्ड की व्यवस्था और आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करने जैसे कई कार्यों में सहयोग करते हैं।

लेकिन शो में दिखाई गई तस्वीरों ने इस बात पर कोई संदेह नहीं छोड़ा कि प्रधानमंत्री किसका जिक्र कर रहे थे। ''वैसे भी, यह हमारे लिए एक सुखद आश्चर्य था; राजीव तब भारत में थे और उन्होंने हमें इसके बारे में बताया, और हम वह एपिसोड देख पाए,'' राय कहते है।

रोटेरियनों के लिए यह गर्व का क्षण था जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में अपने *मन की बात* कार्यक्रम में बताया कि किस प्रकार भारतीय डॉक्टर और अस्पताल जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित इथियोपियाई बच्चों की ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हैं।

पी पी कौशल (बाएं), समाजसेवी और रोटरी क्लब बैंगलोर मिडटाउन के सदस्य बिमल देसाई (दाएं), इथियोपियाई लाभार्थियों के साथ।

20 इथियोपियाई बच्चों की सर्जरी के लिए धन जुटाने में जो वित्तीय चुनौतियाँ आईं, उस पर लौटते हुए वे बताते हैं कि जिन अस्पतालों में ये सर्जरी की जाती हैं, वे सर्जरी की जटिलता के अनुसार लगभग ₹1.15 लाख से ₹1.5 लाख का खर्च बताते हैं। जब बात भारतीय नागरिकों - चाहे बच्चे हों या वयस्क - की होती है, तो यह आसान हो जाता है; ''उदाहरण के लिए, पिछले वर्ष हमने 1,044 भारतीय मरीजों की दिल की सर्जरी करवाई। प्रत्येक मामले में आवश्यक धनराशि में से ₹90,000 राज्य सरकार देती है और हम औसतन ₹35,000 अस्पताल को देते हैं, जिससे कुल लागत पूरी हो जाती है। लेकिन इथियोपियाई या कोई भी विदेशी इस तरह

की सरकारी सहायता के पात्र नहीं होते, इसलिए हमें स्वयं धन जुटाना पड़ा,'' वह कहते हैं।

इसलिए उन्होंने रोटरी क्लब बैंगलोर मिडटाउन के पूर्व अध्यक्ष एफ आर संघवी और अतुल कौशल (जिनकी तस्वीर में वेस्टकोट पहन हुआ हैं) से अनुरोध किया और उन्होंने कुछ बच्चों की सर्जरी के लिए प्रति सर्जरी ₹1.5 लाख की पूरी राशि प्रायोजित की। लेकिन फिर इस क्लब के एक और सदस्य, बिमल देसाई, को जब चार और इथियोपियाई बच्चों के लिए धन की आवश्यकता के बारे में बताया गया, तो ''वह सभी 20 बच्चों की सर्जरी का खर्च उठाने को तैयार हो गए! हमने पीआरआईडी शेखर मेहता से वादा किया कि इस परियोजना के तहत हम 20 इथियोपियाई बच्चों की दिल की सर्जरी आयोजित करेंगे। मैं अध्यक्ष पलानी का उनके क्लब के निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। हर साल इस परियोजना के अंतर्गत ऊपर उल्लेखित तीन अस्पतालों में 1,000 से अधिक भारतीय बच्चों और वयस्कों की दिल की सर्जरी करवाई जाती है,'' वह कहते है।

अब तक, रोटेरियनों ने बेंगलुरु के जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंस एंड रिसर्च

पीडीजी राय रोटरी क्लब बैंगलोर मिडटाउन के अध्यक्ष पलानी लोगनाथन (दाएं से चौथे) और रोटरी बैंगलोर वेस्ट के अध्यक्ष योगेश पचीसिया (दाएं) के साथ।

इथियोपियाई बच्चे अपने माता-पिता के साथ।

में चार चरणों में 18 इथियोपियाई बच्चों की हृदय सर्जरी का प्रबंध किया है। इनमें 10 लड़कियाँ और 8 लड़के शामिल हैं, जिनमें सबसे छोटा बच्चा 5 वर्ष का है और सबसे बड़ा 19 वर्ष का। उस समय जयदेव अस्पताल के निदेशक रहे डॉ मंजुनाथ, जो अब कर्नाटक से सांसद हैं, ने पिछले एक दशक से अधिक की ''हमारी साझेदारी के दौरान इस परियोजना के कार्यान्वयन में हमेशा आरएनएचएफ का पुरजोर समर्थन किया है। ये बच्चे, जिनका आगमन दिसंबर 2022 से छोटे समूहों में शुरू हुआ था, और जिनमें से अंतिम समूह के चार बच्चे दिसंबर 2024 में आए, अपने माता-पिता के साथ अदीस अबाबा से बेंगलुरु तक इथियोपियन एयरलाइंस द्वारा निःशुल्क लाए गए थे।'' इथियोपिया में, रोटरी क्लब अदीस अबाबा बोले (रो ई मंडल 7212) के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने आरएनएचएफ, अदीस अबाबा स्थित भारतीय दूतावास और इथियोपियन एयरलाइंस के साथ मिलकर पिछले दो वर्षों में इथियोपियाई नागरिकों की यात्रा को निर्बाध रूप से संचालित करने में समन्वय किया। ''हम डीजी एलेक्स न्यागा, डीजी अज़ेब असरा, आईपीडीजी लियोनार्ड इताहु और डीजी जो कामाऊ, जो सभी रो ई मंडल 7212 से है, के सहयोग और संरक्षण के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनके बिना यह परियोजना संभव नहीं हो पाती,'' राय ने कहा।

हमने PRIP शेखर मेहता को 20 इथियोपियाई बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा करने का वचन दिया था। अब तक, हमने चार बैचों में 18 इथियोपियाई बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा की है।

लेकिन, जैसा कि अक्सर अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं में होता है, अंतिम क्षणों में कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। जब इथियोपिया से एक बैच पहुँचा, तो हमें काफी ड्रामा और तनावपूर्ण क्षणों का सामना करना पड़ा। रोटेरियनों ने उन्हें हवाई अड्डे से लिया और अस्पताल छोड़ा, लेकिन तभी पता चला कि इथियोपिया के नियमों में बदलाव हो चुका है। आमतौर पर, जब मरीज़ भारत आते हैं, तो जयदेव अस्पताल प्रशासन उन्हें मंज़ूरी दे देता है। लेकिन नए नियमों के तहत अब यह ज़िम्मेदारी इथियोपियाई नागरिकों पर डाल दी गई थी! बहुत भागदौड़ और रात भर जागकर काम करने के बाद, लगभग 4-5 दिनों में मंज़ूरी मिली और फिर सफलतापूर्वक सर्जरियाँ की गई।

अब, राय बताते हैं कि पीआरआईडी मेहता ने घाना से हृदय रोग से पीड़ित दो और बच्चों को रेफर किया है, और रोटेरियन देसाई, जो एक व्यवसायी हैं, चार और बच्चों की सर्जरी का समर्थन करने के लिए तैयार हैं।

वह आगे कहते हैं कि रो ई मंडल 3191 और 3192 के रोटरी क्लब भी आरएनएचएफ की सहायता से वैश्विक अनुदान एवं सीएसआर अनुदान के माध्यम से सीएचडी से पीड़ित बच्चों की दिल की सर्जरी करवा रहे है। इस प्रयास में हमारे प्रमुख भागीदारों में से एक है गिफ्ट ऑफ लाइफ, यूएस, और इसके अध्यक्ष पीडीजी रवि भूपलापुर जो एक एकेएस सदस्य भी हैं। भूपलापुर और उनका गृह क्लब रोटरी क्लब गोल्ड कोस्ट लेक सक्सेस, रो ई मंडल 7255, के योगदानों की वजह से, रोटरी बैंगलोर वेस्ट और रोटरी बैंगलोर इंदिरानगर ने गिफ्ट ऑफ लाइफ के सहयोग से बाल हृदय सर्जरियों के लिए कई वैश्विक अनुदान परियोजनाओं को निष्पादित किया है। ■

Rotary PEOPLE OF ACTION

नासिक में नदियों का पुनरुद्धार

जयश्री

नंदिनी नदी पर गाद निकालने का कार्य किया जा रहा है।

रोटरी क्लब नासिक, रो ई मंडल 3030 द्वारा महिरावनी गांव के पास नंदिनी नदी पर की गई नदी की गाद हटाने की सेवा परियोजना से लगभग 45 परिवारों को लाभ मिला है। नदी के 1.5 किमी हिस्से में 2 मीटर गहराई तक जमा गाद को हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीनें लगाई गई थीं, जिसमें पानी जमा करने के लिए एक बांध भी है। क्लब के सदस्य विनायक देवधर कहते हैं, ''इस गाद हटाने की गतिविधि के बाद बांध में कम से कम 60 मिलियन लीटर पानी जमा किया जा सकता है।''

पिछले चार सालों से क्लब हर साल कम से कम दो चेक डैम या बाँधों की सफाई करता आ रहा है, हमेशा मानसून आने से ठीक पहले। समय बहुत महत्वपूर्ण है। ''अगर आप बारिश से पहले जलमार्गों को साफ कर देते हैं, तो आप बारिश के पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। नदियाँ और नाले बेहतर तरीके से बहते हैं, और भूजल का पुनर्भरण होता है,'' वे बताते हैं।

इस सेवा गतिविधि से लगभग 25 गांवों को लाभ मिला है। जो कृषि भूमि कभी बंजर पड़ी रहती थी, अब उसमें फसलें उग रही हैं; कुएं लंबे समय तक भरे रहते हैं तथा जिन परिवारों को कभी काम की तलाश में पलायन करना पड़ता था, वे अब अपने ही घरों में स्थायी आजीविका पा रहे हैं।

नासिक के ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों छोटे-छोटे चेक डैम हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से बंड कहा जाता है, जो मानसून के वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए नदियों या नालों पर बनाए गए हैं। ये संरचनाएं जल स्तर को पुनः बहाल करने में मदद करती हैं। हालांकि, समय के साथ नदियों और नालों में गाद, रेत और मलबा जमा हो जाता है, जिससे पानी को जमा करने और ले जाने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। देवधर बताते हैं कि अगर इस तलछट के जमाव पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो बारिश के दौरान बाढ़ आ सकती है या सूखे महीनों में पानी की कमी हो सकती है।

इसका समाधान है गाद निकालना। यह गर्मियों में किया जाना चाहिए, जब पानी का स्तर कम होता है और गाद आसानी से मिल जाती है। इससे बारिश आने पर अधिकतम भंडारण सुनिश्चित होता है।

क्लब के सदस्य और बागवानी वैज्ञानिक हेमराज राजपूत, जो नासिक में कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हैं, अपने काम के तहत मंडल के ग्रामीण इलाकों का दौरा करते हैं। देवधर कहते हैं, ''वे उन जल निकायों की पहचान करते हैं जिन्हें गाद हटाने की आवश्यकता होती है। उनके सुझावों के आधार पर, क्लब हर साल परियोजनाओं को शॉर्टलिस्ट करता है।''

पूरे ऑपरेशन पर हर साल करीब ₹3-4 लाख खर्च होते हैं, जिसे कॉरपोरेट्स से मिलने वाले सी एस आर अनुदान के माध्यम से पूरा किया जाता है। इस साल इस परियोजना को नासिक के पैकेजिंग उद्योग एक्रोन प्लास्ट ने समर्थन दिया। इसका लाभ 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और बांध के दोनों ओर 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिससे सैकड़ों किसान और उनके परिवार प्रभावित हुए हैं।

बाएं से: बेलगांव ढागा के सरपंच दत्तू ढगे, हेमराज राजपूत, राधे येओले, पीडीजी दादा देशमुख और क्लब सचिव मुग्धा लेले, बेलगांव ढागा में जहां पहले गाद निकालने का काम किया गया था।

गाद निकालने के बाद, भूजल स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वे कहते हैं, ''किसान साल भर फसल उगा सकते हैं। उनकी आय में वृद्धि हुई है, और काम की तलाश में गांव छोड़ने की ज़रूरत कम हुई है। यहां तक कि खोदी गई मिट्टी भी बेकार नहीं जाती। खनिजों से भरपूर होने के कारण, स्थानीय किसानों के बीच इसकी बहुत मांग है, जो इसका उपयोग अपने खेतों को उपजाऊ बनाने के लिए करते हैं।''

इस साल की शुरुआत में, राजपूत ने मियावाकी वन लगाने का भी नेतृत्व किया था। शहर के गांधीनगर में जनता विद्यालय के एक भूखंड पर 1,000 से ज़्यादा पौधे लगाए गए। सिर्फ़ छह महीने में ही यह वन आशाजनक विकास दिखा रहा है। ■

झारखंड के ग्रामीण इलाकों में नेत्र देखभाल

किरण ज़ेहरा

प्रेरणा कभी भी और कहीं से भी मिल सकती है। रोटरी क्लब जमशेदपुर (रो ई मंडल 3240) के जगन्नाथ संत्रा को यह प्रेरणा सिंगापुर के नेशनल आर्काइव्स के शांत कमरों में मिली। कोविड लॉकडाउन से ठीक पहले काम के सिलसिले में मैं वहां गया था, ''वहीं मैंने 1947 की एक तस्वीर देखी, जिसमें रोटरी क्लब सिंगापुर द्वारा दान की गई एक मोबाइल डिस्पेंसरी दिखाई गई थी। यह गाड़ी कभी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घायल नागरिकों का इलाज करती थी और टीकाकरण अभियानों में सहायक रही थी। वह तस्वीर मुझे रोटरी की मानवीय सेवा की विरासत की याद दिला गई,'' वह याद करते हैं।

इस प्रेरणा को उन्होंने घर लौटने के बाद कार्रवाई में बदल दिया। उनकी पत्नी मधुमिता संत्रा, जो उस समय क्लब की निर्वाचित अध्यक्ष थीं, वर्ष 2021-22 के लिए एक वैश्विक अनुदान परियोजना की योजना बनाने की प्रारंभिक अवस्था में थीं। उन्होंने सम्पूर्ण सामुदायिक मूल्यांकन करने तथा महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए एक कोर टीम नियुक्त की, जिसमें झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र देखभाल तक पहुंच पर विशेष जोर दिया गया। संत्रा ने परियोजना प्रबंधन के अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए टीम में मुख्य संपर्क व्यक्ति की भूमिका निभाई, और क्लब की सदस्य डॉ. विजया भरत और एन राममूर्ति के साथ काम किया।

उनके सामूहिक प्रयासों से रोटरी सैटेलाइट आई स्क्रीनिंग क्लिनिक की स्थापना हुई, जिसे 40,681 डॉलर (₹32.65 लाख) का फंड मिला। एक सामान्य वाहन को एक पूर्ण रूप से सुसज्जित मोबाइल नेत्र जांच वैन में बदल दिया गया, ''यह डिज़ाइन और इंजीनियरिंग की एक बेमिसाल उपलब्धि थी, जिसे फोर्स मोटर्स की जमशेदपुर इकाई ने पूरा किया, संत्रा याद करते हैं।''

सफल परीक्षण और स्टाफ प्रशिक्षण के बाद, यह वैन सड़कों पर निकल पड़ी। जमशेदपुर आई हॉस्पिटल और टाटा स्टील फाउंडेशन के सहयोग से इसने जरूरतमंद गांवों में नेत्र सेवाएं देना शुरू किया और जमशेदपुर के आस-पास

नेत्र जांच शिविर में उपस्थित ग्रामीण।

के 55 गांवों में, मौसम अनुकूल रहने पर हम हर हफ्ते पाँच नेत्र शिविर लगाते हैं, संत्रा बताते हैं। ''हमारा मुख्य ध्यान बुजुर्ग ग्रामीणों और महिलाओं पर है, क्योंकि उन्हें समय पर और सस्ती नेत्र देखभाल नहीं मिल पाती। इसके अलावा, हम हर महीने शहर में घरेलू सहायकों और हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए भी शिविर लगाते हैं।''

फरवरी 2023 से फरवरी 2025 तक इस वैन ने 27,468 किलोमीटर की यात्रा की, 394 नेत्र शिविर आयोजित किए, और 10,970 लोगों की जांच की। परिणाम प्रभावशाली रहे: 2,970 मोतियाबिंद के मामले मिले, जमशेदपुर आई अस्पताल में 846 सर्जरी की गई, 4,137 अपवर्तक दोषों का पता चला और रोटरी-ब्रांडेड केस में 1,270 चश्मे वितरित किए गए।

परियोजना की सफलता के पीछे की रणनीति पर प्रकाश डालते हुए डॉ विजया कहती है: ''सबसे पहले ज़रूरत का गंभीर मूल्यांकन करें। यह समझें कि आप किनकी सेवा कर रहे हैं और कहाँ कमियाँ हैं। फिर स्थानीय संस्थानों के साथ साझेदारी करें, जैसे हमने जमशेदपुर आई हॉस्पिटल और टाटा स्टील फाउंडेशन के साथ की, जिन्होंने चिकित्सकीय विशेषज्ञता, आउटरीच और लॉजिस्टिक्स को संभाला।''

आंकड़ों से परे, मानवीय कहानियाँ इस परियोजना को जीवंत बनाती हैं। संत्रा कैलाश नामक 64 वर्षीय निर्माण श्रमिक की एक घटना साझा करते हैं जिनकी दृष्टि महीनों से खराब हो रही थी। ''वह औज़ार ठीक से नहीं पकड़ पाते थे, मचान पर चढ़ते समय लड़खड़ाते थे, और रोज़ अपनी सुरक्षा को लेकर डरते थे। जब उन्हें हमारे मोबाइल क्लिनिक से चश्मा मिला, तो उनकी ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने आत्मविश्वास और रोज़गार दोनों फिर से पाया।''

एक और उदाहरण है सुरेन्द्र, जमशेदपुर जूलॉजिकल पार्क में काम करने वाले बुजुर्ग पशुपालक, जिन्हें चश्मे की पहली जोड़ी चिड़ियाघर में काम करने वालों के लिए आयोजित एक विशेष शिविर में मिली। उन्होंने कहा, ''अब मुझे फिर से सुरक्षित महसूस होता है, क्योंकि बेहतर दृष्टि से वे पशुओं की देखभाल और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा पा रहे थे।''

हमारा ध्यान बुजुर्ग ग्रामीणों और महिलाओं पर है, जिनके पास समय पर और किफायती नेत्र चिकित्सा तक पहुंच नहीं है। हम शहर में घरेलू कामगारों और हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए मासिक शिविर भी चलाते हैं।

एक मजबूत दृश्य पहचान ने परियोजना की उपस्थिति को मजबूत करने में मदद की और यह सुनिश्चित किया कि रोटरी के योगदान को देखा और याद रखा जाए। ''हम चाहते थे कि हर लाभार्थी को यह पता हो कि रोटरी ने उन्हें यह सेवा उपलब्ध कराई। वैन पर रोटरी का बड़ा लोगो है, और चश्मे के केस से लेकर स्टाफ की यूनिफॉर्म तक रोटरी की ब्रांडिंग है। यह दृश्यता जागरूकता और विश्वास दोनों बनाती है,'' संत्रा बताते हैं।

दिसंबर 2024 में, क्लब ने अपने वैश्विक अनुदान साझेदार क्लब रोटरी कलब गिल्डफोर्ड, रो ई मंडल 1145, के सदस्य जॉन रेंजर माइल्स और फियोना पॉलीन माइल्स का स्वागत किया। उन्होंने जूलॉजिकल पार्क में नेत्र शिविर में भाग लिया और चश्मे वितरित किए व जमशेदपुर आई अस्पताल एवं टाटा स्टील फाउंडेशन के कर्मचारियों को प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए।

शुरुआत में यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में डायबिटिक रेटिनोपैथी की पहचान पर केंद्रित थी,

लेकिन इसके निष्कर्षों ने टीम को चौंका दिया। ''हमें उम्मीद थी कि डायबिटीज से जुड़ी नेत्र समस्याएं बड़ी संख्या में मिलेंगी। लेकिन इसके विपरीत, इन दूरदराज़ के इलाकों में डायबिटीज के मामले ही बहुत कम थे,'' डॉ विजया बताती हैं।

इस अप्रत्याशित खोज ने टीम को जांच डेटा का फिर से विश्लेषण करने के लिए प्रेरित किया, जिससे एक नई चुनौती सामने आई: अपवर्तक दोष सबसे आम समस्या निकली, जिसके कुल 4,137 मामलों की पहचान हुई।

विजया बताती हैं, ''अब, मोतियाबिंद या डायबिटीज की जटिलताओं की तरह धुंधली दृष्टि जानलेवा तो नहीं होती। इसलिए कई लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन तो ले लिया, लेकिन चश्मा नहीं बनवाया, या तो लागत के कारण या फिर उपलब्धता की कमी के कारण। इस महत्वपूर्ण कमी को पूरा करने के लिए क्लब ने एन्लाइटन्ड विज़न के साथ साझेदारी की, जो उच्च गुणवत्ता वाले चश्मे रियायती दर पर उपलब्ध कराते है। अब लाभार्थी केवल निदान ही नहीं, बल्कि आगामी शिविरों में अपने अनुकूलित चश्मे भी प्राप्त कर सकते हैं - सब कुछ एक ही जगह,'' वह कहती हैं।

रोटरी क्लब गिल्डफोर्ड के जॉन रेंजर माइल्स और फियोना पॉलीन माइल्स के साथ डॉ. विजया भारत (बाएं से दूसरे) और मधुमिता संतरा (बाएं)।

रोटरी चश्मा पहने एक लाभार्थी।

डॉ विजया बताती हैं कि ''यह परियोजना फील्ड डेटा और अनुभवों के आधार पर लगातार विकसित हो रही है। हर शिविर से हम कुछ नया सीखते हैं। हमने स्कूल शिक्षकों को प्राथमिक नेत्र जांच में प्रशिक्षित किया है ताकि वैन के जाने के बाद भी जागरूकता बनी रहे और प्रारंभिक पहचान की जा सके।''

जो एक क्लब की पहल के रूप में शुरू हुआ था, वह अब एक आदर्श परियोजना बन गई है। संत्रा बताते हैं कि रो ई मंडल 3250 के पाँच क्लब ऐसी ही परियोजना शुरू कर चुके हैं या मंज़ूरी प्राप्त कर चुके हैं। ''हम उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। वह अंत में कहते हैं कि इस परियोजना का सबसे बड़ा इनाम है, व्यक्तिगत स्तर पर होने वाले परिवर्तन देखना जब एक दैनिक मज़दूर फिर से काम पर लौटता है, एक बच्चा फिर से ब्लैकबोर्ड पढ़ पाता है, या एक बुजुर्ग महिला अपने पोते-पोतियों का चेहरा साफ-साफ देख पाती है।''■

Apply for the 2026 Programs of Scale award

If you have an initiative that has demonstrated its success and is ready to expand to help more people in more places, consider applying for The Rotary Foundation's 2026 Programs of Scale award.

One program may receive US$2 million over three to five years to further its impact.

Concept notes from qualified Rotary and Rotaract clubs and districts will be accepted until 1 August 2025.

Learn more at
rotary.org/programsofscale

Rotary

Rotary PEOPLE OF ACTION

जम्मू में एक रोटरी चिकित्सा मिशन

राजीव प्रधान

कश्मीर के जम्मू जिले के भद्रवाह शहर की एक बुजुर्ग हिंदू महिला, मिथिला देवी गुप्ता को पित्ताशय की सर्जरी करानी थी। वह लगभग तीन वर्षों से पित्त पथरी के कारण अत्यंत पीड़ा में थी। दिन बीतते गए मगर उन्हें ऑपरेशन थिएटर में नहीं ले जाया गया। जनरल सर्जन पीडीजी गिरीश गुने ने उस महिला के बारे में पूछताछ की। किसी ने जवाब दिया, ''उन्हें घर जाने के लिए कह दिया गया था।''

एक बुजुर्ग मुस्लिम ओटी सहायक इकबाल मोहम्मद ने कहा, ''वह और उनकी बेटी अब घर नहीं जा सकते। वे बहुत दूर पहाड़ी पर रहते हैं। वह अभी इस कस्बे में ही होंगी। मैं उन्हें ढूंढ निकालूँगा।'' उन्होंने उस छोटे से शहर में इधर-उधर घूमकर आखिरकार उस महिला को ढूंढ निकाला और उन्हें वापस लाकर अगले दिन डॉ गिरीश द्वारा उनका ऑपरेशन किया गया। बेटी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, ''अगर हम घर चले गए होते तो हम कभी वापस नहीं आ पाते। मेरी मां इस दर्द और बीमारी से मर जाती। शुक्रिया, आप वाकई में फरिश्ता हैं।''

यह जम्मू क्षेत्र के किश्तवाड़, भद्रवाह और डोडा शहरों में हाल ही में आयोजित विशाल सर्जिकल परियोजना की असंख्य सफलतम कहानियों में से एक है। रो ई मंडल 3132 और 3131 संयुक्त रूप से 1922 से जम्मू-कश्मीर में सर्जिकल शिविरों का आयोजन कर रहे हैं। मेजबान मंडल 3070 हमेशा से सहयोगी रहा है। ये परियोजनाएं राज्य सरकार के पूर्ण सहयोग से की जाती हैं और इन्हें रोटरी एवं केंद्र सरकार की संयुक्त परियोजनाएं कहा जाता है। पहली परियोजना उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, सोपोर और गांदरबल जिलों में आयोजित की गई थी।

इसे कोविड के बाद शुरू किया गया था इसलिए बहुत सारे मरीज विभिन्न प्रकार की सर्जरी की प्रतीक्षा कर रहे थे। सोपोर में इस परियोजना के औपचारिक उद्घाटन के दौरान केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रोटरी से दक्षिण कश्मीर में भी इसी तरह की परियोजना करने की अपील की। इस प्रकार एक साल बाद हम फिर से कश्मीर के अनंतनाग,

पुलवामा, शोपियां और कुलगाम में लौटे। यह सर्जिकल शिविर सफल रहा इसलिए हमें एक बार फिर जम्मू के पुंछ और राजौरी जिलों में जाने की सलाह दी गई। यह परियोजना फरवरी 2024 में पूर्ण की गई थी। पाकिस्तान की सीमा से लगे इन संवेदनशील जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी फिर भी हमारे सर्जनों ने इस परियोजना को सफल बनाने हेतु कड़ी मेहनत की।

2022 से अब तक की गई चारों परियोजनाओं में रोटरी और केंद्र शासित प्रदेश सरकार के डॉक्टरों ने मिलकर विभिन्न विशेषताओं में लगभग **10,000** सर्जरियाँ की।

जम्मू–कश्मीर सरकार हमेशा सक्रिय रहती है। वे ओ टी को बेहतर बनाते हैं, कुछ उपकरण, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप और लैप्रोस्कोपी मशीनों को परियोजना स्थलों पर स्थानांतरित करके अतिरिक्त ओ टी बनाते हैं।

वर्तमान परियोजना की योजना तीन महीने पहले शुरू हुई थी। पीडीजी डॉ गिरीश गुने, दुष्यंत चौधरी और रोटेरियन अदीप मेहता के साथ मैंने वरिष्ठ सरकारी स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ अनेक आभासी बैठकें की जिनमें स्वास्थ्य सेवा के निदेशक डॉ जरगर हामिद भी शामिल थे। सुविधाओं की जांच करने के लिए चौधरी और अदीप व्यक्तिगत रूप से डोडा और किश्तवाड़ गए, जिला कलेक्टरों, चिकित्सा अधीक्षकों और विकास अधिकारियों से मिले और ज़मीनी स्थिति का आंकलन किया।

सरकार हमेशा से सक्रिय रही है। हमारे अनुरोध पर उन्होंने ऑपरेशन थिएटर को दुरुस्त किया, कुछ उपकरणों, ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप और लैप्रोस्कोपी मशीनों को परियोजना स्थलों पर स्थानांतरित करके अतिरिक्त ओटी तैयार किए। उन्होंने परियोजना स्थलों पर अन्य अस्पतालों से भी अतिरिक्त डॉक्टरों, ओटी स्टाफ और नर्सों को भी तैनात किया।

हमारी ओर से गिरीश और मैंने न केवल हमारे दो मंडलों से बल्कि मेजबान मंडल से भी डॉक्टरों और स्वयंसेवकों (स्व-वित्तपोषित) की टीम बनाना शुरू किया। कोयंबटूर के एक ऑर्थोपेडिक सर्जन पीडीजी डॉ एस सुंदरराजन पिछली परियोजना से ही टीम का हिस्सा रहे हैं। भारत और अफ्रीका में हमारी परियोजनाओं

बाएं से: परियोजना अध्यक्ष पीडीजी डॉ राजीव प्रधान, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, रो ई मंडल 3070 पीडीजी डॉ दुष्यंत चौधरी और उपराज्यपाल के प्रधान सचिव मंदीप भंडारी।

के एक अनुभवी ईएनटी सर्जन डॉ दीपक लिउवा भी हमारे साथ शामिल हुए। रो ई मंडल 3070 के पीडीजी डॉ. उपिंदर सिंह हमेशा सक्रिय रहे हैं। रो ई मंडल 3132 के पीडीजी रवींद्र सालुंखे और किशोर पावड़े ने स्वयंसेवक के रूप में योगदान दिया। पीआरआईडी डॉ महेश कोटबागी भी टीम में शामिल हुए।

इस प्रकार रो ई मंडल 3131 और 3070 के डीआरआर सहित सामान्य सर्जनों, स्त्री रोग विशेषज्ञों, नेत्र रोग विशेषज्ञों, ईएनटी, प्लास्टिक सर्जनों, मूत्र रोग विशेषज्ञों, आर्थोपेडिक सर्जनों, एनेस्थिसियोलॉजिस्ट और स्वयंसेवकों की एक सशक्त टीम तैयार हुई जिसमें 41 रोटेरियन शामिल थे जो मानवता की सेवा के लिए अपना समय और कौशल देने के लिए तैयार थे।

भद्रवाह, डोडा और किश्तवाड़ क्षेत्रों के बारे में जानकारी खोजने के दौरान मुझे यह एहसास हुआ कि ये सभी स्थान पहाड़ी इलाकों में 5,400 से 5,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। भद्रवाह को छोटा कश्मीर भी कहा जाता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि घने जंगलों, पहाड़ियाँ, घाटियों, दूर बर्फ से ढके पर्वतों और घाटियों की गहराई में बहती चिनाब नदी ये सब मिलकर इस स्थान को तस्वीर जैसा सुंदर कार्यस्थल बनाते है।

जम्मू से भद्रवाह और किश्तवाड़ तक जाने वाली सड़क खतरनाक घाटियों से गुजरते हुए ऊपर नीचे होकर चलती रहती है और यह अनंत प्रतीत होती है। खैर बारिश शुरू होने तक मौसम मनमोहक था और ओलावृष्टि ने तापमान को घटाकर 3-4 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचा दिया गया था।

काम का बोझ काफी अधिक था। पित्ताशय की पथरी कश्मीर में एक प्रमुख समस्या है इसलिए हमारे सर्जन किश्तवाड़ और भद्रवाह दोनों जगहों पर एक दिन में 8-10 लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे थे। डॉ. जलबाजी मोरे और गिरीश ने एक ही दिन में पित्ताशय की थैली की अनेक सर्जरियाँ की।

इसी तरह बड़ी संख्या में गर्भाशय निकालने की सर्जरी भी की जा रही थी। डॉ. साखरे, डॉ. मनीषा जगताप और डॉ. शिवानी अग्रवाल बहुत व्यस्त रही। अपेक्षित रूप से दोनों स्थानों पर मोतियाबिंद सर्जरी के लिए प्रति दिन 30-40 मरीज लाइन में थे। हमारे एनेस्थेसियोलॉजिस्ट मंजूषा खंडगले और नेहा पांसे को पित्ताशय की थैली की सर्जरी के लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया देने में पूर्ण आत्मविश्वास था क्योंकि सामान्य बेहोशी के उपकरणों की सीमित उपलब्धता थी।

डोडा में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है इसलिए वहाँ केवल प्लास्टिक सर्जरी, ईएनटी, यूरोलॉजिकल और जटिल आर्थोपेडिक सर्जरियाँ

आखिरी दिन, पहलगाम में भयानक घटना घटी और हमें अपने गेस्ट हाउस से बाहर न निकलने को कहा गया।



रो ई मंडल 3131 पीडीजी डॉ गिरीश गुने चिकित्सा शिविर में सर्जरी करते हुए।

की जाती थी। डॉ. अनिल साखरे किश्तवाड़ से डोडा जाकर लेप्रोस्कोपिक यूटरस सर्जरी सिखाने का कार्य कर रहे थे। पीडीजी सुबोध जोशी ने किश्तवाड़ में टीम की देखरेख की जबकि पीडीजी चौधरी ने भद्रवाह से सभी टीमों का समन्वित किया।

पीडीजी गुने जो एक उत्कृष्ट सर्जन है, हमेशा हर मरीज की जरूरतों को पूरा करने के बाद ओटी से सबसे आखिरी में निकलते थे। राहुल फेज, मनोज भ्यागुडे, अंकुर गोयल, राजेश पवार, आनंद खड़के और रंजीत डोडा की नेत्र रोग विशेषज्ञ टीम पूरे समय व्यस्त रही। डॉ. उमा प्रधान ने उनके कार्य का समन्वय किया। उधमपुर नेत्र अस्पताल के चेयरमैन एवं रोटेरियन डीएन शर्मा अपनी टीम को कश्मीर के दूरस्थ इलाकों में पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे।

अस्पताल के कर्मचारी और नर्स मरीजों एवं डॉक्टरों की मदद के लिए मीलों पैदल चलकर आते थे। वे देर रात तक काम करते थे। अस्पताल अधीक्षक डॉ मोहम्मद अशरफ और उनके सहयोगी समन्वय के लिए अपने कमरे में ही रहते थे। मरीज दूर-दूराज़ की पहाड़ी इलाकों से आते थे। अगर रोटरी का चिकित्सा मिशन नहीं होता तो उन्हें शायद कभी चिकित्सीय देखभाल नहीं मिल पाती।

परियोजना का अंतिम दिन आश्चर्यजनक रूप से अलग था। हमें पहलगाम (22 अप्रैल) की भयानक घटना के बारे में बताया गया। हमारे सर्जनों ने अपनी ओटी सूची पूरी की लेकिन उन्हें अपने गेस्ट हाउस से बाहर न निकलने के लिए कहा गया। शाम होते-होते किश्तवाड़ और भद्रवाह गेस्ट हाउस के दरवाजे बंद कर दिए गए। सड़क मार्ग से किश्तवाड़ और पहलगाम की दूरी लगभग 188 किमी है मगर यदि कोई पहाड़ चढ़कर यहाँ आए तो यह अधिक दूर नहीं है। सरकारी अधिकारियों को शक था कि आतंकवादी किश्तवाड़ के जंगलों में छिपे हो सकते है।

रोटरी टीमों को अगले दिन नाश्ते के बाद सरकारी वाहनों से जम्मू पहुंचना था। शाम को किश्तवाड़ टीम को सूचित किया गया कि उन्हें सुबह 5 बजे रवाना होना है और सूर्योदय से पहले डोडा जिले से बाहर निकलना है। भद्रवाह की टीम को सुबह 6.30 बजे रवाना होने के लिए कहा गया। किश्तवाड़ शहर को सुबह 4 बजे ही सील कर दिया गया था लेकिन अधिकारियों ने रोटरी टीम को बाहर जाने की अनुमति दी। मैं जिस वाहन से भद्रवाह से यात्रा कर रहा था उसमें डोडा के पास पेट्रोल भरवाने की जरूरत थी लेकिन चिनाब नदी पार करते समय हमें रोक दिया गया और बताया गया कि डोडा शहर बंद कर दिया गया है। हमारे ड्राइवर को सुरक्षाकर्मियों को समझाना पड़ा कि वह शहर के बाहर किसी भी रिटेल पंप में पेट्रोल भरवाएगा। जम्मू जाने वाली सड़क पर उधमपुर तक यातायात कम था और सभी दुकानें एवं भोजनालय बंद थे। हम सभी समय पर जम्मू पहुंच गए और इस तनावपूर्ण रात के बाद यह एक बड़ी राहत थी।

ये सर्जिकल परियोजनाएं रोटरी सेवा को वंचितों तक ले जाने की दिशा में छोटे लेकिन सार्थक कदम हैं। यह राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत करने के साथ ही लोगों को यह समझाने में मदद करती है कि रोटरी वहाँ जाती है जहाँ अन्य लोग जाने और सेवा करने की हिम्मत नहीं करते। यह इस बात का प्रमाण है कि सेवा के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी समाज में एक सार्थक परिवर्तन लाने हेतु एक अद्वितीय और शक्तिशाली मॉडल है।

हम अक्टूबर 2025 में कठुआ जिले में अपने अगले सर्जिकल कैंप के लिए तैयार हैं!

लेखक रो ई मंडल 3132 के पूर्व मंडल गवर्नर और परियोजना प्रमुख हैं

Rotary PEOPLE OF ACTION

रोटरी के प्यार से बदला स्कूल

किरण ज़ेहरा

छत्तीसगढ़ के रायपुर से 231 किलोमीटर दूर तराईमल गांव के एक शांत कोने में धनवरपारा सरकारी प्राथमिक विद्यालय की एक बार फीकी पड़ चुकी दीवारें अब रंग-बिरंगी दीवारों और बच्चों की मुस्कराहटों से गुलजार हो गया है। यह दिल को छू लेने वाला बदलाव रोटरी क्लब रायगढ़ रॉयल, रो ई मंडल 3261 द्वारा शुरू किए गए हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट का परिणाम है, जिसका उद्देश्य वंचित क्षेत्रों में बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण वातावरण बनाना है।

क्लब के अध्यक्ष आशीष महामिया के अनुसार, परियोजना की शुरुआत तब हुई ''जब मुझे स्कूल की प्रिंसिपल सिलबिया तिग्गा से सहायता के लिए कॉल आया। स्कूल का दौरा करने के बाद, हमें स्पष्ट हो गया कि हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि हर बच्चा ऐसे वातावरण में पढ़े जो न केवल उसे प्रेरित करे, बल्कि जहाँ वह स्वयं को सुरक्षित भी महसूस करे,'' वे कहते हैं। कुछ ही दिनों में, प्रोग्राम चेयर राजीव गुप्ता और क्लब सचिव अंकित अग्रवाल के नेतृत्व में रोटरी टीम ने संसाधन और स्वयंसेवक जुटाए।

स्कूल में पूरी तरह से दृश्य सुधार हुआ, दीवारों को फिर से रंगा गया, 35 नए डेस्क और बेंच आए, बिजली के पंखे, लाइट और खेल के उपकरण जोड़े गए, और पीने का पानी की सुविधा सुलभ कराई गई। महामिया कहते हैं, ''अब बच्चों के पास शौचालय हैं, जो उनकी गरिमा और स्वच्छता सुनिश्चित करते हैं, और एक शेड है, जहाँ वे एक साथ खाना खा सकते हैं। जो बदलाव देखने में छोटे लग सकते हैं, उन्होंने छात्रों की दैनिक दिनचर्या में वास्तविक आराम और गरिमा ला दी है।''

रोटरी क्लब रायगढ़ रॉयल द्वारा उपहार स्वरूप दी गई नई बेंचों पर आराम से बैठे छात्र।

क्लब के अध्यक्ष आशीष महामिया (बाएं से 8वें) और सचिव अंकित अग्रवाल (सबसे दाएं) स्कूल में क्लब के सदस्यों के साथ।

बुनियादी ढांचे के उन्नयन और शिक्षण सामग्री सहित पूरे परिवर्तन को ₹5.52 लाख की लागत से पूरा किया गया। डेस्क और बेंच अरुण पटवारी द्वारा बालकिशन पटवारी चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से दान किए थे। क्लब के तत्काल पूर्व अध्यक्ष ओमप्रकाश मोदी कहते हैं, ''हमारा लक्ष्य था कि हर एक रुपये का उपयोग अधिकतम प्रभाव के लिए किया जाए। हमारे सदस्यों के लिए धन्यवाद, हमने मामूली बजट में एक सार्थक परिवर्तन हासिल किया।''

''शायद सबसे ज़्यादा दिल को छू लेने वाली चीज़ स्कूल के मैदान में लगे दो साधारण झूले थे। जब बच्चे अपनी बारी के इंतज़ार में कतार में खड़े होते थे, तो उनके चेहरों पर बेपनाह खुशी झलकती थी, एक ऐसी खुशी जो सिर्फ़ खेल से ही मिल सकती है,'' वे मुस्कुराते हुए कहते हैं। परियोजना केवल बुनियादी ढांचे तक ही सीमित नहीं रही। हर बच्चे को एक स्कूल बैग, नोटबुक, पेन और पेंसिल बॉक्स भी प्रदान किया गया।

बुनियादी ढांचे के उन्नयन और शिक्षण सामग्री सहित पूरे परिवर्तन को ₹5.52 लाख की लागत से पूरा किया गया।

उद्घाटन समारोह में, एनआर ग्रुप के उद्योगपति संजय अग्रवाल ने क्लब की ''सामुदायिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता के लिए सराहना की। इस तरह की पहल न केवल किसी जगह को सुंदर बनाती है, बल्कि यह सपनों की नींव भी रखती है।'' इस कार्यक्रम में क्लब के सदस्य, स्कूल के कर्मचारी और ग्रामीण मौजूद थे। महामिया कहते हैं, ''जब उस सुबह स्कूल की घंटी बजी, तो यह सिर्फ़ एक और दिन की शुरुआत से कहीं ज़्यादा का संकेत था। हमने छात्रों और शिक्षकों को बेहतर सुविधाओं वाली जगह पर कदम रखते हुए देखा, उनके चेहरों पर मुस्कान थी। हम क्लब के सदस्यों के लिए, यह सिर्फ़ स्कूल का उन्नयन नहीं था। यह बच्चों के भविष्य में एक नया निवेश था।'' ■

क्लब द्वारा लगाए गए उपकरणों पर खेल का आनंद लेते बच्चे।

चेन्नई की स्वर्णिम गौरैया

वी मुत्तुकुमारन

चेन्नई की मेयर प्रिया राजन ने कहा कि एक महिला को बेटी, पत्नी, माँ और परिवार की मुखिया होने के साथ-साथ अपने निजी और पेशेवर जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा, ङ्कङ्कसमाज में महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए; हमारे पास जीवन में बाधाओं और कठिनाइयों के बावजूद सफल होने की जन्मजात क्षमताएँ हैं।ङ्कङ्क चेन्नई में आयोजित एक दिवसीय महिला कार्निवल गोल्डन स्पैरो के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने कहा, जिसका नेतृत्व डीजी महावीर बोथरा के नेतृत्व में रो ई मंडल 3233 द्वारा किया गया था।

प्रिया राजन ने कहा कि ''पुरुषों को यह समझने की आवश्यकता है कि महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों तक पहुँचने और मील के पत्थर स्थापित करने में सक्षम हैं। 'वे दिन अब बीत चुके हैं जब महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था और वे घर से बाहर निकलकर किसी सार्वजनिक सभा या प्रवचन में भाग नहीं ले सकती थीं।' अब समय आ गया है कि बाहर निकलें, नए मानक स्थापित करने और अपने क्षितिज का विस्तार करने के लिए ऊंची उड़ान भरें,'' उन्होंने कहा, और इस आयोजन की कल्पना करने के लिए डीजी बोथरा और उनकी टीम की प्रशंसा की क्योंकि यह उनके लिए अपने विविध कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच खोलेगा।

प्रेरक वक्ता परवीन सुल्ताना, जो एसआईईटी कॉलेज फॉर विमेन में तमिल की प्रोफेसर हैं, ने महिलाओं के ऐतिहासिक संघर्षों को याद किया, जो ''पुरुषों के साथ समान अधिकार और समानता के लिए थे। अब हम पीढ़ीगत संघर्ष की बदौलत पुरुषों के साथ समान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा कर सकते

जयश्री बोथरा ने प्रोफेसर परवीन सुल्ताना को रोटरी वूमेन अचीवर अवार्ड प्रदान किया। (बाएं से) रोटरी क्लब गोल्डन स्पैरो चार्टर सचिव ललिता श्रीराम, इवेंट सह-अध्यक्ष अनीस बेगम, डीजी महावीर बोथरा, चेन्नई मेयर प्रिया राजन, क्लब चार्टर अध्यक्ष सुजाता श्रीनिवासन और इवेंट सलाहकार पीडीजी ए पी कन्ना।

हैं; रोटरी की दुनिया इसका एक उदाहरण है, क्योंकि महिलाएं मंडल गवर्नर बनने की ख्वाहिश रख सकती हैं।'' एक लोकप्रिय यूट्यूबर जो कॉर्पोरेट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी जानी जाती हैं, उन्होंने महिला रोटेरियन को सलाह दी कि ''सोने के पिंजरे में रहने के बजाय, समाज में सफल होने के लिए स्वतंत्रता और स्वायत्तता की तलाश करें।'' परवीन, मेयर प्रिया और आईपीएस अधिकारी (सेवानिवृत्त) वी वनिता को रोटरी महिला अचीवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

बोथरा ने कहा, ङ्गयदि अधिक महिलाएं हमारे सामुदायिक प्रयासों में शामिल हों और भाग लें, तो हम और भी बेहतर कर सकते हैं। रो ई मंडल 3233 में, हमारे सदस्यों में महिलाओं की संख्या 19 प्रतिशत है, और यह पहला कार्निवल अपने मज़ेदार कार्यक्रमों, खेलों और हल्के-फुल्के मनोरंजन के ज़रिए ज़्यादा महिलाओं को हमारे क्लबों की ओर आकर्षित करेगा।ङ्ग

क्लब अध्यक्षों, सदस्यों और उनके जीवनसाथियों के साथ अपनी नाश्ते की बैठकों को याद करते हुए उन्होंने कहा, ''इन 65 विशेष सत्रों में हमने बढ़ती सदस्यता के बारे में चर्चा की।'' विचार-विमर्श सत्रों के बाद, मंडल ने *कलंगराई विलक्कू* (प्रकाशस्तंभ) कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें लगभग 500 पूर्व अध्यक्षों को सम्मानित किया गया और अपने-अपने क्लबों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रेरित किया गया। पीआरआईडी ए एस वेंकटेश मुख्य वक्ता थे। अगला कार्यक्रम *वलारपिराई* (अर्धचंद्राकार चंद्रमा) था, जिसमें 800 नए

बाएं से: पीडीजी आर श्रीनिवासन, डॉ श्रीराम रामदास, रो ई मंडल 3233 के डीजीएनडी गणपति सुरेश, पीडीजी राजा सीनिवासन, डीजीई डी देवेंद्रन, डीजीएन श्रीराम दुव्वुरी और पीडीजी आई एस ए के नज़र।

सदस्यों को एक अभिविन्यास कार्यक्रम में RIDE एम मुरुगानंदम द्वारा विशेषज्ञ व्याख्यान दिया गया।

225 सदस्यों के साथ रोटरी क्लब चेन्नई आइकन को अभिनव श्रृंखला में तीसरे कार्यक्रम के रूप में नियुक्त किया गया था, ''और अब गोल्डन स्पैरो, महिलाओं के लिए समर्पित कार्निवल, इस श्रृंखला का चौथा कार्यक्रम है। पीडीजी आई एस ए के नज़र, आर श्रीनिवासन और मेरी पत्नी जयश्री के संयुक्त प्रयासों के कारण संभव हुआ है,'' उन्होंने बताया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि *प्रोजेक्ट पिंक ऑटो* ने पिछले तीन वर्षों में 100 से अधिक महिलाओं को आजीविका प्रदान की है, और ''प्रत्येक वर्ष निरीक्षण के दौरान, हम महिला ऑटो चालकों को नकद वाउचर और गुलाबी वर्दी प्रदान करते हैं। इस वर्ष, पीडीजी चंद्रमोहन के मार्गदर्शन में 100 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है।'' उन्होंने कहा कि पीडीजी मुत्तु पलानीअप्पन के दिमाग की उपज *ऑरेंज आई विज़न* ने चेन्नई भर में नेत्र क्लीनिकों में 120 महिलाओं को रोजगार दिया गया है।

महिलाओं की अनदेखी की जा रही है

क्लब अध्यक्षों के साथ बातचीत के दौरान, बोथरा ने महसूस किया कि महिला रोटेरियन को ''राज्यपालों के आधिकारिक दौरे (जीओवी) के दौरान आमंत्रित नहीं किया जाता है या उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है।'' कार्निवल का उद्देश्य ''महिलाओं को उचित पहचान और गौरवपूर्ण स्थान देना'' था।

सुजाता श्रीनिवासन कार्यक्रम की अध्यक्ष थीं।पीडीजी नज़र ने रोटरी क्लब गोल्डन स्पैरो के गठन की घोषणा की, जिसमें विभिन्न व्यवसायों से संबंधित 155 सदस्य शामिल होंगे, जिसका नेतृत्व चार्टर अध्यक्ष सुजाता और सचिव ललिता श्रीराम करेंगी, जबकि नज़र क्लब के सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। नज़र ने कहा, ''हम 30 जून, 2026 तक महिलाओं की सदस्यता को 19 से 30 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहते हैं।''

कार्यक्रम सलाहकार पीडीजी ए पी कन्ना, इसके सह-अध्यक्ष अनीस बेगम, डीजीई डी देवेंद्रन, डीजीएन श्रीराम दुव्वुरी, डीजीएनडी गणपति सुरेश और चेन्नई क्षेत्र के पीडीजी भी उपस्थित थे। वेलनेस सेशन, मजेदार खेल और मनोरंजन ने रो ई मंडल 3233 से 950 महिला रोटेरियन, एन्स और एनेट्स; विशेष आमंत्रितों के रूप में 50 रोटरेक्टर्स; और दक्षिण भारत के अन्य रो ई मंडल से आए 100 प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम का आनंद लिया।

चित्र: वी मुत्तुकुमारन

एक झलक

टीम रोटरी न्यूज़

हस्तशिल्प, संस्कृति और एक उद्देश्य

रोटरी क्लब सिलीगुड़ी उम्मीद, रो ई मंडल 3240 ने स्थानीय महिला उद्यमियों को हस्तशिल्प, भोजन और सेवाओं में अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करते हुए एक चार दिवसीय कार्निवल का आयोजन किया। इस आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम, रक्तदान शिविर शामिल थे, जिसमें प्रतिदिन 1,000 से अधिक आगंतुकों ने भाग लिया। सांसद राजू बिष्ट और पीडीजी सुभाशीष चक्रवर्ती ने इस कार्यक्रम में भाग लिए।

कार्निवल में विभिन्न स्टॉल्स।

रोटरी का झील अभियान

रो ई मंडल 3211 के नेतृत्व में *सेव वेम्बनाड* परियोजना, केरल के एलेप्पी में वेम्बनाड झील को साफ और संरक्षित करने के लिए एक पर्यावरणीय पहल है। विश्व जल दिवस (22 मार्च, 2025) पर, 15 रोटरी क्लबों ने मंडल प्रशासन और नगर पालिका के साथ मिलकर प्लास्टिक मुक्त अभियान में भाग लिया। इस अभियान में लगभग 220 स्वयंसेवकों ने भाग लिया, जिन्होंने 100 नावों की सहायता से 3.6 टन झील का कचरा एकत्र किया, जिसे उचित रूप से निपटान के लिए सौंप दिया गया। इस अभियान की शुरुआत मंडल कलेक्टर एलेक्स वर्गीस द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई।

स्वच्छता अभियान में स्वयंसेवक और रोटेरियन।

रोटरी द्वारा संचालित विजन

रोटरी क्लब गाजियाबाद स्मार्ट सिटी, रो ई मंडल 3012 ने फेरोलाइट जॉइंटिंग्स के साथ साझेदारी में, सी एस आर इंडिया अनुदान के माध्यम से दिल्ली विश्वविद्यालय के 240 दृष्टिबाधित छात्रों को ज्योति एआई प्रो स्मार्ट ग्लास वितरित किए, जिसमें फेरोलाइट ने 27,000 डॉलर और क्लब ने 15,500 डॉलर का योगदान दिया।

सीएसआर परियोजनाओं के अध्यक्ष पीडीजी सुभाष जैन (बाएं से दूसरे) रोटेरियन और लाभार्थियों के साथ।

क्लब ने मैराथन का आयोजन किया

रोटरी क्लब मुंबई लेकर्स, रो ई मंडल 3141 ने वार्षिक *पवई रन* के 13वें संस्करण का आयोजन किया। इस वर्ष के कार्यक्रम की शुरुआत डीजी चेतन देसाई, क्लब अध्यक्ष पलवी अग्रवाल, हीरानंदानी समूह के एम.डी. निरंजन हीरानंदानी और स्थानीय विधायक दिलीप लांडे द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई, जिसमें 4 किमी और 10 किमी की दौड़ में 1,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। मुख्य आकर्षणों में 80 वर्षीय प्रतिभागी उषा जोशी, दृष्टिबाधित अमरजीत सिंह द्वारा अपनी 249वीं दौड़ पूरी करना और व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ियों द्वारा अपने कौशल का प्रदर्शन करना शामिल रहा।

पवई रन 2025 में प्रतिभागी।

वे मूल्य जो **रोटरी क्लब को** आकार देते हैं

लोकतंत्र, अभिव्यक्ति, पहचान

यह त्रय हमारे अटूट संकल्प को दर्शाता है:



लोकतंत्र

हर सदस्य के मतदान के अधिकार की गारंटी और प्रशासन में समान भागीदारी सुनिश्चित करना।

अभिव्यक्ति

बोलने और सुने जाने के मौलिक अधिकार को बनाए रखना।

पहचान

हमारी समृद्ध विविधता के माध्यम से एकता का उत्सव मनाना।

रोटेरियन होने के नाते, आइए इन सिद्धांतों को
अपनी क्लब गतिविधियों में अपनाएं ताकि एकता को बढ़ावा दिया जा सके और हमारे क्लब की प्रगति सुनिश्चित हो।

Rotary

रोटेरियन ए के एस डॉ के श्रीनिवासन
रोटरी क्लब ऑफ तिरुचिरापल्ली और इरोड सेंट्रल, ज़ोन – 5.

ADVT.

रोटरी चमत्कार

वी मुत्तुकुमारन

रोटरी फाउंडेशन वह है जो हम सभी को एक साथ रखता है क्योंकि यह रोटरी की आत्मा और भावना है, पीआरआईपी के आर रविंद्रन ने चेन्नई में आयोजित *राज उत्सव* नामक रो ई मंडल 3231 के मंडल सम्मेलन में प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन 'सपने देखने वालों' को 'कर्ता' बनने में सक्षम बनाता है, क्योंकि रोटरी अब साक्षरता, स्वास्थ्य सेवा, अवसर प्रदान करके लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने के कठिन व्यवसाय में है, और ये सब टीआरएफ की मजबूत जड़ों के कारण संभव हो पाया हैं। उन्होंने आगे कहा, ''हमें शांति, अच्छा स्वास्थ्य, सम्मान के साथ जीने के लिए स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं, महिलाओं और बच्चों की देखभाल, शिक्षा और समुदायों को विकसित के लिए सहायता की आवश्यकता है - ये सभी रो ई के छह फोकस क्षेत्रों में शामिल हैं।''

रविंद्रन ने एक दशक पहले हुई एक घटना को याद किया, जो वैश्विक रोटरी परिवार की ताकत को दर्शाती है। मंगोलिया में एक धर्मनिष्ठ ईसाई दंपत्ति के सात महीने के बच्चे को इलेक्ट्रिक केतली दुर्घटना में जानलेवा जलन का सामना करना पड़ा। ''वे अपने बच्चे को राजधानी उलानबटार के मुख्य अस्पताल में ले गए, जो एक दिन की यात्रा थी, जहाँ जलने के घावों को गंभीर पाया गया और उन्हें सलाह दी कि बच्चे को अमेरिका के किसी अस्पताल में ले जाया जाए। लेकिन स्थानीय एयरलाइंस ने दंपत्ति की मरते हुए बच्चे को अमेरिकी अस्पताल में ले जाने की अपील को खारिज कर दिया।''

आखिरी और एकमात्र उपाय के रूप में, उन्होंने अपने बीमार बच्चे को एक हफ़्ते या उससे ज़्यादा समय तक बचाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। ''एक दिन, एक व्यक्ति ने उनके दरवाज़े पर दस्तक दी और उन्हें श्राइनर्स अस्पताल, सिनसिनाटी, जो कि फ्री मेसन समूह का एक हिस्सा है, में जाने के लिए हवाई टिकट दिए, जो कि जलने से होने वाली चोटों सहित बाल चिकित्सा देखभाल में माहिर है।'' यह चमत्कार कैसे हुआ? जब वे प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय हांगकांग, टोक्यो, शिकागो और सिनसिनाटी, ओहियो में फ़ोन कॉल की घंटियाँ बजने लगीं, और मैंने शाम 5 बजे शिकागो के वन रोटरी सेंटर में फ़ोन उठाया, और मुझे उस गंभीर मंगोलियाई बच्चे के बारे में जानकारी दी गई जिसे आपातकालीन चिकित्सा की आवश्यकता थी, क्योंकि मैं उस समय रोटरी अध्यक्ष था, उन्होंने कहा।

आरआई मुख्यालय ने हांगकांग के गवर्नर को कॉल किया, जिन्होंने मंगोलिया में एक रोटेरियन को फोन करके अपने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। मंगोलियाई प्रधानमंत्री ने एयरलाइन को आदेश दिया कि वह बीमार बच्चे को उसके माता-पिता के साथ तुरंत अमेरिका ले जाए, ताकि श्राइनर्स अस्पताल में आपातकालीन उपचार कराया जा सके। रवींद्रन ने कहा, ''जब हमारा दिल खुला हो, हाथ तैयार हों, तो एक मरते हुए बच्चे की जिंदगी बदलने के लिए बस एक फोन कॉल ही काफी है।''

सेवा में सर्वश्रेष्ठ

रोटरी दुनिया का सबसे बेहतरीन सेवा संगठन है, क्योंकि 'रेटिंग झूठ नहीं बोलती, चमत्कार नकली नहीं होते, और जादू कोई मृगतृष्णा नहीं है। हमारी महानता कोई दुर्घटना या संयोग नहीं है, क्योंकि हमने कई लोगों के जीवन को बदला है।'' दुनिया में चमत्कार होते हैं, ''क्योंकि रोटेरियन इसे संभव बनाने के लिए मौजूद हैं। निश्चित रूप से, रोटरी एक समय में एक चमत्कार के साथ दुनिया को बदल रहा है, क्योंकि रोटेरियन चमत्कार करने के व्यवसाय में हैं। इसलिए, आप जो कर रहे हैं, उसे जारी रखें,'' उन्होंने प्रतिनिधियों से आग्रह किया।

रो ई मंडल 3000 के पूर्व गवर्नर आरआईपीआर सुंदरराजन गोपाल ने कहा कि रोटरी में जादू पैदा

***बाएं से:** पीडीजी ए संपत कुमार, आरआईपीआर पीडीजी एस गोपाल, रो ई मंडल 3231 डीजी एम राजनबाबू, पीआरआईपी के आर रवींद्रन, पीडीजी सीआर चंद्र बॉब, डीजीएनडी टी शिवाकुमार, पीडीजी गण जे के एन पलानी, अबिरामी रामनाथन, डिस्कन अध्यक्ष वी दिलीप कुमार और पीडीजी निर्मल राघवन।*

RIDE एम मुरुगानंदम ने अभिनेता वाई जी महेंद्र को रोटरी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया। चित्र में डिस्कॉन सचिव पी विनायगम (बाएं से तीसरे), फिल्म निर्देशक सुरेश क्रिस्ना, कला निर्देशक थोट्टा थरानी, अभिनेत्री लक्ष्मी, डीजीई वी सुरेश और डिस्कॉन अध्यक्ष दिलीप कुमार भी दिखाई दे रहे हैं।

करना रोटेरियनों पर निर्भर करता है, वे प्रभावशाली परियोजनाएं करके, नए सदस्यों को जोड़कर और टीआरएफ में योगदान देकर इसे संभव बनाते हैं। उन्होंने कहा, ''पहलगाम आतंकी हमले के बाद जैसे वर्तमान अनिश्चित समय में, हम अपने मूल्यों और मिशन के प्रति दृढ़ हैं, क्योंकि रोटेरियन अपने समुदायों में गहराई से जुड़े हुए हैं। रोटरी ने दो विश्व युद्धों को सहन किया है और निस्वार्थ सेवा की अपनी 120 साल की यात्रा में हर महामारी और वैश्विक संघर्ष के बाद और भी मजबूत होकर उभरी है।''

1.4 मिलियन की स्थिर सदस्यता पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, ''हालाँकि हर साल 1.5 लाख नए सदस्य रोटरी से जुड़ते हैं, उतनी ही संख्या में सदस्य इसे छोड़ भी देते हैं। इसलिए, नए सदस्यों को सक्रिय भागीदारी के माध्यम से एक समृद्ध क्लब अनुभव प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।''

> **रो ई ने पोलियो के खिलाफ अपनी लड़ाई में अब तक 10 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं और 1979 से वैश्विक अभियान के माध्यम से दुनिया भर में तीन बिलियन बच्चों का टीकाकरण किया है।**
>
> **RIDE एम मुरुगानंदम**

'रोटरी को हाँ कहें' विषय पर व्याख्यान देते हुए, RIDE एम मुरुगानंदम ने कहा कि संघर्ष और झगड़ों से भरी दुनिया में, ''रोटरी एकमात्र सेवा संगठन है जो चार पीढ़ियों से चला आ रहा है। यहाँ हम दुनिया भर में इसके 45,000 क्लबों में हर साल नेतृत्व के सुचारु परिवर्तन को देखते हैं। इंसान होने से लेकर इंसानियत दिखाने तक, जब हम सब कुछ इस दुनिया को अर्पित कर देते हैं, तब हम ईश्वर का हाथ बन जाते हैं।''

उन्होंने कहा कि रो ई ने पोलियो के खिलाफ अपनी लड़ाई में अब तक 10 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं और 1979 से अब तक वैश्विक अभियान के माध्यम से दुनिया के तीन बिलियन बच्चों का टीकाकरण किया है। ''रोटरी के विज़न स्टेटमेंट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, इसका उद्देश्य दुनिया भर में, समुदायों में और अपने भीतर स्थायी बदलाव लाना है। रोटरी एक ऐसा मंच है जिसमें सामाजिक, धार्मिक, जातिगत और राष्ट्रीय बाधाओं से परे पेशेवर लोग एक साझा मिशन के साथ एकत्र होते हैं, जो उन्हें एकजुट करता है।''

उन्होंने कहा कि रोटरी रोटेरियन की दयालुता और उदारता का उपयोग वंचितों के जीवन में खुशियाँ लाने के लिए करती है। उन्होंने चार फिल्मी हस्तियों - नाटककार-सह-अभिनेता वाई. जी. महेंद्र, वरिष्ठ अभिनेत्री लक्ष्मी, कला निर्देशक थोट्टा थरानी और फिल्म निर्देशक सुरेश कृष्ण को रोटरी लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किए।

रो ई मंडल 3231 के मुख्य सलाहकार पीडीजी अबिरामी रामनाथन ने कहा कि उनके 20,000 रोटरी मित्र हैं जो हर समय मेरी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, और मैं उन्हें अपने रिश्तेदारों से भी ज़्यादा करीब मानता हूँ। रोटरी दुनिया का एकमात्र एनजीओ है जो जाति, धर्म, राष्ट्रीयता और अन्य समानताओं से परे मानवता को एकजुट करता है। ''लेकिन क्लबों को निरंतर सार्वजनिक छवि अभियान के माध्यम से लोगों तक अपनी परियोजनाओं और सेवा आउटरीच को लगातार उजागर करने की आवश्यकता है,'' उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी, सदस्यता बढ़ाने के नाम पर, बिना उनकी प्रोफ़ाइल सत्यापित किए सभी को अपने क्लब में शामिल न करें, क्योंकि ऐसे लोग रोटरी को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

डीजी एम. राजनबाबू ने कहा कि सेवा और संगति के माध्यम से, समुदायों के लिए अभिनव परियोजनाओं द्वारा एक बेहतर दुनिया को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ''अगर यह मंडल सम्मेलन प्रत्येक प्रतिनिधि को एक नया प्रोजेक्ट आइडिया लेकर घर लौटने, नई दोस्ती बनाने, अच्छे काम करने के लिए अपने नेटवर्क को व्यापक बनाने या यहां तक कि अपने साथ कुछ खुशी के पल ले जाने में सक्षम बनाता है, तो यह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा।'' सम्मेलन के अध्यक्ष वी दिलीप कुमार थे। मेजबान मंडल 3231, रो ई मंडल 3233, 3234 और अन्य दक्षिणी मंडलों के पीडीजी के एक समूह ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें लगभग 2,000 रोटेरियन, एन और एनेट्स शामिल हुए।

चित्र: वी मुत्तुकुमारन

नेवेली में
एक झुग्गी बस्ती का रूपांतरण

जयश्री

रोटरी क्लब नेयवेली लिग्नाइट सिटी द्वारा नेयवेली के अय्यनार स्ट्रीट पर स्थापित एक सौर स्ट्रीट लैंप।

तमिलनाडु के नेवेली में अय्यनार स्ट्रीट के निवासियों को उस समय खुशी हुई जब उनकी अंधेरी और उदास गली रोटरी क्लब नेवेली लिग्नाइट सिटी, रो ई मंडल 2981 द्वारा लगाए गए सौर स्ट्रीट लैंप की रोशनी से जगमगा उठी। तीन लेनों वाली इस संकरी गली में 34 जीर्ण-शीर्ण मिट्टी की झोपड़ियाँ हैं, जहाँ मुख्य रूप से बुजुर्ग दम्पति रहते हैं, और केवल दो परिवारों के बच्चे स्थानीय सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। अय्यनार स्ट्रीट नेवेली के बाहरी इलाके में स्थित है, जो एक टाउनशिप है, जो अपने लिग्नाइट खनन कार्यों और नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन (एनएलसी) के लिए जानी जाती है। रोटरी क्लब ऑफ नेवेली लिग्नाइट सिटी के अध्यक्ष जे. पॉलराज बताते हैं, लगभग एक दशक पहले, राजमार्ग विभाग द्वारा सड़क को चौड़ा करने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बसे लोगों को यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था। तब से, यह इलाका पूरी तरह से उपेक्षित है, यहाँ बिजली, पीने योग्य पानी, स्वच्छता या उचित सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाएँ तक उपलब्ध नहीं हैं।

रहने की स्थिति बहुत खराब है। ''यहां शौचालय या पीने के पानी की सुविधा नहीं है। निवासी एनएलसी से निकलने वाले गंदे पानी पर निर्भर हैं। रात के समय में यहां इतना अंधेरा रहता है कि हाल ही में दो बुजुर्ग लोगों की सांप के काटने से मौत हो गई,'' उन्होंने कहा। सरकारी अधिकारियों से बार-बार गुहार लगाने के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला।

निवासियों की दुर्दशा से प्रभावित होकर, क्लब ने इलाके को बेहतर बनाने के लिए एक मिशन की शुरुआत की। पहला कदम था पूरे क्षेत्र में सात सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइट्स लगाना, जिनमें से प्रत्येक की लागत ₹15,000 थी। ''इलाके में रोशनी होने से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब बुजुर्ग अपने घरों के बाहर बैठकर आपस में बातचीत कर सकते हैं, जबकि बच्चे रोशनी के नीचे पढ़ाई कर सकते हैं।''

प्रकाश परियोजना के उद्घाटन के दौरान, पीडीजी ए. मणि ने प्रत्येक घर को व्यक्तिगत सौर किट प्रदान करने का सुझाव दिया। क्लब ने इस विचार का स्वागत किया और अब इसे लागू करने की दिशा में काम कर रहा है। पॉलराज ने बताया, ''प्रत्येक किट की कीमत लगभग 32,000 है, जिसमें दो लैंप और एक पंखा शामिल है। हमारा लक्ष्य हर महीने दो घरों को किट प्रदान करना है और हमने सभी परिवारों को टोकन जारी कर दिए हैं।''

इसके बाद क्लब ने आरओ प्लांट से जुड़े 500 लीटर का टैंक लगाकर समुदाय के जल संकट को दूर किया। उन्होंने कहा, ''हम एनएलसी से निकलने वाले अपशिष्ट जल को पीने योग्य बनाने के लिए उसका उपचार कर रहे हैं।'' एक अन्य प्रभावशाली कदम के रूप में, क्लब ने आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बुजुर्ग दंपत्ति के लिए एक छोटा लेकिन स्वच्छ आश्रय बनाया, जो भयावह परिस्थितियों में रह रहे थे। उन्होंने कहा, ''अब उनके पास एक सुरक्षित घर है, जिसमें रहने के लिए एक निर्दिष्ट स्थान और शौचालय है। पहले उनके लिए यह जीवन बहुत कठिन और दुखद रहा होगा। ऑरेंज विजन सेंटर और जोथी आई केयर के सहयोग से, क्लब ने एक नेत्र जांच शिविर भी आयोजित किया।'' ऑरेंज विजन सेंटर, रो ई मंडल 3232 - *प्रोजेक्ट ऑरेंज* - की वैश्विक अनुदान परियोजना का हिस्सा है, जिसे 2020-21 में तमिलनाडु में हाइब्रिड विजन केयर सेंटर स्थापित करने के लिए लॉन्च किया गया था। अब तक, 197 ऐसे केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनमें से एक नेवेली में है। क्लब के सदस्य बालाजी गुरुमूर्ति ने कहा, ''शिविर को अच्छी प्रतिक्रिया मिली। लगभग सभी निवासियों को दृष्टि से संबंधित कोई न कोई समस्या थी, और उन्हें चश्मे प्रदान किए गए। मोतियाबिंद की सर्जरी की गई, और दो निवासियों को कॉर्नियल प्रत्यारोपण भी मिला।''

यह तो बस शुरुआत है। पॉलराज ने कहा, ''हम इस उपेक्षित क्षेत्र में बिजली और सफ़ाई जैसी आवश्यक सुविधाएँ लाने के लिए नगर निगम के साथ मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।'' ■

पीडीजी ए मणि इलाके में पानी की सुविधा का उद्घाटन करते हुए। क्लब के अध्यक्ष जे पॉलराज (बाएं से तीसरे) और क्लब के सदस्य बालाजी गुरुमूर्ति (बाएं) भी चित्र में दिखाई दे रहे हैं।

Rotary PEOPLE OF ACTION

इरोड के सफाई कर्मचारियों के लिए खेल दिवस

टीम रोटरी न्यूज़

मई दिवस की पूर्व संध्या पर, नव-नियुक्त रोटरी क्लब इरोड चक्रस, रो ई मंडल 3203 ने इरोड नगर निगम परिसर में अपनी पहली परियोजना के रूप में सफाई कर्मचारियों के लिए एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया और शहर को स्वच्छ रखने के लिए उनकी ङनिःस्वार्थ सेवाफ को सलाम किया। करीब 500 सफाई कर्मचारियों ने विभिन्न खेलों और मनोरंजक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और उन्हें चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए रोटरी कैप वितरित की गई। डीजी एस सुरेश बाबू ने कहा, ''यह एक घटनापूर्ण शाम थी, जो खुशी और हंसी से भरपूर रही। क्लब ने सभी प्रतिभागियों को उनके नेक काम के लिए सम्मानित किया। इरोड के मेयर एस नागराथिनम, निगम आयुक्त एच एस श्रीकांत,

ऊपरः रो ई मंडल 3203 के डीजी एस सुरेश बाबू, मई दिवस की पूर्व संध्या पर इरोड में सफाई कर्मचारियों के लिए आयोजित खेल प्रतियोगिता और सम्मान समारोह में सफाई कर्मचारियों से बातचीत करते हुए। (दाएं) डीजी बाबू तमिलनाडु में इरोड के सत्यमंगलम जिले के एक गांव में एक इरुला परिवार को पुनर्निर्मित घर सौंपते हुए।

पीडीजी ई के सगादेवन और अन्य रोटेरियन इस खेल प्रतियोगिता में उपस्थित थे।''

आदिवासी कल्याण को जिले की प्राथमिकता वाली परियोजना मानते हुए डीजी बाबू ने रोटरी क्लब सथी द्वारा ₹10 लाख की लागत से निर्मित इरुला समुदाय के 12 पुनर्निर्मित घर लाभार्थी परिवारों को सौंपे। *प्रोजेक्ट रूफ ऑफ होप* को क्लब द्वारा इसके अध्यक्ष अमुधा और रो ई मंडल 3203 के आदिवासी कल्याण के सह-अध्यक्ष कंथावेल के नेतृत्व में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया।

नीलगिरि से आने वाले बाबू, टोडा, कुरुम्बा, इरुला, पनिया और काटू नायकर जैसे आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए उत्सुक थे, जो सदियों से नीलगिरि की बस्तियों में रह रहे हैं। रोटरी क्लब कोटागिरी के आदिवासी कल्याण जिला अध्यक्ष ए. के. देवराज ने परियोजना टीम की खूब प्रशंसा की, जबकि रोटरी क्लब तिरुपुर के अध्यक्ष के. रविंद्रन और उनकी टीम ने दो इरुला घरों के पुनर्निर्माण के लिए स्वेच्छा से काम किया।

पुनर्निर्मित मकानों को इरोड मंडल (तमिलनाडु) के सत्यमंगलम तालुक स्थित कदम्बूर के पास वैथियानाथनपुरम गांव में इरुला परिवारों को सौंप दिया गया। ■

आपके गवर्नर्स से मिलिए

वी मुत्तुकुमारन

संतोष श्रीधर
दंत चिकित्सक
रोटरी क्लब पैय्यानूर
रो ई मंडल 3204

रोटरी ज्ञान प्रदान करना

पिछले साल नवंबर में मंडल फाइनल में 12 टीमों ने भाग लिया था, संतोष श्रीधर ने बताया। केरल के मालाबार क्षेत्र के 84 क्लबों में कुल 2,865 रोटेरियन हैं, और उनका लक्ष्य 500 नए सदस्य को जोड़ना है, जिनमें से 280 पहले ही शामिल हो चुके हैं। श्रीधर अब तक चार नए क्लब स्थापित कर चुके हैं और जून के अंत तक 15 और क्लब स्थापित करने की योजना है।

रोटरी क्लब कासरगोड ने मंडल अस्पताल को एक रक्त संग्रह वैन (जीजी: 35,000 डॉलर) दान की है, जबकि रोटरी क्लब कन्नूर सेंट्रल, *प्रोजेक्ट गिफ्ट ऑफ लाइफ* के तहत जून से कोझिकोड स्थित एम आई एम एस और कन्नूर के दो अस्पतालों में कम से कम 60 बच्चों की बाल हृदय शल्य चिकित्सा कराने की योजना पर कार्य कर रहा है (ग्लोबल ग्रांट: 45,000 डॉलर)। इससे पहले, आर सी कन्नानोर ने पिछले दो वर्षों में 45 बच्चों की सर्जरी करवाई थी। मंडल अनुदान के माध्यम से कोझिकोड के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक आर ओ वाटर फिल्टर यूनिट (₹5 लाख) स्थापित की गई।

प्रोजेक्ट गिफ्ट ऑफ स्माइल के तहत छात्रों और आम जनता के लिए 200 से अधिक डेंटल चेक-अप कैंप और ओरल हेल्थ अवेयरनेस कक्षाएँ आयोजित की हैं, और 60 से अधिक क्लबों ने शहरी क्षेत्रों में मियावाकी वन बनाए हैं। टीआरएफ-दान के लिए उनका लक्ष्य 250,000 है। 1999 में रोटरी से जुड़ने के बाद, श्रीधर सेवा के ज़रिए नेतृत्व की भूमिका में कामयाब रहे।

रोटेरियनों का कल्याण मायने रखता है

कृष्णेंदु गुप्ता कहते हैं, ''मेरा ध्यान रोटेरियनों के कल्याण पर भी है, साथ ही उन्हें हमारी परियोजनाओं में शामिल करना भी है।'' 146 क्लबों और 3,800 से अधिक रोटेरियनों के साथ, उनका लक्ष्य 250 से अधिक नए सदस्यों को जोड़कर, और पांच नए क्लबों की स्थापना कर 5-7.5 प्रतिशत की शुद्ध सदस्यता वृद्धि प्राप्त करना है; चार नए क्लब पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

अनेक जीजी परियोजनाएं (96,350 डॉलर) या तो चल रही हैं या पूरी हो चुकी हैं, जिनमें गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर के विरुद्ध एचपीवी टीकाकरण शिविर *(परियोजना अपराजिता)* ; जादवपुर विश्वविद्यालय में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय तक पहुंच; कृत्रिम अंग वितरण *(फीट फॉर ऑल)*; ग्रामीण घरेलू शौचालय *(परियोजना डिग्निटी)*; स्वच्छ विद्यालय; रोटरी विजन ऑन व्हील्स; रोटरी जयनगर नेत्र चिकित्सालय में नेत्र देखभाल; 1,500 निःशुल्क फेको सर्जरी और उपकरण दान; तथा पूर्व दोषियों के लिए कौशल प्रशिक्षण शामिल हैं।

मंडल अनुदान के तहत 23,000 डॉलर की लागत से वंचितों समुदायों को सिलाई मशीन, साइकिल रिक्शा और वैन प्रदान की गई हैं। *प्रोजेक्ट ईज़ी स्कूल* के तहत सैकड़ों बच्चों और वयस्कों को अंग्रेजी और अंकगणित पढ़ाया जाता है। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए दो नए रोटरी क्लब बनाए गए, और क्लबों ने *एलजीबीटीक्यू* समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवा और पुनर्वास परियोजनाएं शुरू की हैं। जबकि टीआरएफ-दान का आधिकारिक लक्ष्य 550,000 डॉलर है, वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, ''मुझे उम्मीद है कि मेरा मंडल पहली बार 1 मिलियन की सीमा पार करेगा।''

1992 में रोटरी में शामिल होने के बाद, गुप्ता जल्द ही AKS(आर्च क्लंप सोसाइटी) चेयर सर्किल के सदस्य बन जाएंगे। दिवंगत पीआरआईडी टी रमेश पाई (मणिपाल) रोटरी में उनके गुरु थे। प्रेरणा हैं।

कृष्णेंदु गुप्ता
प्रसूति विशेषज्ञ,
रोटरी क्लब कलकत्ता विक्टोरिया
रो ई मंडल 3291

ग्रामीण हुबली में किफायती डायलिसिस

जयश्री

हुबली के आस-पास के गांवों में किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए, हर डायलिसिस सेशन एक चुनौती थी, न केवल उनकी बीमारी के कारण, बल्कि दूरी और लागत के कारण भी। निकटतम डायलिसिस केंद्र मीलों दूर था, अविश्वसनीय परिवहन विकल्प और शुल्क जो कि अधिकांश लोग वहन नहीं कर सकते थे। रोटरी क्लब ऑफ हुबली साउथ, रो ई मंडल 3170 के पूर्व अध्यक्ष बिनॉय मोमाया कहते हैं, आज भी, इस क्षेत्र में केवल 4-5 डायलिसिस केंद्र हैं, और ये सुविधाएं प्रति सत्र ₹2,500 चार्ज करती हैं, जो स्थानीय किसानों, मजदूरों और दैनिक वेतन भोगियों के लिए वहनीय नहीं है। उन्होंने हुबली में एक मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल के भीतर रोटरी हुबली साउथ - भांजी खिमजी लाइफलाइन डायलिसिस सेंटर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य वहां आशा लाना था, जहां कोई उम्मीद नहीं थी।

डायलिसिस सेंटर में अनिल कुमार जैन (बाएं) और मनोज नागनसुरे (दाएं) के साथ पूर्व अध्यक्ष बिनॉय मोमाया (बीच में)।

इस विचार ने 2019 में जड़ें जमा लीं जब क्लब ने टीआरएफ से वैश्विक अनुदान के लिए आवेदन किया। ''दुर्भाग्य से, कोविड महामारी ने फंडिंग को बाधित कर दिया, क्योंकि फाउंडेशन ने अपना ध्यान आपदा राहत पर केंद्रित कर दिया।'' आखिरकार, केंद्र की स्थापना दो साल बाद 2021 में, रोटरी क्लब ऑफ क्यूडास डी इगाकू, ब्राजील के साथ अंतरराष्ट्रीय भागीदार के रूप में की गई। परियोजना की लागत ₹50 लाथी, जिसमें रोटरी क्लब हुबली साउथ ने ₹25 लाख का योगदान दिया।'' मोमाया कहते हैं कि क्लब में 40 सदस्य थे और सभी ने योगदान दिया और सिर्फ दो दिनों में फंड तैयार हो गया।

इन चार वर्षों में, केंद्र ने 10,000 से ज़्यादा डायलिसिस चक्र पूरे किए हैं और नियमित रूप से 300 रोगियों की सेवा की है। वे कहते हैं, ''लेकिन ये संख्याएँ सिर्फ़ उपचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं; ये बचाए गए जीवन, परिवारों को एक साथ रखने और उम्मीद की बहाली का प्रतिनिधित्व करती हैं, और दो कहानियाँ साझा करते हैं, जो इस सुविधा के प्रभाव को दर्शाती हैं।'' एक 20 वर्षीय लड़की का ज़िक्र करते हुए, ''जो कभी चलने में भी कमज़ोर थी, वे कहते हैं, आज, हमारे केंद्र में उपचार प्राप्त करने के बाद, वह आत्मविश्वास से भरी हुई है और अपनी स्नातक की पढ़ाई कर रही है।''

रोटरी डायलिसिस सेंटर हुबली के आसपास के 100 छोटे गांवों में 25 लाख लोगों के लिए एक पसंदीदा सुविधा है। ₹1,000 की रियायती दर पर सत्र प्रदान किए जाते हैं, और पांच रोगियों को मुफ्त उपचार भी मिलता है। क्लब सदस्यों के दान के माध्यम से आवर्ती खर्चों को कवर किया जाता है, जो अक्सर विशेष अवसरों पर योगदान देते हैं। मोमाया कहते हैं कि ''जब भी क्लब सोशल मीडिया पर कोई अपील पोस्ट करता है, तो प्रतिक्रिया जबरदस्त होती है। हमारे सदस्य नियमित रूप से केंद्र पर आते हैं, न केवल मशीनों की जांच करने के लिए, बल्कि रोगियों के साथ बैठने, उनकी कहानियाँ सुनने और उन्हें याद दिलाने के लिए कि वे अकेले नहीं हैं। हमारे लिए, यह केवल एक परियोजना नहीं है; यह एक वादा है, वे मुस्कुराते हैं।''

इस 35 साल पुराने क्लब के एजेंडे में अगला काम जीजी की सहायता से नवजात शिशु गहन देखभाल इकाई स्थापित करना है। मोतियाबिंद सर्जरी शिविर इस क्लब की नियमित गतिविधि है। वे कहते हैं, ''हम हर साल गांवों में 8-10 शिविर लगाते हैं, जिसमें कम से कम 600 लोगों की दृष्टि वापस आती है, यह सब सदस्यों के दान से संभव होता है।'' ■

क्या आपने रोटरी न्यूज़ प्लस पढ़ा है?

यह ऑनलाइन प्रकाशन हर सदस्य की ईमेल आईडी पर भेजा जाता है।

रोटरी न्यूज़ प्लस को हमारी वेबसाइट *www.rotarynewsonline.org* पर पढ़ें।

सी एस आर के माध्यम से वित्तपोषित रोटरी फाउंडेशन इंडिया के ₹4.2 करोड़ के अनुदान की बदौलत, निःशुल्क और किफायती कैंसर उपचार प्रदान करने के लिए एक अत्याधुनिक विकिरण चिकित्सा सुविधा स्थापित की गई है। यह परियोजना एक शोध केंद्र और एक निजी अस्पताल के बीच साझेदारी का परिणाम है, जिसे रोटरी क्लब पुणे प्रिस्टीन, रो ई मंडल 3131 द्वारा सुविधा प्रदान की गई है। टीआरएफ के ट्रस्टी भरत पांड्या ने कहा, ''यह ऐतिहासिक चिकित्सा परियोजना अनगिनत कैंसर रोगियों के जीवन को बेहतर बनाएगी।''

कैंसर रोगियों के लिए निःशुल्क विकिरण चिकित्सा

वी मुत्तुकुमारन

पुणे के वाघोली में एकीकृत कैंसर उपचार एवं अनुसंधान केंद्र (ICTRC) में एक नए विकिरण एवं सीटी स्कैन केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए, टीआरएफ के ट्रस्टी भरत पांड्या ने किफायती कैंसर देखभाल पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला। यह रोटरी क्लब, पुणे प्रिस्टीन की दूसरी ऐसी परियोजना है, इससे पहले सूर्या सह्याद्री अस्पताल में उनके पहले विकिरण चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन जुलाई 2022 में तत्कालीन रो ई अध्यक्ष जेनिफर जोन्स ने 860,000 डॉलर के वैश्विक अनुदान के माध्यम से किया था।

नया केंद्र क्लब, ICTRC और ओन्को-लाइफ हॉस्पिटल्स के बीच एक विशेष संयुक्त उद्यम का परिणाम है, जिसमें ₹12 करोड़ के उपकरण और सुविधाएं शामिल हैं। ''कैंसर की लड़ाई में रेडिएशन और सर्जरी महत्वपूर्ण उपकरण हैं। भारत में हर साल 1.4 मिलियन नए कैंसर के मामले सामने आते हैं - और अगले 5-7 सालों में यह संख्या बढ़कर 2 मिलियन होने की उम्मीद है - यह केंद्र ज़रूरतमंदों को समय पर, गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करेगा,'' पांड्या ने कहा। सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन कैंसर उपचार के तीन मुख्य स्तंभ हैं। टीआरएफ ट्रस्टी भरत पंड्या ने संतोष व्यक्त किया कि रोटरी फाउंडेशन के फंड ऐसी स्थायी परियोजनाओं, जैसे कि यह रेडिएशन सेंटर, का समर्थन कर रहे हैं ताकि सभी के लिए उपचार को सुलभ बनाया जा सके। उन्होंने कहा, ''इवानस्टन में बैठकर हम कभी-कभी जमीनी हकीकत को नज़र अंदाज़ कर देते हैं। मैं इस प्रभावशाली चिकित्सा परियोजना को रो ई बोर्ड और ट्रस्टियों के साथ साझा करने को लेकर

बाएं से: टीआरएफ ट्रस्टी भरत पांड्या, प्रोजेक्ट संयोजक सुदीन आप्टे, रोटरी क्लब पुणे प्रिस्टिन की अध्यक्ष शिल्पा भोसेकर, डीजी शीतल शाह, आईसीटीआरसी के निदेशक डॉ अरविंद कुलकर्णी, ओन्को-लाइफ हॉस्पिटल्स के अध्यक्ष उदय देशमुख, डीआरएफसी शैलेश पालेकर, अनिल गोयल, अनुप बंदिश्ते, डॉ अभिषेक पुरकायस्थ, डॉ श्वेता गुजर और पीडीजी गिरीश गुने और पंकज शाह (दाएं)।

उत्साहित हूं।'' उन्होंने अन्य क्लबों को भी इसी तरह की दीर्घकालिक और नवोन्मेषी स्वास्थ्य सेवा पहलों की शुरुआत के लिए प्रोत्साहित किया।

डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शीतल शाह ने रोटरी क्लब पुणे प्रिस्टीन के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि क्लब ने चालू रोटरी वर्ष में ₹14 करोड़ की परियोजनाएं क्रियान्वित की हैं।

डीआरएफसी शैलेश पालेकर ने कहा, ''एक डॉक्टर के तौर पर मुझे नया रेडिएशन सेंटर देखकर खुशी हो रही है। जब पूर्व अध्यक्ष सुदीन आप्टे ने यह विचार प्रस्तुत किया था, तभी से मैं इस परियोजना से निकटता से जुड़ा हुआ हूं।'' हर साल 1.46 मिलियन नए कैंसर रोगियों में से, ''कम से कम आठ लाख को रेडिएशन की आवश्यकता होती है, और उनमें से ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों से होते हैं, जो कैंसर के इलाज का खर्च नहीं उठा सकते।''

आईसीटीआरसी में ऑन्कोलॉजी के निदेशक डॉ अरविंद कुलकर्णी ने हाई-टेक रेडिएशन यूनिट के शुभारंभ पर अपनी खुशी व्यक्त की, और 1994 में अस्पताल की साधारण शुरुआत को याद किया। यह चैरिटी अस्पताल आध्यात्मिक नेता सरदेशमुख महाराज की पहल और परमाणु ऊर्जा आयोग व भारत सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया था, जहाँ प्रारंभ में कोबाल्ट मशीन के माध्यम से विकिरण उपचार दिया जाता था। उन्होंने कहा, ''आज, हम एलोपैथिक और आयुर्वेद जैसी वैकल्पिक चिकित्सा को मिलाते हैं। नए केंद्र के साथ, हम अब सालाना 1,200 मरीजों को विकिरण चिकित्सा प्रदान कर सकते हैं - जिनमें से 80 प्रतिशत को यह सुविधा नि:शुल्क मिलती है। पहले यह संख्या 400 थी। हम हर साल कुल 1,200 सर्जरी करते हैं, जिनमें से लगभग 300 कैंसर के लिए होती हैं, और 1,000 कीमोथेरेपी सत्र भी देते हैं।''

ओन्को-लाइफ हॉस्पिटल्स के एमडी उदय देशमुख ने इस अप्रत्याशित लेकिन प्रभावशाली साझेदारी पर प्रकाश डाला। ''किसी ने नहीं सोचा था कि ओन्को-लाइफ और आईसीटीआरसी एक साथ मिलकर वंचितों को मुफ़्त कैंसर देखभाल प्रदान कर सकते हैं - जब तक कि रोटरी ने ऐसा नहीं कर दिखाया।''

फ़ासले को कम करना

रोटरी क्लब पुणे प्रिस्टीन के चिकित्सा परियोजना संयोजक सुदीन आप्टे ने बताया कि भारत में कैंसर के मामलों में हर साल 5-7 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, हर साल पुणे में आने वाले 15,000 रोगियों में से लगभग 60 प्रतिशत को ठोस ट्यूमर का पता चलता है, जिन्हें अक्सर सर्जरी से पहले विकिरण चिकित्सा की आवश्यकता होती है। हालाँकि, इनमें से लगभग 3,500 मरीज़ - 36 प्रतिशत - इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते, जिसकी लागत ₹1.5-2 लाख के बीच होती है। जबकि 1,500 मरीज़ों को सरकारी योजनाओं के माध्यम से मुफ़्त देखभाल मिलती है, ''हमें बाकी 2,000 रोगियों के लिए ना पड़ता है,'' आप्टे ने कहा।

क्लब की अध्यक्ष शिल्पा भोसेकर ने बताया कि केवल सात वर्ष पुराने, 30 सदस्यों वाले उनके क्लब ने रोटरी फाउंडेशन को 1 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है और 2.1 मिलियन डॉलर मूल्य की आठ वैश्विक अनुदान परियोजनाएं क्रियान्वित की हैं। नए रेडिएशन सेंटर को ड्यूरोशॉक्स द्वारा प्रदान किए गए ₹36.3 लाख के सी एस आर अनुदान से सहायता मिली, जिसे रोटरी क्लब पूना डाउनटाउन के AKS सदस्य अनिल गोयल ने दान किया। उद्घाटन समारोह में पीडीजी गिरीश गुने और पंकज शाह के साथ-साथ आईसीटीआरसी के डॉक्टर और कर्मचारी भी उपस्थित थे।

प्रिस्टीन कैंसर केयर नेटवर्क

2020 से, आरसी पुणे प्रिस्टीन वंचित रोगियों को मुफ्त या रियायती उपचार प्रदान करने वाले कैंसर देखभाल अस्पतालों के एक नेटवर्क की स्थापना पर काम कर रहा है - जिसकी संख्या अब नौ तक पहुँच चुकी है। क्लब के चिकित्सा परियोजनाओं के संयोजक और इस पहल के मुख्य वास्तुकार, सुदीन आप्टे ने कहा कि इस नेटवर्क को वैश्विक अनुदानों, सी एस आर फंड और अन्य संसाधनों के माध्यम से ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, विकिरण इकाइयों, कीमोथेरेपी वार्ड और सर्जिकल फंड जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे से सुसज्जित किया गया है। उन्होंने कहा, ''इन सुविधाओं ने प्रतिवर्ष लगभग 5,500 रोगियों को मुफ्त या किफायती उपचार प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।'' अस्पताल गरीबों को कैशलेस देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत और महाराष्ट्र राज्य एमजेपीजेएवाई जैसी सरकारी योजनाओं को भी एकीकृत कर रहे हैं।

इसके अलावा, रोटरी क्लब पुणे प्रिस्टीन में 500 कैंसर रोगियों के उपचार को प्रायोजित कर रहा है और पिछले चार वर्षों में अपने साझेदार अस्पतालों के माध्यम से कैंसर की देखभाल पर ₹18-20 करोड़ खर्च कर चुका है। यह यात्रा 2020 में शुरू हुई जब क्लब ने सूर्या सह्याद्री अस्पताल और केंद्र और राज्य सरकारों के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत, अस्पताल को मुफ्त या रियायती कैंसर उपचार के लिए 125 बिस्तरों वाला वार्ड समर्पित करने के लिए प्रतिबद्ध किया, बशर्ते रोटरी क्लब ₹15 करोड़ का बुनियादी ढांचा स्थापित कर सकें।

रोटरी क्लब पुणे प्रिस्टीन ने वैश्विक अनुदान के माध्यम से ₹12 करोड़ की लागत से एक रेडिएशन सेंटर की स्थापना और आईसीयू, कीमोथेरेपी वार्ड और ऑपरेशन थियेटर को उन्नत बनाकर इस अभियान में अग्रणी भूमिका निभाई। पुणे के अन्य क्लब भी इस मिशन में शामिल हुए: रोटरी क्लब पुणे सेंट्रल ने ₹1.5 करोड़ का डायलिसिस सेंटर स्थापित किया, रोटरी क्लब पुणे पाषाण ने ₹50 लाख का डायग्नोस्टिक सेंटर खोला और रोटरी क्लब पुणे खड़की ने ₹1 करोड़ का स्किन बैंक स्थापित किया। इन पहलों ने मिलकर ₹15 करोड़ की चिकित्सा सुविधाएँ बनाईं, जिससे प्रतिवर्ष 2,500 रोगियों को मुफ़्त या रियायती उपचार मिल सका।

आईसीटीआरसी में नए रेडिएशन सेंटर के शुभारंभ के साथ, रोटरी क्लब पुणे प्रिस्टीन कैंसर रोगियों के लिए अपनी सहायता प्रणाली का विस्तार कर रहा है। अपने नेटवर्क में अन्य अस्पतालों के साथ साझेदारी के माध्यम से, जिनके पास विकिरण सुविधाओं की कमी है, क्लब अब रोगियों को उपचार के लिए आईसीटीआरसी तक परिवहन की व्यवस्था करेगा। सुदीन आप्टे ने कहा, ''हम उपचार के दौरान सभी रोगियों और एक देखभालकर्ता को मुफ्त भोजन भी प्रदान करेंगे, साथ ही विकिरण के दुष्प्रभावों को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए चिकित्सा किट भी देंगे।''

चित्र: वी मुत्तुकुमारन

The ROTARY ACTION PLAN

ROTARY'S ACTION PLAN IN MOTION

TRANSFORMING CLUBS AND COMMUNITIES THROUGH GLOBAL GRANTS

Cadre input leads to greater impact and supports engagement

As a 25-year member of the Rotary Club of Guayaquil Norte, Guayas, Ecuador, Xavier "Xavi" Sanchez Pólit knows the transformative power of Rotary projects. And as a member of The Rotary Foundation Cadre of Technical Advisers, he uses his civil engineering expertise to help other clubs achieve their goals.

Cadre members help clubs plan and implement global-grant funded projects, and Xavi has advised members on initiatives such as building primary schools and water filtration systems.

Engaging clubs and building partnerships to expand our impact

Xavi knows some clubs avoid global grants because it's a long-term process and can seem daunting. But he believes it's worthwhile. "Committing to multiphase projects keeps your club busy and engaged with Rotary," he says. Cadre advisers can help clubs navigate the grant application and reporting cycle.

Xavi also emphasizes the benefits of working with local leaders and organizations that have a presence in the community. "They have important knowledge and relationships to make projects successful."

Adapting to local needs for lasting change

Visiting one water sanitation project involved a six-hour car trip and a three-hour canoe ride, but Xavi found his time with community members rewarding. "It was quickly clear they cared very much for their community and environment," he says.

Beyond commitment, it's also important to be flexible. "Most mistakes Rotarians make come from thinking we know what communities need, instead of asking them," Xavi says. By being receptive to new ideas, asking questions, and responding to community feedback, Rotary members can help their projects have a lasting impact.

Xavi and other Cadre members offer their expertise on these kinds of projects to help clubs advance Rotary's Action Plan commitment to increasing our impact and our ability to adapt.

Rotary PEOPLE OF ACTION

ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना

टीम रोटरी न्यूज़

सिल्क सिटी रामनगर, रो ई मंडल 3191 के रोटरी क्लब ने अपने अध्यक्ष के एन श्रीधर के नेतृत्व में एक व्यावसायिक सेवा परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे 285 ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव आया है।

इस परियोजना का उद्देश्य इन महिलाओं को रोजगार योग्य कौशल प्रदान करना था, जिससे वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। प्रशिक्षण सत्रों को व्यावहारिक, प्रासंगिक और उद्योग-संबंधित तरीके से डिजाइन किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रतिभागियों को अपने चुने हुए कौशल में आत्मविश्वास और दक्षता प्राप्त हो। मंडल सचिव राघवेंद्र इनामदार ने कहा कि 90 दिनों से अधिक समय तक चलने वाली और क्षेत्र की 285 ग्रामीण महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाली इस परिवर्तनकारी ग्रामीण परियोजना की कुल लागत ₹17 लाख है।

प्रशिक्षण पूरा होने पर, क्लब ने प्रत्येक प्रतिभागी को एक सिलाई मशीन, आवश्यक उपकरण और अन्य जरूरी सामग्री दान की, जिससे उन्हें अपना खुद का उद्यम शुरू करने का अधिकार मिला। इस विचारशील कदम ने न केवल उनके कौशल को बढ़ाया है, बल्कि उन्हें अपने नए कौशल को स्थायी आजीविका में बदलने के लिए आवश्यक संसाधन भी प्रदान किए हैं।

डीजी सतीश माधवन (बीच में) और क्लब अध्यक्ष के एन श्रीधर वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए।

यह परियोजना महिलाओं को सशक्त बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्लब की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। व्यावसायिक प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करके, रोटरी क्लब रामनगर सिल्क सिटी ने एक अधिक समावेशी और समृद्ध समुदाय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस परियोजना का प्रभाव आने वाले वर्षों में महसूस किया जाएगा, क्योंकि ये महिलाएँ उद्यमी बनेंगी, रोजगार के अवसर पैदा करेंगी और अपने समुदायों के आर्थिक विकास में भागीदारी निभाएंगी।

इस परियोजना की सफलता का श्रेय डीजी सतीश माधवन, महासचिव कुमार स्वामी, मंडल सचिव राघवेंद्र इनामदार और मंडल महिला सशक्तिकरण निदेशक अनुपमा सावदी को जाता है, क्लब ने सिलाई और ब्यूटीशियन पाठ्यक्रमों में एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।■

दुनिया में कहाँ

इस महीने, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिभागी कैलगरी में जुटेंगे, एक वार्षिक परंपरा के तहत जो पिछले 115 वर्षों से दुनिया भर में आयोजित की जा रही है। हमने पुराने अभिलेखों में जाकर पिछले सम्मेलनों की कुछ तस्वीरें निकाली हैं। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तस्वीरें किस शहर में ली गई थीं?

2

1

4

3

5

पोंचो गौचो संस्कृति का पारंपरिक प्रतीक हैं, रोटरी सदस्यों को इस शहर में यह पता चला।

तस्वीरें: रोटरी फाइल फ़ोटोज़

6

7

सम्मेलन का उद्घाटन सत्र ठोस चट्टान को काटकर बनाए गए इस शहर के प्रतिष्ठित एम्फीथिएटर के लोकार्पण के साथ हुआ।

9

8

रोटरी 2026 के सम्मेलन के लिए इस शहर में फिर लौट रही है।

11

12

जब आप इस साल के सम्मेलन के लिए कैलगरी में होंगे, तो इस अन्य कनाडाई शहर की भी सैर करें।

10

उत्तर:

1. सियोल, 1989 **2.** होनोलुलु, 1969 **3.** सिडनी, 1971 **4.** ओसाका, जापान, 2004 **5.** ब्यूनस आयर्स, 2000 **6.** बार्सिलोना, 2002 **7.** मिनियापोलिस–सेंट पॉल, 1974 **8.** ताइपे, 1994 **9.** डेनवर (रेड रॉक्स पार्क), 1941 **10.** डलास, 1982 **11.** टोरंटो, 1924 **12.** मेक्सिको सिटी, 1968 **13.** म्यूनिख, 1987

13

©Rotary

Rotary PEOPLE OF ACTION

परिवर्तन की शक्ति

रांची हवाई अड्डे पर एईडी इकाई स्थापित की गई

रोटरी क्लब रांची, रो ई मंडल 3250 द्वारा बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर एक एईडी (स्वचालित बाहरी डिफाइब्रिलेटर) स्थापित किया गया, ताकि हृदयाघात से पीड़ित यात्रियों और हवाई अड्डे के कर्मचारियों को आपातकालीन सहायता प्रदान की जा सके। यह मशीन हृदय को पुनर्जीवित करने के लिए विद्युत झटका देती है, जिससे पेशेवर चिकित्सा सहायता के आगमन तक रोगी के जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। स्थापना के अवसर पर बोलते हुए, क्लब के अध्यक्ष गौरव बागरॉय ने कहा, ''आपातकालीन सहायता तक त्वरित पहुँच जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकती है।'' बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर प्रतिदिन हज़ारों यात्री आते हैं, और एईडी मशीन अचानक हृदयाघात से पीड़ित लोगों को बचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ■

डीजी बिपिन चाचान (बाएं से पांचवें) एयरपोर्ट स्टाफ को एईडी मशीन देते हुए। साथ में दिख रहे हैं: रोटरी क्लब रांची के अध्यक्ष गौरव बागरॉय (बीच में) और पीडीजी गोपाल खेमका (बाएं से चौथे)।

एनेट थल्हिर पहल की शुरुआत करती हुई।

कृत्रिम अंग के लिए दान

एनेट्स में बचत की आदत विकसित करने के लिए, रोटरी क्लब कोयम्बटूर मिड टाउन, रो ई मंडल 3201, एक कृत्रिम अंग के आकार में डिज़ाइन की गई गुल्लक वितरित कर रहा है, ताकि रोटेरियन के बच्चों को क्लब द्वारा आयोजित कृत्रिम अंग वितरण शिविरों में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जा सके।

क्लब के अध्यक्ष श्रीनिवास श्रीरामन ने कहा कि गुल्लक एनेट्स के दिलों में सेवा और सहानुभूति के बीज बोएगी। ■

स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल शिविर

रोटरी क्लब चेंगन्नूर, रो ई मंडल 3211 द्वारा आयोजित फुटबॉल के लिए ग्रीष्मकालीन कोचिंग शिविर में 60 स्कूली बच्चों ने पर्यावरण दिवस (22 अप्रैल) के अवसर पर *हग ए ट्री* नामक एक अनोखे कार्यक्रम में भाग लिया। पुलिस अधीक्षक के टी चाको ने बी एस एफ के महानिरीक्षक पी वी इपेन, जो एक रोटेरियन हैं, के सहयोग से इस कार्यक्रम का संचालन किया।

छात्रों को रोटरी लोगो और 'नशे को न कहें' टैगलाइन वाली फुटबॉल जर्सी दी गई। नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर एक संवादात्मक सत्र भी आयोजित किया गया। ■

स्कूली बच्चे और रोटेरियन महग ए ट्रीफ अभियान में भाग लेते हुए।

डिब्रूगढ़, असम में RYLA

रोटरी क्लब डिब्रूगढ़, रो ई मंडल 3240 द्वारा असम के सात जिलों के 13 स्कूलों के 52 छात्रों के लिए तीन दिवसीय आवासीय RYLA आयोजित किया गया, जहां उन्होंने नेतृत्व गुण, व्यक्तित्व विकास और कैरियर निर्माण जैसे विषयों पर संसाधन व्यक्तियों के साथ बातचीत की।

देबजीत गोस्वामी RYLA के अध्यक्ष थे। मंडल वन अधिकारी संदीप बेंदी ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक रैली को हरी झंडी दिखाई। प्रतिभागियों को बीसीपीएल और क्रोमा हाइड्रोपोनिक नर्सरी के शैक्षिक दौरे पर ले जाया गया। मंडल आयुक्त बिक्रम कैरी ने समापन सत्र को संबोधित किया। ■

रो ई मंडल 3240 की पीडीजी कल्पना खौंड (दाएं) RYLA प्रतिभागियों के साथ।

आर्कटिक बर्फ के नीचे मानवता के लिए एक बैकअप

स्टीवन वरमेलेन

डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर क्रिश्चियन क्लावर्स, जो रोटरी क्लब ऑफ एंटवर्पेन-ओस्ट के सदस्य हैं, वैश्विक गर्मी के प्रभावों को कैप्चर करने के लिए एक दशक से अधिक समय से दुनिया भर में यात्रा कर रहे हैं। उनकी तस्वीरें यह दिखाती हैं कि किस चीज़ पर खोने का खतरा मंडरा रहा है और इस दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण चेतावनी हैं। अपनी नवीनतम परियोजना के लिए वह स्पिट्सबर्गेन के स्वालबार्ड द्वीप समूह में वर्ल्ड सीड बैंक तक विशेष पहुंच प्राप्त करने में कामयाब रहे।

''केवल तीन लोगों के पास ग्लोबल सीड वॉल्ट की चाबी है जहाँ दुनिया भर की खाद्य फसल के बीजों की 'अतिरिक्त प्रतियां' रखी जाती हैं। पर्माफ्रॉस्ट की गहराई में यह भंडारण, राष्ट्रीय बीज बैंकों के लिए एक मबैकअपफ के रूप में कार्य करता है, जो स्थानीय फसलों का दस्तावेजीकरण करके उन्हें सुरक्षित रखता है। यह उनकी जैव विविधता को संभावित आपदाओं जैसे प्राकृतिक आपदाओं, विनाशकारी युद्धों या जलवायु परिवर्तन से बचाने का काम करता है,'' क्लॉवर्स कहते हैं।

उत्तरी ध्रुव से 1,000 किलोमीटर दूर बीज भण्डार का प्रवेश द्वार।

अपनी एक आर्कटिक यात्रा के दौरान, क्लॉवर्स को बीज बैंक के भव्य प्रवेश द्वार को देखने का मौका मिला। उसे देखकर वह चकित होकर सोचने लगे कि उस भारी भरकम दरवाजे के पीछे क्या होगा। ''आप कल्पना कीजिए: आप 78 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर हैं और 1,000 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी ध्रुव है। इसके बीच में वास्तव में कुछ भी नहीं है। यहाँ एक सूखी रेगिस्तानी जलवायु है। और यहाँ नॉर्वेजियन सरकार ने वैश्विक समुदाय की सेवा हेतु एक सुविधा का निर्माण किया है, जो हमारी फसलों की आनुवंशिक विविधता के लिए एक प्रकार का सुरक्षा जाल है।''

ग्लोबल सीड वॉल्ट तक पहुंच हासिल करने में क्लॉवर्स को छह महीने से अधिक का समय लगा। आखिरकार, प्रभारी लोगों में से एक ने उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दी। ''उन्हें एहसास हुआ कि मैं इसमें केवल मजे के लिए या किसी पेशेवर लाभ के लिए नहीं घुसना चाहता था। यह हमारी पृथ्वी की नाजुकता और उसकी रक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा के बारे में मेरे समग्र आख्यान में फिट बैठता है, वह कहते हैं। हम कुछ महीने बाद लॉन्गइयरब्येन हवाई अड्डे पर मिले। मेरी फ्लाइट के सभी यात्रियों के जाने के बाद वह मुझे लेने आए। जब वह बीजों के एक नए शिपमेंट का भंडारण कर रहे थे, मैं बीज बैंक में घूमने के लिए स्वतंत्र था। मेरा सौभाग्य था कि ठीक उसी दिन अमेरिकी कृषि विशेषज्ञ और विश्व बीज बैंक के सह-संस्थापक, कैरी फाउलर भी वहाँ उपस्थित थे। और मैं अपनी वर्तमान में संकलित किताब के लिए उनका साक्षात्कार ले पाया।''

क्लॉवर्स की किताब *फ्रोजन हेरिटेज, आर्कटिक वॉल्ट्स एंड द फ्यूचर ऑफ अवर हिस्ट्री* नवंबर में प्रकाशित हुई।

दुनिया के लगभग हर देश से 1,301,397 बीज नमूनों की प्रतियाँ बर्फ के नीचे संग्रहीत की जाती हैं। इसकी कुल भंडारण क्षमता लगभग 4.5 मिलियन प्रतियों को समायोजित करने की हैं। बीजों को एयरटाइट कंटेनर में लगभग माइनस 18 डिग्री सेल्सियस (लगभग 0 डिग्री फ़ारेनहाइट) के निरंतर तापमान में रखा जाता है ताकि वे लंबे समय तक सुरक्षित रहें। जब सीरिया का राष्ट्रीय बीज बैंक वहाँ के गृहयुद्ध के दौरान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था तो ग्लोबल सीड वॉल्ट ने अपनी उपयोगिता साबित की।

''सीरियाई वैज्ञानिक अपने संग्रह को बहाल करने के लिए यहाँ आए। ये बीज 130 मीटर लंबी सुरंग के अंत में स्थित तीन ठंडे कक्षों में रखे जाते है, जिसे किसी भी आपदा का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्लॉवर्स कहते हैं। विडंबना यह है कि जलवायु परिवर्तन यहाँ भी अपना असर दिखा रहा है: 2017 में पिघला हुआ पानी बंकर में घुस गया और पहुंच सुरंग में बाढ़ आ गई। सौभाग्य से भंडारण कक्षों ने स्वयं को सुरक्षित रखा।''

क्लॉवर्स को ग्लोबल सीड वॉल्ट के अग्रदूत को देखने का मौका मिला। स्वालबार्ड पर स्थित एक परित्यक्त कोयला खदान में नॉर्डिक जेनेटिक रिसोर्स सेंटर ने 1986 की शुरुआत में स्कैंडिनेवियाई पौधों की किस्मों के बीजों के 20 लकड़ी के बक्से संग्रहीत किए, वह कहते हैं। ''प्रत्येक बक्से में एक ही बीज होते हैं। हर पाँच साल में एक बक्सा खोला जाता है ताकि बीजों की जीवन क्षमता और किसी भी रोगजनकों की जांच की जा सकें। यह प्रयोग तब तक जारी रहेगा जब तक कि 2086 में अंतिम नमूनों का विश्लेषण नहीं हो जाता।''

स्वालबार्ड पर एक तीसरा अंतर्राष्ट्रीय भंडारण केंद्र है, हालांकि यह एक अलग प्रकार का है। आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव मानवता के लिए आवश्यक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक डेटा संग्रहीत करता है। डेटा को नॉर्वेजियन कंपनी झळर्थ्रि द्वारा विकसित एक विशेष पेलिकल (पतली फिल्म) पर संग्रहीत किया जाता है। इसे हजारों वर्षों तक टिके रहने हेतु डिज़ाइन किया गया है, क्लॉवर्स कहते हैं। डेटा को एनालॉग और डिजिटल दोनों रूप से संग्रहीत किया जाता है ताकि अगर वर्तमान तकनीक न भी रहें तो भी इसे पढ़ा जा सकें। इसके पीछे का विचार यह है कि अगर कभी वैश्विक आपदा आती है तो मानवता के महत्वपूर्ण डेटा की रक्षा की जा सकें। इस स्थल को परमाणु हमलों और विद्युतचुम्बकीय पल्सेस से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

क्रिश्चियन क्लॉवर्स (बीच में) ने आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव में अपनी कुछ फोटोग्राफी का योगदान दिया, जो वैश्विक आपदा की स्थिति में डेटा की सुरक्षा के लिए बनाई गई एक भंडारण सुविधा है।

देश, संस्थान, संगठन और कंपनियां आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव में डेटा संग्रहीत कर सकते हैं। क्लॉवर्स ने खुद वहाँ पर पहला बेल्जियम योगदान दिया: जलवायु परिवर्तन का प्रमाण प्रस्तुत करने वाली अनेक तस्वीरें। ''इसमें मेरे प्रशांत महासागर परियोजना की 26 तस्वीरें शामिल हैं, जो यह दर्शाती हैं कि कैसे बढ़ते समुद्री स्तर के कारण तुवालु, किरिबाती और मार्शल द्वीप जैसे द्वीपों के गायब होने का खतरा मंडरा रहा है। इस तरह मैं द्वीपवासियों को आगाह करना चाहता हूँ,'' वह कहते हैं।

''वर्तमान जलवायु विकास मुझे दुखी करता है,'' क्लॉवर्स कहते हैं। ''मैं एक जन्मजात आशावादी हूँ लेकिन जहाँ तक जलवायु का सवाल है यह बीती बात हो गई है। अपूरणीय क्षति हो चुकी है। इसके परिणामों की भविष्यवाणी करना कठिन है लेकिन यह हर जगह दिखाई दे रहे हैं। मैं लगातार शीर्ष वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के संपर्क में हूँ। हम ऐसे चरण में प्रवेश कर चुके हैं जहाँ हमें नुकसान को कम करने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश समाज को अब भी जलवायु समस्या उतनी गंभीर नहीं लगती। ... मैं नियमित रूप से उच्च विद्यालय के छात्रों को लेक्चर देता हूँ। मुझे लगता है कि वे जिम्मेदारी लेना चाहते हैं और इससे मुझे उम्मीद मिलती है।''

हाल ही के वर्षों में रोटरी ने पर्यावरण और जलवायु पर ध्यान केंद्रित किया है जिसका क्लॉवर्स द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ''यह मेरे लिए एक रोटेरियन बनने का निर्णायक कारक भी रहा। रोटरी भी मुझे नियमित रूप से अपना संदेश फैलाने का अवसर प्रदान करती है, वह कहते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ समय पहले मैं फिलीपींस में था जहाँ मुझे मनीला और सेबू के रोटरी क्लबों में लेक्चर देने का अवसर मिला। ये ओलांगो द्वीपसमूह पर एक फोटोग्राफी परियोजना के बारे में था, जो इसकी कम ऊंचाई के कारण खतरे में भी है। मैंने 2023 में रोटरी क्लब होनोलूलू सनसेट में हवाई में एक लेक्चर भी दिया। वहाँ भी ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं। रोटेरियनों के बीच रहना हमेशा अच्छा होता है। इसके अलावा मुझे जलवायु परिवर्तन के बारे में उन्हें जानकारी देना भी बहुत अच्छा लगता है। अंत में सब कुछ ज्ञान से शुरू होता है और मैं इसे अपनी तस्वीरों के माध्यम से एक दृश्य तरीके से स्थानांतरित करने की कोशिश करता हूँ।''

चित्र: क्रिश्चियन क्लॉवर्स

©Rotary

रो ई मंडल 2981

रोटरी क्लब पट्टुकोट्टई किंग्स

नवगठित पोन्नवरायनकोट्टई आरसीसी को उसके सदस्यों के लाभ के लिए सिलाई मशीनें और कृषि उपकरण दान किए गए। इस परियोजना ने आसपास के क्षेत्र में क्लब की सार्वजनिक छवि को बढ़ाया।

Rotary PEOPLE OF ACTION

मंडल गतिविधियाँ

रो ई मंडल 3000

रोटरी क्लब गंडार्वकोट्टई

किसानों को उर्वरक स्प्रेयर दिए गए, जिससे उन्हें अपनी फसलों की देखभाल करने में मदद मिलेगी। लाभार्थियों ने रोटरी को इस कदम के लिए धन्यवाद दिया, जिससे कृषि उत्पादकता बढ़ेगी।

रो ई मंडल 3030

रोटरी क्लब चोपड़ा

महिला दिवस के अवसर पर आदावड़ गांव में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए एक थायरॉयड जांच शिविर आयोजित किया गया। शिविर में थायरॉयड विकारों से बचाव के बारे में महिलाओं को जागरूक भी किया गया।

रो ई मंडल 3060

रोटरी क्लब वधावन मेट्रो

60 महिलाओं के लिए मासिक धर्म स्वच्छता सत्र आयोजित किया गया, कार्यक्रम के अंत में प्रत्येक को 100 सैनिटरी पैड दिए गए, जिससे क्लब की सार्वजनिक छवि बेहतर हुई।

रो ई मंडल 2982

रोटरी क्लब जलकंदपुरम

जलकंदपुरम के सरकारी अस्पताल में नवजात शिशुओं की 20 माताओं को उनके शिशुओं की देखभाल के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य किट प्रदान की गईं। इस आयोजन से क्लब की सार्वजनिक छवि में सुधार हुआ।

रो ई मंडल 3080

रोटरी क्लब अंबाला इंडास्ट्रियल एरिया

अंबाला के गांधी मैदान में सिख गुरमत समागम में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जांच शिविर से करीब 50,000 श्रद्धालुओं को लाभ मिला। क्लब के सदस्य डॉ जोगिंदर सिंह ने सिविल अस्पताल से मरीजों की जांच की और उन्हें दवाइयां दी गईं।

रो ई मंडल 3090

रोटरी क्लब हिसार सेंट्रल डायनेमिक

उन बच्चों को स्टेशनरी और अध्ययन सामग्री वितरित की गई जिनके माता-पिता खर्च वहन करने में असमर्थ थे। क्लब को उम्मीद है कि शैक्षिक सामग्री प्रदान करने से अधिक परिवार अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

पक्षियों को आज़ाद करो

प्रीति मेहरा

उन्हें पिंजरे में कैद करने की बजाय स्वतंत्र रूप से उड़ने दें।

हमारे अपार्टमेंट ब्लॉक के व्हाट्सएप ग्रुप में अक्सर ऐसे संदेश आते रहते हैं कि कैसे कोई पालतू पक्षी उड़ गया है, और अगर किसी को वह दिखाई दे, तो उसे उसके मालिक को उसके ठिकाने की जानकारी देनी चाहिए। पक्षियों को वापस लाने के ये लगातार प्रयासों ने मुझे हमेशा यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि पक्षियों को पालतू जानवर के रूप में क्यों रखते हैं, और क्या यह एक स्थायी अभ्यास है?

हालाँकि मुझे पालतू जानवर बहुत पसंद हैं, और जब से मुझे याद है, मेरे घर में हमेशा कुत्ते रहे हैं, लेकिन मेरे लिए पक्षी स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र आत्मा हैं, जिन्हें पक्षी देखने की यात्रा के दौरान उनके प्राकृतिक आवास में बारीकी से देखा और समझा जाना चाहिए। बढ़ता हुआ शहरीकरण भी घटती हुई पक्षी आबादी पर अपना असर डाल रहा है।

याद कीजिए, कैसे 2012 में दिल्ली से गौरैया कई सालों तक गायब रही और उनके संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इसे राजधानी का राज्य पक्षी घोषित किया। साथ ही, जूट, नारियल की जटा, मिट्टी के बर्तन और बांस जैसी प्राकृतिक सामग्रियों से कृत्रिम घोंसले बनाने का अभियान भी चलाया गया। इन उपायों से मदद मिली और लगभग एक दशक में गौरैया की आबादी वापस आ गई। मीडिया, पर्यावरणविदों और पक्षी प्रेमियों ने इस छोटी सी चिड़िया की वापसी का बहुत खुशी से स्वागत किया गया।

हरियाली का मतलब है प्रकृति के साथ जुड़ना, उससे बातचीत करना और उसकी महिमा को देखना। यह उस पर्यावरण की रक्षा करने के बारे में भी है, जो हमें पोषण देता है और पोषित करता है। जब प्रकृति के उपहारों का आनंद लेने की बात आती है, तो अपने पिकनिक बैग और दूरबीन को पैक करके पार्क में जाना, और दिनभर प्रकृति की उन अद्भुत रचनाओं को निहारना, जिनमें से एक ने हमें हवाई जहाज़ बनाने और उड़ने की प्रेरणा दी, सबसे अच्छा अनुभव होता है।

पक्षियों को देखने में ऐसा क्या है जो आपको आकर्षित करता है? एक बात जो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, वह यह है कि झाड़ियों में चहचहाते या पेड़ की टहनी पर बैठे किसी पक्षी को गाते हुए देखना और सुनना, उन पिंजरे में बंद पक्षियों की तुलना में कहीं अधिक आनंद देता है, जिनके पंख काट दिए गए हैं और जिन्हें उड़ने तथा प्रकृति द्वारा निर्धारित स्वतंत्रता को जीने से वंचित कर दिया गया है।

दरअसल, इस विषय पर पढ़ते समय मुझे शोधकर्ता शॉन पेंग और डोनाल्ड एम ब्रूम द्वारा किया गया एक अध्ययन मिला, जिसका शीर्षक है, पक्षियों को पालतू जानवर के रूप में रखने की स्थिरता: क्या उन्हें रखा जाना चाहिए? वे इस बारे में बात करते हैं कि पक्षियों को पालतू जानवर के रूप में रखने से जैव विविधता को बहुत नुकसान पहुँचता है और जंगली पक्षियों की आबादी पर असर पड़ता है। वे उन अनैतिक और असंवहनीय प्रथाओं की ओर इशारा करते हैं, जिन्हें पालतू पक्षियों के व्यापार में शामिल व्यापारी और मालिक अपनाते हैं। वे कहते हैं: ''जंगली पकड़े गए पक्षियों को पालतू जानवरों के रूप में या प्रजनन प्रतिष्ठानों को कई कारणों से नहीं बेचा जाना चाहिए, जिनमें से एक यह भी है कि जंगली पकड़े गए 75-90 प्रतिशत पक्षी बिक्री के बिंदु से पहले ही मर जाते हैं और जंगली पक्षियों को ले जाने से जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।''

इसके अलावा, उनके अध्ययन में बताया गया है कि पालतू पक्षियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आवास को उस प्रजाति के पक्षियों की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए और अच्छे कल्याण की अनुमति देनी चाहिए। उदाहरण के लिए छोटे पिंजरे नहीं होने चाहिए बल्कि प्रत्येक पक्षी के लिए पर्याप्त व्यायाम करने के लिए जगह के साथ एवियरी होनी चाहिए। साथ ही, सामाजिक पक्षियों को सामाजिक समूहों में रखा जाना चाहिए। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि ''वर्तमान में, कई पालतू पक्षियों के अपर्याप्त आवास के परिणामस्वरूप पक्षियों में रूढ़िवादिता और खराब कल्याण के अन्य संकेतक सामने आते हैं। मालिकों को यह समझ होना चाहिए कि उन्हें अच्छा पोषण कैसे प्रदान किया जाए और बीमारी के जोखिम को कैसे कम किया जाए। जब तक ये बदलाव नहीं किए जाते, तब तक पक्षियों को पालतू जानवर के रूप में रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।''

पर्यावरण और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित एक व्यक्ति के रूप में, यह जानना महत्वपूर्ण है कि जलवायु परिवर्तन पक्षियों की आबादी, विशेष रूप से लंबी दूरी तय करने वाले प्रवासी पक्षियों, पर किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है। अपने शोध के दौरान मुझे कुछ चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं, जिन्हें मैं यहाँ साझा करना चाहूँगा:

- जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में बदलाव और चरम मौसमी घटनाओं के कारण प्रवासी

पक्षियों के प्रवास पैटर्न पर गंभीर असर पड़ रहा है। उन्हें अपना मार्ग बदलने, अपनी यात्रा रद्द करने या उसे छोटा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, अक्सर इससे उनके अस्तित्व को ही चुनौती मिल रही है।

* तापमान में बदलाव, रेगिस्तानीकरण, और पानी की कमी या बाढ़ के कारण कई पक्षी प्रजातियों को आवास की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते उन्हें प्राकृतिक घोंसले बनाने और भोजन की खोज करने में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो उनके जीवन चक्र और अस्तित्व को सीधा प्रभावित करता है।
* तापमान में वृद्धि के कारण कई प्रवासी पक्षी अपने गंतव्य स्थलों पर अपेक्षित समय से पहले पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ की वनस्पति उनके प्रजनन काल के अनुरूप नहीं होती। परिणामस्वरूप, उनके बच्चों के लिए आवश्यक भोजन की उपलब्धता कम हो जाती है। संक्षेप में, जलवायु परिवर्तन ने प्रवासी पक्षियों के जीवन चक्र में गड़बड़ी और अनिश्चितता उत्पन्न कर दी है, जिससे कई प्रजातियों का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। तो, हम ग्रीन वॉरियर्स के रूप में क्या भूमिका निभा सकते हैं? सबसे प्रभावी होगा अपने रहने की जगह पर पक्षियों को बचाने का अभियान चलाना। अगर हम अपने दोस्तों, पड़ोसियों, अपने आस-पास के स्कूल और कॉलेज को प्रभावित कर सकें, तो यह बहुत मददगार होगा।

जागरूकता शिविर आयोजित करना एक सार्थक हस्तक्षेप हो सकता है। छात्रों को प्रकृति पार्कों में ले जाना और उन्हें उनके प्राकृतिक आवासों में पक्षियों और जानवरों को देखने और समझने की मूल बातें सिखाना न केवल आनंददायक होता है, बल्कि एक प्रभावी शिक्षण अनुभव भी बन सकता है। अपने पक्षी मित्रों को देखने के विषय पर यह ध्यान देने योग्य होगा कि हम उन्हें खाना खिलाकर उनकी मदद नहीं करेंगे। उन्हें अपना भोजन खुद तलाशने दें। दुर्भाग्य से, हम अक्सर लोगों को बचे हुए भोजन या अनाज जंगली जानवरों और पक्षियों को खिलाते हुए देखते हैं। कबूतर इसका एक उदाहरण है जो अपने भोजन के लिए सुबह की सैर करने वालों पर निर्भर हो जाता है।

बेशक, चीजों की बड़ी योजना में, हम में से हर एक को जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए शामिल होने की जरूरत है, हर किसी को अपने तरीके से। कम ऊर्जा का उपयोग करें, अपने कचरे को अलग करें, प्राकृतिक उत्पादों का चयन करें, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले परिवहन के बजाय साइकिल का उपयोग करें, और पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में आवाज़ उठाएँ।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बात प्रकृति और जैव विविधता की रक्षा की हो, तो पक्षियों को पालतू बनाने के बजाय उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में निरीक्षण करना ही ग्रह के हित में सबसे उचित विकल्प होता है।

लेखिका एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो पर्यावरण के मुद्दों पर लिखती हैं।

लेखिकाओं की मुलाकात...



'कहानियाँ ही तो है हमारे पास' बच्चों के लिए लिखने वाली महिलाओं की तीन दिवसीय बैठक में देश की कई भाषाओं की कहानियाँ और उनको साझा किया जाना इस मूल सत्य को जीवंत और विविध रूपों में दोहराता है।

संध्या राव

जब बांग्ला लेखिका जया मित्रा ने अमेरिकी इंडियन लेखिका लेस्ली मारमोन सिल्को की किताब सेरेमनी के एक उद्धरण को अपने शब्दों में कहा, 'वे कहेंगे कि कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं। उन पर विश्वास न करें। हमारे पास सिर्फ कहानियाँ ही तो हैं' तो यह बात मेरे दिल को गहराई से छू गई। और जब तमिल लेखिका ईरोड शार्मेला के प्रस्तुतीकरण के अंत में चित्रकार/लेखिका दीपा बालसावर ने मेरी ओर झुककर कहा, 'मुझे उनके एक भी शब्द समझ नहीं आए मगर वो क्या कहना चाहती है मैं सब समझ गई,' तो मुझे एहसास हुआ कि यह बच्चों (और वयस्कों) के लिए लिखने वाली महिलाओं की हाल ही में तीन दिवसीय बैठक की भावना को समाहित करता है। प्रसिद्ध तमिल लेखिका अंबाई (डॉ सीएस लक्ष्मी) की अध्यक्षता में SPARROW (Sound Picture Archives for Research on Women) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उनकी समर्पित टीम की अहम भूमिका थी। यह 'संवाद और चर्चा के माध्यम से महिला लेखन का उत्सव मनाने हेतु एक सांस्कृतिक आयोजन' था। बात करने के लिए बहुत कुछ था - औपचारिक सत्रों के दौरान, भोजन के समय, विश्रामकाल के दौरान, स्वीमिंग पूल में और उसके बाहर, दो महिलाओं द्वारा साझा किए गए कमरों में और जिनके बीच संवाद के लिए एक साझा भाषा नहीं थी - फिर भी उन्होंने अपने प्रयासों से एक-दूसरे से बात की।

इस संदर्भ में इस तर्क का भी खंडन हो जाता है कि भारत को किसी एक संपर्क भाषा की आवश्यकता है। मनदीप रिम्पी ने अपनी पूरी बातचीत में पंजाबी का इस्तेमाल किया - और बहुत प्रभावी ढंग से किया। और अनुवाद करने के लिए हमेशा कोई न कोई मौजूद होता था। दरअसल, व्यक्तिगत रूप से मेरा विश्वास है कि हम भारतीयों में भाषाओं की एक स्वाभाविक प्रतिभा होती है। जरूरी नहीं कि हम सभी विद्वान या साहित्यकार ही बनें मगर हम किसी न किसी तरीके से एक दूसरे को समझ लेते है फिर चाहे हमारे पास वॉयस बॉक्स हो या न हो। अधिकांश भारतीय कम से कम दो भाषाओं से परिचित होते हैं; और कई लोग दो से अधिक भाषाएं भी जानते है।

देर रात की एक हॉट चॉकलेट चर्चा के दौरान गिराबेन भट्ट ने शालिनी मूर्ति से *मातृ भाषा* में बोलने की विनती की - उनका आशय हिंदी से था - इसपर त्वरित प्रतिक्रिया आई: वह बोल ही रही है। वह कन्नड़ बोल रही है!फ इन देर रात के सत्रों के दौरान हम हॉट चॉकलेट की चुस्की लेते हुए उन मुद्दों पर चर्चा करते रहे जो हमें भीतर तक छूते है जैसे कि बच्चों और युवा वयस्कों को उनकी संस्कृति एवं इतिहास से जोड़ने में मातृभाषा कितनी कारगर है, व्यक्तित्व विकास में भाषा की भूमिका और खास तौर पर एक भारतीय भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद की आवश्यकता और महत्व - विशेष रूप से हाशिए पर पहुँच चुकी भाषाओं - जैसे मुद्दों पर चर्चा की।

हम बच्चों के लिए क्यों लिखते हैं? हम किस बारे में लिखते हैं? और हम जिन भाषाओं में लिखते हैं उन्हीं में क्यों लिखते हैं। कौन सी साहित्यिक परंपराएं हमारे लेखन निर्णयों को प्रभावित या नियंत्रित करती हैं? कहानी कहने में और लिखने में क्या अंतर है? उदाहरण के लिए जोबा मुर्मू एक अत्यंत सक्रिय और प्रतिभाशाली संताली लेखिका है; वह संताली में अनुवाद भी करती है। तो सवाल यह है कि क्या उनके लेखन के लिए पाठक वर्ग मौजूद है? संताली में लेखन का इतिहास क्या है? मजब आप मातृभाषा में लिखते है और बात करते है तो बच्चे उसे आसानी से समझ जाते हैं,फ उन्होंने आगे भी कहा कि संताली की एक समृद्ध मौखिक परंपरा है; जबकि लेखन परंपरा हाल ही में शुरू हुई है।

सांगमू लेप्चा दार्जिलिंग में रहती हैं; वह हिंदी और नेपाली में लिखती हैं। वह एक सेवानिवृत्त स्कूल प्रधानाध्यापिका है और यह स्पष्ट करती है कि वह भारतीय है, नेपाली नही - जैसा कि अक्सर लोग मानते हैं। वह कहती है, 'मैं प्रकृति के करीब ही पली-बढ़ी हूँ,' इसलिए मेरे अधिकांश लेखन का केंद्र बिन्दु प्रकृति और पर्यावरण ही है। उनका ग्राफिक उपन्यास *शांतिबन* इस क्षेत्र के पक्षियों से जुड़ी लोककथाओं का एक संकलन है जिसे अनुवादित करके उसका नाटक के रूप में मंचन भी किया गया है। सांगमू यह भी स्पष्ट करती हैं कि नेपाल की नेपाली और उनकी भारतीय नेपाली में अंतर है। 'हमारी नेपाली हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी से बहुत प्रभावित है यह एक जात गोष्टी भाषा है,' वह बताती हैं। जो इस तथ्य को दोहराता है कि संचार की भाषा कभी शून्य में उत्पन्न

नहीं होती, न ही उसका कोई एक रूप शुद्ध, श्रेष्ठ या उच्चतर होता है। भाषा जीवित चीजों - विशेष रूप से मनुष्यों - द्वारा रची जाती है और उनके उपयोग से उसका अस्तित्व बना रहता है।

यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ था और अनेक महिलाओं को उनके धैर्य, दृढ़ संकल्प, दृढ़ता, हास्य भावना और जादुई रचनात्मकता के लिए सराहा गया। विभा रानी, एक एकल थिएटर कलाकार, लेखक और कहानीकार है जो हिंदी में भी कुशल हैं, ने हमें न केवल मैथिली में कहानियाँ सुनाकर मोहित किया बल्कि विवाह समारोह में गाए जाने पारंपरिक मगालीफ गीतों से भी परिचय कराया, जिनमें दूल्हे/ससुराल वालों एवं अन्य रिश्तेदारों को खुलकर कोसा जाता है। उन्होंने मजाक में कहा, अगर किसी को इन गाली गीतों में शामिल नहीं किया जाए तो वो अपमानित महसूस करता है! वास्तव में, यह दावा करना अभिमानी नहीं होगा कि इस पुरुष प्रधान और सत्ताधारी दुनिया में अनेक महिलाओं के जीवित रह पाने का एक बड़ा कारण उनका हास्यबोध ही है। विभा ने हमारा परिचय गोनू झा से भी कराया जो मैथिली के बीरबल, तेनाली राम और नसरुद्दीन होदजा के समकक्ष माने जाते है।

'क्या आप जानते हैं कि सिंधी सबसे पुरानी भाषा है?' रश्मि रमानी ने कहा कि जब हम हवाई अड्डे से कल्याण में बापसाई की ओर जा रहे थे जहाँ आम के पेड़ों से भरा हमारा एक सुन्दर रिसॉर्ट स्थित था। मुझे यह नहीं पता था। मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं था। उन्होंने सिंधी भाषा और साहित्य पर किए गए अपने शोध और उस अलगाव एवं अकेलेपन की भावना के बारे में विस्तार से बताया जो भारत के सिंधियों को महसूस होती है क्योंकि उनका मूल प्रदेश सिंध, विभाजन के बाद भारत की सीमा से बाहर चला गया। 'जब मैं कुछ साल पहले सिंध गई तो वहाँ अपार स्नेह के साथ मेरा स्वागत हुआ और लोगों ने मुझे सिंधी में अपना शोध जारी रखने हेतु पूरे दिल से प्रोत्साहित किया। उन्हें मेरे कार्य पर बहुत गर्व था।' सिंधी भाषा की लिपि देवनागरी और अरबी दोनों है और रश्मि की कविताओं का पहला संग्रह सिंधी बाल गीत त्रिभाषीय रूप से प्रकाशित हुआ - सिंधी-देवनागरी, सिंधी-अरबी और हिंदी में। उनकी एक कविता में एक बच्चा सवाल करता है:

हवा किथा आंदी आहे/ पेर अथासी कोन/ पर हाले कीआन थी?/ हाथ अथासी कोन/ पर चूंएन कीआन थी?

(हवा कहाँ से आती है?/ इसके पैर नहीं होते/ यह कैसे चलती है?/ इसके हाथ नहीं होते/ यह कैसे छूती है?)

यह लेख अंबाई के जिक्र के बिना अधूरा होगा। सरमेला, *कलाइयरसी* (चेन्नई की एक तमिल लेखिका) और मैं तीनो एक ही उड़ान से मुंबई पहुँचें। वे एक-दूसरे को जानते थे मगर मैं नहीं। इसलिए जहाज से उतरने के बाद, मैं रैंप के नीचे अपने हाथों में अंबाई की एक किताब *डेथ ऑफ अ सारस क्रेन* लिए खड़ी थी! जैसे ही उन दोनों ने उस किताब को और फिर मुझे देखा, वे खुशी से चिल्ला पड़ी और वहीं से हमारी दोस्ती की शुरूआत हुई। वे अंबाई और उनके लेखन की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं मगर उनसे कभी मिली नहीं थी। अब बापसाई में उनका वह सपना साकार हो गया। प्रिय पाठकों, अंबाई से आपकी मुलाकात किसी और दिन जरूर होगी - यह वादा रहा। फिलहाल, आप उन्हें उन लेखिकाओं की बातचीत और अनुभवों के ज़रिए जानें जिनके लिए उन्होंने इस आयोजन में कहानियों और साझेदारी की एक अद्भुत दुनिया रची। उन्होंने हर लेखिका को यह महसूस कराया कि वह अपने जीवन में जो कुछ भी कर रही है वह सार्थक है और उनका प्रत्येक संघर्ष एवं चुनौती व्यर्थ नहीं बल्कि मूल्यवान हैं। हालांकि हम जानते हैं कि कुछ भाषाओं को दूसरी भाषाओं की तुलना में अधिक मंच और मान्यता मिलती है लेकिन अम्बाई ने हमें उन अन्य भाषाओं को सुनने का अवसर दिया जो कम दिखाई देती हैं मगर समान रूप से प्रभावशाली है और बहुत अधिक भावनात्मक और मार्मिक हो सकती हैं।

इस सम्मेलन में कई लेखिकाएं थी, तमिल, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी, असमिया, गुजराती और मराठी सहित कई भाषाएं थी... संगीत था, रंगमंच था, बच्चे थे। हालांकि जिस लेखिका ने हमारी आंखों के सामने एक होनहार कथाकार का रूप ले लिया अंत में उसका वर्णन किया जाना तो बनता है। गोवा की हर्षा सदगुरु शेट्टी ने जिस तरह से एक उल्लू की कहानी सुनाई जो स्थानीय मेले में जाना चाहता था उसे सुनकर हम सभी पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए। कोंकणी में! कौन विश्वास करेगा कि यह उनका कहानी सुनाने का पहला अनुभव था! मराठी बोलने वालों को सब समझ आया मगर बाकी लोग उनकी भाषा नहीं समझ पाए। फिर भी, हमने यह समझ लिया कि वह क्या कहना चाहती थी। लगभग हर शब्द! यही है सुनने की ताकत।

> **भाषा कभी शून्य में उत्पन्न नहीं होती, न ही उसका कोई एक रूप शुद्ध, श्रेष्ठ या उच्चतर होता है। भाषा जीवित चीजों - विशेष रूप से मनुष्यों - द्वारा रची जाती है।**

संध्या राव (हमारी स्तंभकार) चेन्नई से इरोड सरमेला और कलयारासी के साथ।

स्तंभकार बच्चों की लेखिका और वरिष्ठ पत्रकार हैं।

अपने बैग-पैक का अच्छा उपयोग करें

भरत और शालन सवुर

आपके कंधे, चाहे झुके हुए हों या चौकोर, पहली छाप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। झुके हुए कंधे नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जबकि सीधे कंधे सकारात्मक प्रभाव का संकेत देते हैं। दोनों के लिए वास्तविक जीवन के उदाहरण: एक गाँव की महिला अपने सिर पर पानी का घड़ा लेकर चलती है, जो शहरी फैशन मॉडल का ग्रामीण उदाहरण है, जो कपड़े प्रदर्शित करती है। फिर, सामान ढोने वाला कुली (जैसे रेलवे स्टेशन पर) है। उपरोक्त व्यवसाय रीढ़ की हड्डी की मुद्रा के बाहरी उदाहरण हैं जो दीर्घायु और शरीर की आंतरिक शक्ति को दर्शाते हैं।

रकिंग: दो-में-एक पैकेज

मानव जीवन और व्यवहार का अध्ययन करने वाले समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों का निष्कर्ष है कि हमारे संवादात्मक संचार का एक बड़ा हिस्सा गैर-मौखिक होता है। हमारी शारीरिक भाषा अन्य मनुष्यों से संवाद करने और उनसे जुड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनती है। मौन रहना, सिर हिलाना या कंधे उचकाना हमारी सामाजिक बातचीत के बराबर है।

रकिंग से शारीरिक भाषा में निखार आता है, जैसा कि गांव की महिला और रेलवे कुली के अभ्यास से स्पष्ट होता है। उनका यह अभ्यास वर्षों की कड़ी मेहनत और कौशल का परिणाम होता है, जो रीढ़ के पूरे क्षेत्र - सिर से लेकर कूल्हों तक को सशक्त बनाता है। रकिंग से आपको भी यही लाभ मिल सकते हैं, क्योंकि यह वेट-ट्रेनिंग को कार्डियो-वैस्कुलर प्रभावों के साथ जोड़ता है।

फिटनेस की भाषा में, रकिंग का अर्थ है चलते समय एक भरे हुए रक्सैक को उठाना, और इसी कारण से इसे यह नाम दिया गया है। हम आदर्श एरोबिक लाभ के लिए सप्ताह में तीन दिन, प्रतिदिन एक घंटे का कार्यक्रम सुझाते हैं। रकिंग शुरू करते समय धीरे-धीरे शुरुआत करें। और हर 10 मिनट में एक किलोमीटर, यानी छह किलोमीटर प्रति घंटे का लक्ष्य रखते हुए धीरे-धीरे गति बढ़ाएं।

आपको एक बैक-पैक, मोजे, कुशनिंग और मजबूत सस्पेंशन वाले अच्छे वॉकिंग/जॉगिंग जूते की आवश्यकता होगी। रकिंग विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए आदर्श वजन: महिलाओं के लिए 10 किलोग्राम और पुरुषों के लिए 20 किलोग्राम। हालाँकि, एक ऐसा भार चुनें जिसे आप एक घंटे तक आराम से उठा सकें।

इस एक घंटे के सत्र को दो हिस्सों में बाँटना चाहिए। पहले भाग में, लगभग 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 मिनट की रकिंग करें। यदि संभव हो, तो लक्षित समय को पूरा करने के लिए हर 10 मिनट पर धीमी और तेज गति के बीच बारी-बारी से बदलाव करें। दूसरे भाग में, हर 10 मिनट पर 10 पुश-अप (यदि संभव हो तो रक्सैक के साथ) और 10 ओवरहेड प्रेस (बेंच-प्रेस का एक ऊर्ध्वाधर संस्करण) शामिल करें, जिसमें आप बैकपैक को छाती के स्तर से उठाते हैं और तब तक ऊपर ले जाते हैं जब तक कि आपकी भुजाएं कंधों के ऊपर पूरी तरह सीधी न हो जाएं।

आप इनडोर ट्रेडमिल पर भी दौड़ सकते हैं। हालाँकि, जहाँ और जब भी संभव हो, बाहर दौड़ना बेहतर होता है। क्योंकि, इससे संज्ञानात्मक कार्य, मस्तिष्क गतिविधि, रक्तचाप, मानसिक स्वास्थ्य और नींद में और अधिक सुधार होता है।

हमारे समग्र दृष्टिकोण के अनुसार, रकिंग हर पहलू में वैकल्पिक है: चाहे वह पसंद हो, गति हो या भार। हालाँकि, जहाँ यह गंभीर बोनस अंक प्राप्त करता है, वह है इसका बैकपैक अनुप्रयोग और उपकरण। इसे पहनने से तुरंत पीठ सीधी हो जाती है। और आप चाहें तो बैग में केवल तरल पदार्थ/पानी भी भर सकते हैं। याद रखें: एक लीटर पानी का वजन लगभग एक किलोग्राम होता है। इसलिए, अपने लोड फैक्टर की योजना उसी अनुसार बनाएं। और इस घंटे के बाद खुद को भरपूर मात्रा में हाइड्रेट करें।

रकिंग आपको जीवन के बदलते मौसम और समय की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाएगी। इसलिए, गर्व के साथ आगे बढ़ें। रकिंग की दूरी ही आपकी ताकत है।

टेलपीस: बैग नीचे

महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्कूल-शासक अधिकारियों को 10 मबैगलेस डेजफ की सिफारिश की है। कक्षा VI से VIII तक के छात्र इसके दायरे में आते हैं। इन बैगलेस डेज का उद्देश्य बढ़ईगीरी, मिट्टी के बर्तन, विद्युत कार्य और बागवानी जैसे विषयों के साथ व्यावसायिक शिक्षा में व्यावहारिक अनुभव को बढ़ावा देना है। और स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों के साथ बातचीत करने के लिए उनके काम और पर्यावरण को बेहतर ढंग से समझने के लिए फील्ड विजिट करना है। कक्षा VIII तक के छात्रों को स्थापित नियमित विषयों के साथ-साथ इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्रति शैक्षणिक वर्ष 10 बैगलेस दिनों में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों, और शिल्प और पर्यटन स्थलों की यात्रा भी शामिल होगी।

कुछ स्कूलों ने इन प्रस्तावों को पहले ही शामिल कर लिया है। बैगलेस थीम सरकार के पहले के 'हैप्पी सैटरडे' कार्यक्रम का ही अगला कदम है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के छात्र कक्षा में पढ़ाई के बजाय मौज-मस्ती और खेल में शामिल होते हैं।

रकिंग शुरू करने के लिए यह एक आदर्श माहौल है, है न? कम उम्र से समग्र प्रशिक्षण मिलने पर स्वस्थ, लंबे और खुशहाल जीवन के लिए मजबूत आधार तैयार होता है।

लेखक फिटनेस फॉर लाइफ, *और* बी सिम्पली स्पिरिचुअल - यू आर नैचुरली डिवाइन *के लेखक है और फिटनेस फॉर लाइफ कार्यक्रम के शिक्षक है।*

रो ई मंडल **3100**

रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिड टाउन

डीजीएन पायल गौर ने शिक्षा देवी डिग्री कॉलेज सोहंजनी तगान और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय शाहपुर में वाटर कूलर का उद्घाटन किया। सामाजिक कार्यकर्ता श्यामपाल, पंचायत अध्यक्ष अकरम कुरेशी तथा रोटेरियन भी उपस्थित रहे।

Rotary PEOPLE OF ACTION

मंडल गतिविधियाँ

रो ई मंडल **3132**

रोटरी क्लब अंबाजोगाई सिटी

डीजी सुरेश साबू ने राजनीतिक प्रतिनिधियों और ग्राम विकास अधिकारियों की उपस्थिति में जोगईवाड़ी तालुका में स्थानीय पंचायत के साथ संयुक्त रूप से निर्मित अमरधाम कब्रिस्तान और धावड़ी शिवरा तालुका में एक बांध का उद्घाटन किया।

रो ई मंडल **3141**

रोटरी क्लब मुंबई कांदिवली वेस्ट

रोटरी फुटबॉल लीग का तीसरा संस्करण दो दिवसीय कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें 16 स्कूलों के लगभग 260 छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बंधन एएमसी द्वारा प्रायोजित इस खेल प्रतियोगिता की लागत ₹5 लाख रही।

रो ई मंडल 3142

रोटरी क्लब कल्याण

रोटरी की 120वीं वर्षगांठ (23 फरवरी) के उपलक्ष्य में आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ चेस एक्सीलेंस के साथ संयुक्त रूप से एफआईडीई रैपिड शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें महानिदेशक दिनेश मेहता मुख्य अतिथि थे। टूर्नामेंट में 18 राज्यों के 350 से अधिक खिलाड़ियों ने स्क्वायर बोर्ड पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

रो ई मंडल 3131

रोटरी क्लब पूना मिड टाउन

नेत्र रोगों के उपचार और संबंधित सर्जरी के लिए पुणे के ताराचंद अस्पताल को ₹55 लाख के चिकित्सा उपकरण दान किए गए। रोटरी क्लब लेक ब्यूना विस्टा, अमेरिका वैश्विक भागीदार था। डीजीई संतोष मराठे और क्लब के अध्यक्ष अभिजीत म्हसकर उपस्थित थे।

रो ई मंडल 3240

रोटरी क्लब इम्फाल

क्लब की 52वीं चार्टर नाइट के अवसर पर, सदस्य तोमचा सिंह ने रोटरी के विषय पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने डॉक्टर एम. वीटो और डॉक्टर केश चिंगथांग को पीएचएफ पिन प्रदान किए, जबकि वरिष्ठ सदस्य अखम नीलमणि को स्कार्फ और फोर-वे टेस्ट पट्टिका से सम्मानित किया गया।

रो ई मंडल 3182

रोटरी क्लब कल्लियांपुर

डीजी देव आनंद ने कल्लियांपुर के गोरेट्टी अस्पताल को पोर्टेबल एक्स-रे मशीन (₹1.57 लाख) सौंपी। इस मंडल अनुदान परियोजना को रोटरी क्लब चेस्टर काउंटी, अमेरिका के वसंत प्रभु ने समर्थन दिया। इस अवसर पर एजी राघवेंद्र समागा, क्लब अध्यक्ष बैपटिस्ट डेस और अन्य मंडल नेता भी उपस्थित थे।

वी मुत्तुकुमारन द्वारा संकलित

रो ई दक्षिण एशिया कार्यालय से

क्लबों और मंडलों के लिए एंडोमेंट फंड चैलेंज अवॉर्ड्स

2025 तक 2.025 बिलियन डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए, टीआरएफ न्यासी भरत पांड्या और ईएमजीए द्वारा एक एंडोमेंट फंड चैलेंज प्रस्तुत किया गया है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस विशेष पहल का लाभ उठाएं और अपने मंडलों एवं क्लबों को उनके एंडोमेंट फंड लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करें। यह पुरस्कार नवंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले रोटरी संस्थान में प्रदान किया जाएगा।

सभी मंडलों के लिए एंडोमेंट फंड चैलेंज इस प्रकार है:

मानदंड

The Champions Trophy	:	$500,000 and above
The Platinum Trophy	:	$300,000 to $499,999
The Gold Trophy	:	$200,000 to $299,999
The Silver Trophy	:	$100,000 to $199,999

सभी क्लबों के लिए एंडोमेंट फंड चैलेंज इस प्रकार है:

मानदंड

The Champions Trophy	:	$150,000 and above
The Platinum Trophy	:	$100,000 to $149,999
The Gold Trophy	:	$75,000 to $99,999
The Silver Trophy	:	$50,000 to $74,999

नोट:

1. जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक एंडोमेंट फंड में किए गए योगदान ही गणना में शामिल होंगे।
2. अधिक जानकारी या किसी भी प्रकार की शंका के लिए, कृपया अपने क्षेत्र के एंडोमेंट/मेजर गिफ्ट्स एडवाइज़र से संपर्क करें:
   पीडीजी आशीष अजमेरा: ईएमजीए ज़ोन-4;*ashishajmera27@hotmail.com*;
   पीडीजी माधव चंद्रन: ईएमजीए ज़ोन-5; *madhav.chandran@ymail.com*;
   पीडीजी राजीव शर्मा: ईएमजीए ज़ोन-6; *rtn.rajiv.3030@gmail.com*;
   पीडीजी सैम मोवा: ईएमजीए ज़ोन-7; *sammovva@yahoo.com*

संस्थान मान्यता अंक हस्तांतरण प्रसंस्करण के लिए वर्ष के अंत की समयसीमा

मान्यता हस्तांतरण अनुरोध फॉर्म, जिसकी तिथि 30 जून 2025 से आगे नहीं होनी चाहिए, उसे शुक्रवार, 4 जुलाई 2025 को शाम 5 बजे तक रोटरी अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण एशिया कार्यालय में प्राप्त हो जाना चाहिए ताकि उसे रोटरी वर्ष 2024-25 में क्रेडिट किया जा सके। *इस समयसीमा के बाद प्राप्त फॉर्म स्वतः अगले वर्ष 2025-26 में क्रेडिट किए जाएंगे।*

कृपया पूरी तरह से भरा, हस्ताक्षरित और पीडीएफ प्रारूप में स्कैन फ़ॉर्म को मनु जोशी को ईमेल करें: *Manju.Joshi@rotary.org*

योगदानों के पुनर्वर्गीकरण (सुधार) के लिए टीआरएफ दिशानिर्देश

यदि आप किसी योगदान को एक श्रेणी से दूसरी में वर्गीकृत करना चाहते है, जैसे एंडोमेंट या अनुदानों या पोलियो से वार्षिक दान में (परंतु वार्षिक दान से अनुदानों में वर्गीकरण की अनुमति नहीं है), तो **21 जून 2025** तक अपना अनुरोध भेजें।

जिससे ये अनुरोध 30 जून 2025 तक संसाधित किए जा सकेंगे। इन दिशानिर्देशों का पालन करने से वार्षिक ऑडिटेड वित्तीय रिपोर्ट और मंडल नामित निधि (डीडीएफ) की पारदर्शिता और अखंडता बनी रहेगी।■

2024–25 Annual Fund (AF) Challenge

Brought to you by TRF Trustee Bharat Pandya and Zones 4, 5, 6 & 7 RRFCs

	Champion	Platinum	Gold	Silver
For District	District achieving AF per capita of $200 or more	100% members contributing $25 or more to AF, or the district reaching an AF per capita of $175 or more	At least 75% members contributing $25 or more to AF, or the district reaching an AF per capita of $150 or more	At least 50% members contributing $25 or more each to the AF, or the district reaching AF per capita of $100 or more
For Club	NA	Minimum $25 contribution by each member along with on AF per capita of $200	Minimum $25 contribution by each member along with AF per capita of $100	Minimum $25 contribution by each member
Eligibility criteria	To be eligible for district award, the district must achieve 100% clubs giving with minimum $100 from each club			

पॉल हैरिस सोसाइटी अवार्ड

प्रत्येक जोन, मंडल से सबसे अधिक नए पीएचएस सदस्य (न्यूनतम 20 नए पीएचएस सदस्य) जिनकी समग्र पात्रता 80 प्रतिशत (अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने वाले पीएचएस सदस्यों का प्रतिशत) है, वे इस पुरस्कार के लिए पात्र होंगे।

सदस्यता सारांश

1 मई 2025 तक

स्रोत: रो ई दक्षिण एशिया कार्यालय

रो ई मंडल		रोटरी क्लब	रोटेरियनों की संख्या	महिला रोटेरियन (%)	रोटरेक्ट क्लब	रोटरेक्ट सदस्य	इंटरेक्ट क्लब	आरसीसी
2981		142	6,019	5.68	56	110	35	255
2982		91	4,076	5.86	33	490	97	188
3000		149	6,272	11.64	93	1,215	244	218
3011		136	5,336	30.88	72	1,924	235	41
3012		159	3,982	24.81	55	646	102	61
3020		82	4,634	8.01	46	698	178	351
3030		103	5,569	16.20	62	975	513	400
3040		102	2,376	14.86	35	757	63	216
3053		76	3,195	17.78	23	332	43	131
3055		85	3,470	12.28	49	682	59	400
3056		85	3,822	24.83	21	187	110	201
3060		101	5,172	15.62	52	1,836	78	154
3070		116	3,107	15.35	36	352	73	64
3080		114	4,459	13.90	59	1,972	212	127
3090		134	2,607	6.29	24	368	359	174
3100		115	2,203	10.39	17	112	41	151
3110		137	3,742	12.00	22	216	104	114
3120		90	3,865	15.86	34	478	43	58
3131		137	5,514	35.67	123	2,632	304	244
3132		99	3,853	14.77	32	381	198	227
3141		123	6,653	28.86	124	3,550	216	248
3142		115	4,074	23.05	55	1,650	140	99
3150		106	4,096	12.87	83	1,684	126	130
3160		78	2,483	9.02	26	94	100	82
3170		144	6,670	15.04	89	1,051	203	184
3181		91	3,799	11.06	40	444	136	122
3182		87	3,761	11.01	49	304	118	105
3191		90	3,353	19.86	74	1,822	199	36
3192		84	3,439	22.10	63	1,685	163	40
3201		174	6,761	10.19	112	1,975	119	98
3203		101	5,277	7.58	47	749	158	39
3204		84	2,837	9.98	27	295	23	22
3211		162	5,324	9.34	13	206	33	135
3212		120	4,708	10.77	89	607	215	153
3231		94	3,659	7.24	35	436	117	421
3233		88	3,348	18.37	61	1,752	55	63
3234		79	3,230	24.06	64	1,580	95	42
3240		100	3,520	17.02	43	761	75	251
3250		113	4,407	23.51	37	537	78	193
3261		100	3,427	24.22	18	112	37	46
3262		118	3,932	16.35	84	814	655	294
3291		144	3,793	27.55			95	776
India Total		**4,504**	**175,824**	**16.19**	**2,177**	**38,471**	**6,247**	**7,354**
3220	**Srilanka**	72	2,107	16.85	86	3,730	144	78
3271	**Pakistan**	108	1,483	20.70	106	492	275	28
0063 (3272)	**Pakistan**	76	1,167	19.54	48	293	23	49
0064 (3281)	**Bangladesh**	247	5,314	17.26	185	1,012	120	211
0065 (3282)	**Bangladesh**	141	2,896	8.84	167	1,103	26	48
3292	**Nepal**	161	5,698	22.10	159	5,365	128	143
S Asia Total		**5,309**	**194,489**	**16.35**	**2,928**	**50,466**	**6,963**	**7,911**

दराज़ बनवाऊं या न बनवाऊं...

LBW



टीसीए श्रीनिवासा राघवन

दो महीने पहले मेरी 98 वर्षीय मां का निधन हो गया। वह हमारे घर के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद इकलौते बेडरूम में रहती थीं। यह ठीक था, लेकिन जैसे-जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है और मेरे पैरों की स्थिरता कम हो रही है, दिन में करीब 25 बार सीढ़ियां चढ़ना-उतरना मेरे गिरने की संभावना को लगातार बढ़ा रहा है। इसलिए पिछले महीने मैंने तय किया कि मां का पुराना कमरा फिर से बनवाऊं ताकि मैं नीचे शिफ्ट हो सकूं। लेकिन हाय! ज़िंदगी कभी इतनी आसान नहीं होती। हर छोटे-बड़े फैसले पर मेरी पत्नी और मैंने विचार करके सहमति बना भी ली, तो अब एक बड़ी नीति संबंधी समस्या खड़ी हो गई है - क्या मैं अपनी नई अलमारी में बढ़ई से दराज़ बनवाऊं या नहीं? मेरी पत्नी कहती हैं, हां। मैं कहता हूं, नहीं। मेरा बेटा, जो आम तौर पर बहुत अच्छे स्वभाव का है, कहता है - मुझे इन छोटी बातों में मत घसीटो।

तो अब यह दराज़ समस्या बिल्कुल कश्मीर समस्या की तरह जटिल हो गई है। यह एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई का उत्कृष्ट उदाहरण बन गई है। इसके पक्ष और विपक्ष में सभी तर्क समान रूप से वैध हैं। आप पूछ सकते हैं, मुझे दराज़ से क्या परेशानी है? वास्तव में, बहुत सारी है। ये, बिना किसी संदेह के, बेहद झंझट भरी होती हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि ये कितने तरीकों से परेशान कर सकती हैं।

सबसे पहले तो, संख्या का सवाल है। अलमारी में कितनी दराज़ होनी चाहिए? एक से लेकर छह तक हो सकती है। फिर सवाल आता है: कितनी बड़ी? कितनी गहरी? कितनी लंबी? हमारे पास हर तरह की दराजें हैं। कुछ गहरी हैं पर लंबी नहीं। कुछ लंबी हैं लेकिन गहरी नहीं। कई तो बस तीन इंच बाय पांच इंच जितनी छोटी है। हमारे पास एक सेट ऐसा भी है जो दो फीट लंबा और 10 इंच गहरा है। यह पूरी तरह बेकार है, लेकिन शीशम की लकड़ी से बना हुआ है। मेरे पिता ने इसे 70 साल पहले बनवाया था। और वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें ससुराल में थोड़ी शीशम की लकड़ी बची हुई मिल गई थी। उन्हें चीज़ें बर्बाद करना पसंद नहीं था। जो भी वजह रही हो, वो दराज़ का सेट आज भी मौजूद है - मेरी तरह भारी, और मेरी पत्नी की नज़र में, उतना ही बेकार। और भी बुरा यह है कि वह मेरी ही तरह सजावटी भी नहीं है।

अलमारी के अंदर बनी दराज़े या दराज़ों वाली अलमारी एक और मुश्किल खड़ी करती हैं। इनमें चीजें डालना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उन्हें निकालना बेहद मुश्किल। आप भूल भी जाते हैं कि इनमें क्या रखा है। पिछली बार जब हमने पांच साल पहले साफ-सफाई की थी, तो हमें अलग-अलग कमरे की अलमारियों की करीब दर्जन भर दराज़ों में सिगरेट और लाइटर मिले। मेरे बेटे, कहना पड़ेगा, इस मामले में निष्पक्ष रहे: उन्होंने कोई भी दराज़ नहीं छोड़ी। उन्हें पता था कि हम इन दराज़ों की कभी जांच नहीं करते। इन कमबख्त दराज़ों की एक और बड़ी समस्या तब होती है जब उनका हैंडल टूट जाता है और यह कभी-कभार होता ही है। उसके बाद उन्हें बिना उंगलियां ज़ख्मी किए खोलना नामुमकिन हो जाता है।

एक दराज़ के सेट में हमने बिल्ट-इन हैंडल लगवाए। सोचा, ये तो कभी टूटेंगे नहीं। लेकिन कुछ समय बाद उनमें उंगली डालकर खींचना इतना मुश्किल हो गया कि दराज़ खोलना भारी काम बन गया। और फिर वो दराज़े भी होती हैं जो अटक जाती हैं - या तो लकड़ी फूलने के कारण, या फिर कोई कागज़ या और कुछ अंदर फंसने के कारण। हमारे पास ऐसी तीन दराज़े हैं जो पिछले पांच सालों से खुल ही नहीं रही। सोचकर ही डर लगता है कि उनमें मेरे बेटों ने क्या-क्या भर दिया होगा।

एक दराज़ के सेट में एक बढ़ई ने दयालुता दिखाते हुए रोलर और रेल सिस्टम लगा दिया। शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर हमें पता चला कि छह में से दो दराज़ों की रेल ठीक से लगाई ही नहीं गई थी। वे हल्के से ऊपर की तरफ झुकी थीं। नतीजा: वो दोनों दराज़े हर बार कुछ इंच बाहर निकल आती हैं। अगर आप सावधान नहीं रहें, तो संवेदनशील हिस्सों में चोट भी लग सकती है। तो शुक्रिया, मुझे दराज़े नहीं चाहिए।

RJ MANTRA ENGLISH SCHOOL

IDHAYAM RAJENDRAN CHARITIES, AFFILIATED TO CISCE-TN 082.
VIRUDHUNAGAR, TAMILNADU.

SCHOOL ADMISSION

2025 2026

General schools often focus on academic subjects and may not always teach children essential life skills which are crucial for personal growth and success in life.

LIFE SKILLS THAT MANTRITES ARE FACILITATED TO OWN

- Time Management
- Critical thinking and problem solving
- Conflict Management
- Emotional Intelligence and mental health

www.rjmantra.com | 9489067789 | 8903660689 | admin@rjmantra.com

ADVT.

Registered No. TN/CCN/359/2024-2026 | Total number of pages in this monthly
Licensed to post WPP No.TN/PMG(CCR)/WPP 421/24-26 | issue, including cover, 84. Price: ₹40
Regd with RNI TNHIN/2001/05271. Rotary Samachar Published 1st week of every month. Posted at Egmore RMS Patrika Channel. Date of posting: 6–12 every month.

THE MAGIC OF ROTARY



Rotary District 3212



kauvery hospital Tirunelveli

ROTARY KARMAVEERAR KAMARAJAR HEART CARE BUS

Heart care bus is a Clinic on wheels.

It goes to multiple locations throughout the Rotary International District 3212.

Rotary International District 3212 shares the vision of 'Karmaveerar Bharat Ratna K.Kamarajar' in uplifting the quality of life in rural Tamilnadu. Rotary Heart Care bus takes the privilege to serve the underprivileged villages and towns to take Heart Check-ups and save their lives by availing due medical treatment for heart problems.

HEART CARE BUS FEATURES

- Digitalized BMI Vital Screening
- Electro Cardiogram (ECG)
- Echo Cardiogram
- Defibrillator
- Physician Consultation
- Telemedicine Consultation

HEART CAMP DETAILS From 03.07.2024 to 18.05.2025

Total No.of Camps	62
No.of Beneficiaries	7,353

No.of ECG Done	No.of ECHO Done	No.of Patients Referred to Hospital
3195	1660	581

LEKHA ads/ June 25/ Rotary/BW

GG- 2341081

International Partners: Rotary Club of LAS VEGAS WON

RID District 5300

Primary Contact :
Rtn.A.S.P.Arumugaa Selvan

International Partner
PDG.Rtn.Chehab El Awar

Clubs to Contact for Heart Care Camp **Rtn. T. SUDALAIVEL** - +91 97509 55445 Rotary club of Virudhunagar Idhayam

ADVT.